



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012—ज्येष्ठ 11, शक 1934

#### आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

एफ. 3-131-2012-बत्तीस.—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अप्रैल 2012 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

नियम  
भाग — एक  
सामान्य —

1. संक्षिप्त नाम— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 है।  
(2) ये नियम, इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (1) “अतिरिक्त उपयोग” से अभिप्रेत है, परिसर का कोई ऐसा उपयोग जो कि मूल उपयोग के अधीन हो तथा प्रचलित तौर पर मूल उपयोग के आनुषंगिक हो;
- (2) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973);
- (3) “परिवर्तन” से अभिप्रेत है, एक अधिभोग से दूसरे अधिभोग में परिवर्तन अथवा कोई संरचनात्मक परिवर्तन जैसे कि क्षेत्रफल या ऊंचाई में कोई वृद्धि अथवा किसी भवन के किसी भाग का हटाया जाना अथवा संरचना में कोई परिवर्तन जैसे कि किसी दीवार, विभाजक, कॉलम, बीम, कड़ी, फर्श या अन्य अवलम्ब का निर्माण करना या कराना या हटाना अथवा प्रवेश या निर्गम के किन्ही मार्गों में परिवर्तन या उन्हें बंद करना अथवा जुड़नार या उपस्करों में कोई परिवर्तन;
- (4) “अनुमोदित” से अभिप्रेत है, अधिकारिता या शक्ति रखने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;
- (5) विकास तथा भवन निर्माण गतिविधियों के संबंध में “ अधिकारिता रखने वाला प्राधिकारी ” (जो इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) से अभिप्रेत है,—
  - (क) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा आयोजना क्षेत्रों में तथा ऐसे आयोजनेतर क्षेत्रों में भी जहां ये नियम अधिसूचना द्वारा लागू किए गए हैं, भूमि के विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।
  - भूमि के विकास में सम्मिलित है—
    - (एक) भूमि में कोई सारवान परिवर्तन करना जिसमें उसका उप विभाजन एवं अधिभोग के रूप में उसके उपयोग में परिवर्तन सम्मिलित है।
    - (दो) किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण।
    - (ख) यथारिथति, नगरपालिक निगम अथवा नगरपालिका परिषद् अथवा नगर परिषद् अथवा सुसंगत नगरपालिक विधि द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अथवा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन उनकी अपनी अपनी

अधिकारिता के भीतर भवन निर्माण/उसमें परिवर्तन, उसे गिराने की अनुज्ञा देने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत ग्राम पंचायत या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी।

**स्पष्टीकरणः—** (1) अभिव्यक्तियां “नगरपालिक निगम” अथवा “नगरपालिक परिषद्” अथवा “नगर परिषद्” में, जहां कहीं भी संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 423 के अधीन निर्दिष्ट प्रशासक अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 328 अथवा धारा 337 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त “व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति” सम्मिलित है;

(2) अभिव्यक्ति “ग्राम पंचायत” में, जहां कहीं भी संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त “व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति” अथवा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 87 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्राधिकारी;

(6) “बालकनी” से अभिप्रेत है, गलियारे अथवा बैठने के स्थान के रूप में काम में आने वाला कोई निर्गत भाग जिसमें रैलिंग अथवा जंगला सम्मिलित है;

(7) “तहखाना” से अभिप्रेत है, भवन का वह भाग जो कि कुर्सी स्तर (प्लिंथ लेवल) से नीचे निर्मित किया गया हो तथापि, कतिपय मामलों में जहां स्थल की स्थलाकृति इस प्रकार की हो वहां भूमि या संदर्भित स्तर के नीचे का भवन का भाग भी तहखाना कहा जा सकेगा;

(8) “भवन निर्माण कार्यकलाप” से अभिप्रेत है :—

(क) किसी भवन का परिनिर्माण, पुनर्परिनिर्माण उसमें सारवान् परिवर्तन तथा उसे गिराया जाना;

(ख) संयोजित भवन योजना तथा संगठित भूमि विकास के रूप में भूमि का विकास करना;

(ग) भूमि के किसी क्षेत्र का विकास तथा पुनर्विकास जिसमें सम्मिलित है किसी कालोनी के भीतर भू—खण्डों में अथवा विभिन्न भू उपयोगों में विभाजन एवं उप विभाजन।

**टिप्पणी—(1)** उपरोक्त सभी तीन मामलों में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा यथास्थिति विकास अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी अथवा इससे इंकार किया जा सकेगा;

- (2) भवन अनुज्ञा, यथारिथति, नगरपालिक निगम या नगरपालिक परिषद् या नगर परिषद् या ग्राम पंचायत द्वारा उनकी अपनी अपनी अधिकारिताओं के भीतर प्रदान की जाएगी या प्रदान करने से इंकार किया जाएगा।
- (9) “भवन ऊंचाईया किसी भवन की ऊंचाई” से अभिप्रेत है, भवन की लंबवत लंबाई जिसकी गणना भूतल या संदर्भ तल से की जाएगी। ऐसे भूतल या संदर्भ तल उस भूखण्ड या भूमि के जिससे अभिगम लिया जाना है अग्रभाग के केंद्र बिंदु पर होगा। यदि स्थल ढालयुक्त है तो संदर्भ तल उस भूखण्ड अथवा भूमि के, जिससे कि अभिगम प्राप्त किया जाना है अथवा भूखण्ड के औसत स्तर के, दोनों में से जो भी ऊँची हो उसके समक्ष विद्यमान या प्रस्तावित मध्यरेखा पर से लिया जाएगा। भवन ऊंचाई की गणना करने में मशीन कक्ष, मम्टी, उत्थापित, तल, पोडियम, सेवा तल, वाहन स्थान (पार्किंग) तल समिलित नहीं किए जाएंगे। किसी भवन की ऊंचाई की गणना में निम्नलिखित संबद्ध संरचनाएं समिलित नहीं की जाएंगी। यदि ऐसी संरचनाओं का कुल क्षेत्र उस भवन की छत के उस क्षेत्र से, जिस पर कि वे निर्मित किए गए हैं, एक तिहाई से अधिक नहीं है,—
- (क) पानी की टंकियां तथा उनके अवलंब;
  - (ख) चिमनियां, संवातन, पाइप, वातानुकूलन, लिफ्ट कक्ष तथा सदृश सेवा उपकरण;
  - (ग) पौधों आदि के लिए अस्थाई शेड; और
  - (घ) मुंडेर दीवाल (पेरापेट वाल) तथा वास्तुकीय विशिष्टियां जो कि ऊंचाई में 1.5 मीटर से अधिक न हो;
- (10) “भवन रेखा” से अभिप्रेत है, वह रेखा जहां तक किसी भवन की कुर्सी स्थल पर विधिपूर्वक बढ़ाई जा सकती है, जो सड़क के भावी निर्माण के लिए निश्चित या आरक्षित सड़क अथवा किसी सड़क के किसी विस्तार अथवा भूमि की किसी पट्टी से संसक्त है तथा ऐसी रेखा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रेखांक, समन्वय रेखांक अथवा योजना में इस रूप में विहित की गई है;
- (11) “छज्जा” से अभिप्रेत है, ढालू अथवा आड़ा संरचनात्मक निकासा (ओवर हेंग) जो कि साधारणतः सूर्य तथा बारिश से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाहरी दीवालों के खुले भाग पर बनाया जाता है, तथा इसमें वास्तुकीय विस्तार समिलित है;
- (12) “चिमनी” चिमनी से अभिप्रेत है सीधा खड़ा खम्बानुमा कूपक (अपराइट शाफ्ट), जिसमें उष्मा पैदा करने वाले संधियों या उपकरणों द्वारा ठोस, तरल या गैसीय इंधन के जलने

से पैदा होने वाले पदार्थों को बाहर वायु में निकालने के लिये एक या अधिक धुआं निकालने वाली नालिकाएं होती हैं :

- (13) "चौक या आंगन" से अभिप्रेत है, वह स्थान जो रथाई रूप से खुला हो, भवन से पूर्णतः या अशंतः घिरा हो और वह भवन के भीतर या उससे लगी हुई जमीन पर या किसी अन्य तल पर हो सकता है;
- (14) "भीतरी चौक" से अभिप्रेत है, सभी तरफ से घिरा हुआ चौक;
- (15) "बाहरी चौक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा चौक जो कम से कम एक तरफ से घिरा न हो;
- (16) "शुद्ध ऊंचाई" सें अभिप्रेत है, ऐसी लम्ब रूप दूरी जो पूर्णतः निर्मित तल से बीम के अंदर की ओर ऊंचाई तक जो छत का आधार हो;
- (17) "संहिता" से अभिप्रेत है, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा यथा प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एन.बी.सी.);
- (18) "संपरिवर्तन" से अभिप्रेत है, किसी परिसर के अधिभोग का किसी ऐसे अन्य अधिभोग या उपयोग में परिवर्तन जिसके लिए अतिरिक्त अधिभोग का अनुज्ञा पत्र अपेक्षित हो;
- (19) "कोने का स्थान" से अभिप्रेत है, वह स्थान जो दो या दो से अधिक परस्पर एक दूसरे को काटने वाली सड़कों के संधि स्थान पर स्थित हैं;
- (20) "आच्छादित क्षेत्र अथवा आधार क्षेत्र" से अभिप्रेत है, भू-तल स्तर पर भवन की कुर्सी द्वारा आच्छादित भूमि का क्षेत्र। इसमें शीर्ष भाग पर छत द्वारा अनाच्छादित कुर्सी क्षेत्र अपवर्जित होगा। छत की ऊंचाई के बराबर परन्तु 4.5 मीटर तक के विस्तार तक सीमित स्लेब स्तर पर यानीय/पैदल संचलन के लिए स्पष्ट ऊंचाई के साथ कास निकला हुआ भाग आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पोर्च, सफाई नलिका (सर्विस डक्ट) भूतल पर 25 वर्ग मीटर से अनधिक के निजी गैरेज, पोडियम, स्टिल्ट, सीढ़ियां, अग्निनिकास, रैम्प, यन्त्रचालित वाहन क्षेत्र, रिफ्यूज, स्यूटस दो चौकीदार की हट तथा एक पम्प कक्ष, प्रत्येक 6 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो, प्रांगण यदि उसका उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नहीं होता है तथा लिफ्ट वेल, आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे;
- (21) "बन्द गली (कल डी सेक )" से अभिप्रेत है, ऐसी गली जिसका एक सिरा कोई और अभिगम उपलब्ध न कराने वाले बंद सिरे के रूप में खत्म होता है;
- (22) "घनत्व" से अभिप्रेत है, प्रति हेक्टर निवास इकाइयों की संख्या के रूप में यथा अभिव्यक्त आवासीय घनत्व।-

### स्पष्टीकरण.—

- (1) जहां कि ऐसे घनत्व, सामुदायिक सुविधाओं तथा खुले स्थानों तथा प्रमुख मार्गों (आनुषंगिक खुले स्थानों को छोड़कर) के लिए उपबंध को छोड़कर अभिव्यक्त किए गए हैं, वहां यह शुद्ध आवासीय घनत्व संज्ञापित करेंगे। जहां कि यह घनत्व खुले स्थानों तथा सामुदायिक सुविधाओं तथा प्रमुख मार्गों को सम्मिलित करने के पश्चात् अभिव्यक्त किए गए हैं, यह कुल आवासीय घनत्व संज्ञापित करेंगे;
- (2) आनुषंगिक खुले स्थान मुख्यतः प्रकाश तथा संवातन उपलब्ध कराने के लिए दो भवनों के मध्य, छोड़े जाने के लिए इन नियमों द्वारा अपेक्षित खुले स्थान हैं;
- (23) “विकास प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 38 अथवा उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन गठित किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधीन स्थापित कोई नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण;
- (24) “नाली” से अभिप्रेत है, पाइपों की एक कतार जिसमें समस्त फिटिंग्स तथा उपस्कर जैसे कि मेनहोल, निरीक्षण चेम्बर, ट्रेप्स, नाली और फर्श ट्रेप्स जो कि उसी कार्टिलेज के भीतर किसी भवन अथवा कुछ भवनों अथवा भवन से संबद्ध प्रांगण के जल निकास के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा उसमें सतही जल को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाली खुली जल सरणियां सम्मिलित होंगी;
- (25) “जल निकास” से अभिप्रेत है, इस प्रयोजन के लिए निर्मित किसी प्रणाली द्वारा किसी द्रव का निष्काषन;
- (26) “निवास— इकाई(वासगृह)” से अभिप्रेत है, रहने, पकाने तथा स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं के लिए पृथक् सुविधा के साथ कोई स्वतंत्र निवास— इकाई ;
- (27) “निकास” से अभिप्रेत है, किसी भवन, मंजिल या फर्श से किसी सड़क या किसी अन्य सुरक्षित खुले स्थान के लिए कोई मार्ग, गली या बाहर जाने के साधन;
- (28) “फार्म हाउस” से अभिप्रेत है, ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि नियम 17 में विनिर्दिष्ट है, निर्मित कोई आवास;
- (29) “तल” से अभिप्रेत है, किसी मंजिल में वह निचली सतह जिस पर कि किसी भवन में कोई सामान्य रूप से चलता है। सामान्य पद “फर्श”, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित न किया जाए, किसी “बीच के तल” मेजनाइन से संबंध नहीं रखेगा;

**टिप्पणी:** तल की अनुक्रमिक संरक्षा, अवधारक प्रवेश स्तर से इसके संबंध द्वारा अवधारित की जाएगी। भू—तल स्तर पर या उसके पूर्णतः ऊपर तलों के लिए सड़क या गली से सीधे प्रवेश के साथ भवन में निम्नतम तल भू—तल कहा जाएगा। प्रथम तल के ऊपर अन्य तलों को ऊपर की ओर बढ़ती संख्या में साथ द्वितीय तल, तृतीय तल इत्यादि, इस प्रकार अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा।

(30) “तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)” से अभिप्रेत है, किसी भवन में समस्त तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र का प्रश्नगत भूमि के कुल भूखण्ड क्षेत्र से अनुपात। निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत होगा समस्त तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र, लिफ्ट बेल, सर्विस डक्ट, लिफ्ट हेतु मशीन कक्ष, जल टंकियां, उत्थापक (एस्केलेटर), लिफ्ट लाबी, अग्नि निकास, रैम्प, रिफ्यूज स्यूट्स तथा सर्विस डक्ट बीच का तल (मेजनाइन फ्लोर) बालकनी (1.20 मीटर चौड़ाई तक), वाहन क्षेत्र (पार्किंग एरिया), वाहन तल (पार्किंग फ्लोर्स), यन्त्रचालित वाहन क्षेत्र, पोर्च, सर्विस फ्लोर्स, पोडियम, निजी गैरेज (25 वर्ग मीटर से अधिक), कर्मचारी आवास (25 वर्ग मीटर से अधिक), नियम 76 के अध्यधीन रहते हुए तल घर, गलियारे, आर्केड, लाबी, मर्टी, सीढ़ियां, प्रेश लाबी या फोयर्स, एट्रीयम, जो कि वाणिज्यिक कियाकलाप के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, पम्प कक्ष तथा दो चौकीदार के हट प्रत्येक 6 वर्ग मीटर से अधिक न हो, को छोड़कर परंतु इसमें सम्मिलित होंगे नियम 58 के अधीन विहित सीमाओं से अधिक आच्छादित बाहर निकले हुए भाग।

परन्तु, वाणिज्यिक उपयोग परिसर में, भूतल पर स्थित फोयर/फोयर्स एवं प्रवेश लॉबी/लॉबीज का क्षेत्रफल यदि स्वीकार्य आच्छादित भूतल क्षेत्र से 20 प्रतिशत से अधिक होता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जावेगी।

नोट— यदि निर्मित रूपरूप के नीचे का भाग, विद्यमान भूसंरचना के कारण आवास योग्य स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऐसा क्षेत्र आवास योग्य क्षेत्र के रूप में अनुमति किया जा सकेगा तथा तल क्षेत्र अनुपात के रूप में संगणित किया जाएगा;

(31) “अग्नि पृथक्करण” से अभिप्रेत है, स्थल पर किसी अन्य भवन से अथवा किसी अन्य स्थल से अथवा किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान की दूसरी ओर से भवन तक मीटर में नापी गई दूरी;

(32) “नींव” से अभिप्रेत है, संरचना का कोई भाग जो कि भूमि के सीधे संपर्क में है तथा भार पारेषित करता है;

(33) “सामने का खुला स्थान” अथवा सामने का सीमान्त खुला स्थान (एफ.एम.ओ.एस.) से अभिप्रेत है, किसी भूखण्ड के सामने आर-पार का खुला स्थान;

- (34) “भू स्तर” से अभिप्रेत है, वह भू अथवा संदर्भ स्तर जो कि ऐसे भूखण्ड अथवा भूमि के, जिससे कि अभिगम प्राप्त किया जाना है, अग्रभाग के केंद्र बिंदु पर हो सकेगा। यदि स्थल ढालू है तो संदर्भ स्तर उस भूखण्ड अथवा भूमि के, जिससे कि अभिगम प्राप्त किया जाना है अथवा भूखण्ड के औसत स्तर के, दोनों में से जो भी ऊंचा है, के समक्ष विद्यमान या प्रस्तावित पहुंच मार्ग अथवा सड़क की मध्य रेखा पर लिया जाएगा;
- (35) “समूह गृह निर्माण” से अभिप्रेत है, किसी अविभाजित भू-खण्ड पर कुछ निवास इकाईयों का निर्माण जो कि संपूर्ण एवं समग्र रूप से निर्मित हो जहां कि भूमि तथा भवन (वैयक्तिक इकाईयों को छोड़कर) संयुक्त रूप से धारित किए जाते हैं, भवन तथा सेवाएं संयुक्त रूप से संधारित किए जाते हैं तथा निर्माण एकीकृत इकाई के रूप में किया जाता है;
- (36) “निवास प्रयोजन” से अभिप्रेत है, कोई निर्मित स्थान जो एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा अध्ययन, रहने, सोने, खाने, पकाने के प्रयोजन के लिए अधिभोगित अथवा डिजाइन्ड है, परंतु इसमें र्नान गृह, शौचालय, कपड़े धोने का स्थान, वितरण तथा संग्रहण, रसोई भण्डार, गलियारे, सेलर, अटारियां (एटीक) तथा ऐसे स्थान जो कि बार बार अथवा लंबे समय तक उपयोग में नहीं आते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;
- (37) “निवास योग्य कक्ष” से अभिप्रेत है, निवास के प्रयोजनों के लिए अधिभोगित डिजाइन्ड कोई कक्ष;
- (38) “ऊंचे भवन” से अभिप्रेत है, कोई भवन,—  
 (क) जिसमें दस से अधिक मंजिलें हों, अथवा  
 (ख) जिसकी ऊंचाई 30 मीटर से अधिक हो
- टिप्पण: भवन की ऊंचाई से अभिप्रेत है नियम (2) के उपनियम (9) के अनुसार परिभाषित एवं परिकलित ऊंचाई।
- (39) “कगार (लेज) अथवा टांड (शेल्फ)” से अभिप्रेत है, टांड (शेल्फ) के सदृश, किसी भी रीति में, लंबवत् अवलम्बों के सिवाय किसी कक्ष के भीतर स्वतः बाहर निकला हुआ भाग परंतु जो एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो;
- (40) “अनुज्ञाप्त वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक समूह” से अभिप्रेत है, कमशः कोई अर्ह वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक समूह जो, जहां आवश्यक हो, प्राधिकरण द्वारा इस रूप में अनुज्ञाप्त किया गया हो;

- (41) “लिफ्ट या एस्केलेटर” से अभिप्रेत है, किसी निर्देशित पटल प्लेटफार्म के माध्यम से किसी लंबवत् या कुछ सीमा तक लंबवत् दिशा में दो या अधिक स्तरों (मंजिलों) के मध्य व्यक्तियों या सामग्रियों को लाने ले जाने के लिए बनाया गया कोई उपकरण;
- (42) “लाफ्ट” से अभिप्रेत है, दो तलों के मध्य कोई मध्यवर्ती तल जो कि सामान रखने के लिए निर्मित किया जाता है;
- (43) “मध्यतल (मेजनाइन)” से अभिप्रेत है, भू तल तथा प्रथम तल के बीच का कोई मध्यवर्ती तल;
- (44) “मल्टीप्लेक्स” से अभिप्रेत है, कोई भवन जो शापिंग क्षेत्र के साथ या उसके बिना दो या अधिक सिनेमा हाल से मिलकर बना हो;
- (45) “अधिभोग या उपयोग समूह” से अभिप्रेत है, वह मूल अधिभोग जिसके कि लिए कोई भवन अथवा किसी भवन का कोई भाग उपयोग किया जाता है अथवा अधिभोग के अनुसार किसी भवन के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो। कोई अधिभोग अनुषंगिक अधिभोगों को सम्मिलित करता समझा जाएगा, जो कि उस पर समाश्रित हो;

**स्पष्टीकरण:** अधिभोग का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:-

- (एक) “आवासीय भवन” में सम्मिलित है, कोई ऐसा भवन जिसमें भोजन पकाने या भोजन करने या दोनों सुविधाओं के साथ या उसके बिना सामान्य आवासीय प्रयोजनों के लिए सोने की व्यवस्था की गई है। इसमें सम्मिलित हैं, एकल या बहु परिवार निवास गृह, लाजिंग अथवा बोर्डिंग गृह, शयनागार (डोरमेटरीज), खंड गृह (अपार्टमेंट हाउसेज) तथा फ्लैट;
- (दो) “शैक्षणिक भवन” में सम्मिलित है शाला, महाविद्यालय या डे केयर प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाला कोई भवन जो शैक्षणिक भवनों के आनुषंगिक शिक्षण, शिक्षा अथवा मनोरंजन के लिए लोग एकत्रित होते हों;
- (तीन) “संस्थागत भवन” में सम्मिलित हैं, कोई भवन या उसका भाग जो अस्पताल, आरोग्य आश्रम (सेनेटोरिया), अभिरक्षक संस्था, दाण्डिक संस्थाओं जैसे जेल, कारागार, विधान सभा भवन, राजभवन, विश्वविद्यालय, दूतावास भवन, स्टाक एक्सचेंज, बीमा भवन, बैंक, संस्थाएं, अशासकीय संगठन, वित्तीय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कार्यालय भवन (सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी) तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हैं;
- (चार) “सभा भवन” में सम्मिलित हैं कोई ऐसा भवन या किसी भवन का भाग जहां लोगों का समूह आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नागरिक, यात्रा तथा

सदूश प्रयोजनों के लिए एकत्र या इकट्ठा होता है, उदाहरण के लिए थियेटर, चलचित्र गृह, सभागार (सभा भवन), प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, संग्रहालय, स्केटिंग रिंग, व्यायाम शाला, भोजनालय (रेस्टोरेंट), पूजा स्थान, नृत्य शाला (डांस हाल), कलब रुम, यात्री स्टेशन तथा हवाई टर्मिनल तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, मनोरंजन प्रस्ताव तथा स्टेडियम;

- (पांच) “व्यापारिक भवन” से अभिप्रेत है, कोई भूमि या भवन या उसका कोई भाग जिसका कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई सौदा, व्यापार या व्यवसाय या विक्रय या किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय के प्रयोजन से उपयोग किया जाता है तथा इसमें वस्तुओं के संग्रहण के लिए तथा किसी कार्यालय अथवा किसी होटल के लिए किसी भूमि या भवनों का उपयोग भी सम्मिलित है, और इसमें सम्मिलित है कोई भवन या किसी भवन का भाग जो कि मल्टीप्लेक्स, दुकानों, बाजारों के रूप में, माल के या तो थोक अथवा खुदरा प्रदर्शन तथा विक्रय के लिए उपयोग किया जाता है। माल के विक्रय के आनुषंगिक तथा उसी भवन में अवरिथ्त संग्रहण तथा सेवा सुविधाएं इस समूह के अधीन सम्मिलित की जाएंगी;
- (छह) “औद्योगिक भवन” से अभिप्रेत है, कोई भवन अथवा किसी भवन का भाग अथवा संरचना जिसमें समस्त प्रकार तथा गुण के उत्पाद तथा सामग्रियां गढ़ी, विनिर्मित, संयोजित अथवा प्रसंस्कृत की जाती हैं तथा इसमें संयोजन संयंत्र, प्रयोगशालाएं, विद्युत संयंत्र, धूम्र गृह (स्मोक हाउसेज), रिफाइनरीज, गैस संयंत्र, डेरी तथा कारखाने सम्मिलित हैं;
- (सात) “भण्डार भवन” से अभिप्रेत है, कोई भवन अथवा किसी भवन का भाग जो कि वस्तु सौदा अथवा माल के भण्डारण अथवा आश्रम सुरक्षा के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है तथा इसमें भाण्डागार, शीत गृह, ढुलाई डिपो, अभिवहन शेड, भण्डार गृह, सार्वजनिक गैरेज, हैंगर, ट्रक टर्मिनल, अनाज ऐलिवेटर्स सम्मिलित हैं;
- (आठ) “परिसंकटमय भवन” से अभिप्रेत है, कोई भवन अथवा किसी भवन का भाग जो कि प्रयोज्य विधि के अधीन यथा परिभाषित परिसंकटमय पदार्थों के भण्डारण, रख-रखाव, विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाया जाता है;
- (46) “ओपन माल” से अभिप्रेत है, कोई भवन अथवा भवनों का समूह जहाँ भण्डार, गोदाम, संभार-तंत्र, प्रशासनिक सुविधा, वाहन स्थान (पार्किंग) (खुली अथवा आच्छादित) तथा सुरक्षा व्यवस्था के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां की जाती हों;
- (47) “खुली जगह” से अभिप्रेत है, मुक्ताकाश छोड़ा गया, भू खण्ड का कोई अभिन्न भागरूप कोई क्षेत्र;

- (48) "मुण्डेर (पेरापेट)" से अभिप्रेत है, किसी भवन अथवा किसी छत के किनारे के साथ साथ निर्मित कोई नीची दीवार अथवा जंगला (रैलिंग);
- (49) "वाहन स्थान तल (पार्किंग फ्लोर)" से अभिप्रेत है, वाहन स्थान के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया कोई तल;
- (50) "वाहन स्थान" से अभिप्रेत है, वाहन क्षेत्र को किसी सड़क अथवा किसी गली से संयोजित करने वाला तथा वाहन को प्रवेश करने तथा निकलने देने वाला, किसी वाहन को चलाने के मार्ग के साथ साथ, वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त आकार वाला बंद अथवा खुला, आच्छादित अथवा खुला कोई क्षेत्र;
- (51) "अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, विकास कार्य अथवा भवन निर्माण करने तथा उसे इन नियमों द्वारा विनियमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लिखित में कोई प्राधिकार, जो कि अन्यथा विधि विरुद्ध हो जाएगा;
- (52) "कुर्सी (प्लिंथ)" से अभिप्रेत है, आसपास की भूमि की सतह तथा भूमि के ठीक ऊपर तल की सतह के मध्य संरचना का भाग;
- (53) "कुर्सी क्षेत्र" से अभिप्रेत है, कुर्सी स्तर पर मापा गया निर्मित आच्छादित क्षेत्र;
- (54) "पोडियम" से अभिप्रेत है, भूमि के ऊपर आच्छादित वाहन स्थान जो कि स्वीकार्य भू आच्छादित क्षेत्र से ऊपर तथा उसके परे बनाया जा सकता है परंतु जो भूखण्ड के विहित न्यूनतम खुले स्थानों पर विस्तारित नहीं होगा;

**स्पष्टीकरण:-**— ऐसा वाहन स्थान स्टिलट कहलाएगा यदि यह भू-आच्छादन की सीमाओं के भीतर है।

- (55) "पोर्च" से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जो लिंटल स्तर अथवा स्लेब स्तर अथवा पोडियम स्तर पर प्रास बाहर निकले हुए भाग (केंटीलीबर्ड प्रोजेक्शन) अथवा साधारण तौर पर अवलंबित संरचना द्वारा आच्छादित हो सकेगा जो कि तीन ओर से खुला हो तथा वाहनों को रखने, यात्रियों को चढ़ाने/उतारने के लिए उपयोग करने हेतु आशयित हो। ऐसा क्षेत्र भू आच्छादित क्षेत्र तथा तल क्षेत्र अनुपात के रूप में नहीं किया जाएगा;
- (56) "निजी गैरेज" से अभिप्रेत है, कोई भवन जो 25 वर्ग मीटर से अधिक न हो, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी या उसका कोई भाग जो निजी स्वामित्व के किसी भी भाँति के यन्त्र चलित मोटर वाहनों या अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है; (निजी स्वामित्व में किसी भी प्रकार के)

- (57) “सार्वजनिक गैरेज” से अभिप्रेत है, निजी गैरेज से भिन्न कोई भवन या उसका भाग जो किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों या अन्य वाहनों की मरम्मत, सुधार, किराये पर देने, बेचने या रखने या खड़े करने के लिए बनाया या प्रयुक्त किया गया हो;
- (58) “पीछे की खुली जगह या पीछे की सीमान्त खुली जगह (आर.एम.ओ.एस.)” से अभिप्रेत है, भवन के पिछले भाग और भूखण्ड की पिछली सीमा के बीच किसी भू-खण्ड के पिछले भाग में आरपार कोई खुली जगह;
- (59) “कमरे की ऊंचाई” से अभिप्रेत है, तैयार फर्श की सतह से तैयार छत की सतह तक मापी गयी खड़ी दूरी जहां तैयार छत न हो वहां कड़ियों या धरनों या बंधन धन्नियों का भीतरी भाग, माप का ऊपरी बिन्दु होगा;
- (60) “पंकित—गृह—निर्माण / पंकितनुमा भवन” से अभिप्रेत है, भवनों की ऐसी पंकित जिनमें केवल सामने, पीछे सीमान्त खुली जगह या भीतरी खुली जगह हो;
- (61) “स्वीकृत रेखांक” से अभिप्रेत है, भूमि के विकास या भवन निर्माण से संबंधित रेखांकों तथा विशिष्टियों का सेट जो कि प्राधिकारी द्वारा किन्हीं शर्तों सहित या उनके बिना अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया हो;
- (62) “अर्द्ध विलग्न भवन” से अभिप्रेत है, भवन, जो तीन ओर से विलग्न हो;
- (63) “सेवा तल” से अभिप्रेत है, कोई आच्छादित तल जो विशेष रूप से मोड़ने/सुधारने/ भवन सेवाओं के रखरखाव जैसे विद्युत/जल—मल/जल आपूर्ति/मलवहन/ वातानुकूलन लाईन के लिए प्रावधानित हो तथा जो कि उससे ठीक नीचे वाले तल की सीमाओं से अधिक नहीं होगा;
- (64) “सेवा वीथी (सर्विस लेन)” से अभिप्रेत है, सेवा प्रयोजन के लिए किसी भू-खण्ड के पीछे या बगल में बनायी गयी सड़क/गली;
- (65) “प्रतिरोध रेखा से अभिप्रेत है, कोई रेखा जो प्रत्येक दशा में प्राधिकरण द्वारा प्रायः भूखण्ड सीमाओं के समानांतर डाली गई हो जिसके परे स्थल सीमाओं की ओर अनुज्ञेय बाहर निकले हुए भाग के अलावा कुछ परिनिर्मित नहीं किया जा सकता हो;
- (66) “शॉपिंग माल” से अभिप्रेत है, सामुदायिक स्थानों, सेवा सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा वाहन स्थानों के साथ एकीकृत बहुमंजिला व्यापार केन्द्र (शॉपिंग सेंटर) जहां वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित की जाती हों;
- (67) “बगल की खुली जगह या बगल की सीमान्त खुली जगह (एस.एम.ओ.एस.)” से अभिप्रेत है, भवन के पार्श्व तथा भूखण्ड की पार्श्व सीमा के बीच भूखण्ड के पार्श्व के आर पार खुली जगह;

- (68) “भू—स्थल” से अभिप्रेत है निश्चित सीमाओं से घिरा निश्चित प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भूमि का कोई खण्ड;
- (69) “भू—खण्ड अन्तस्थ या आगे पीछे (साइड इंटीरियर आर टेन्डेम)” से अभिप्रेत है वह भू—खण्ड जहां सड़क से मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता हो, भले ही ऐसा मार्ग भू—खण्ड का भाग हो या न हो;
- (70) “स्काई—वे” से अभिप्रेत है भूमि के ऊपर निर्मित कोई संरचना चाहे आच्छादित हो अथवा गैर आच्छादित, जो दो या अधिक भवनों को पदयात्री आवागमन हेतु जोड़ता है। स्काई वे की भूमि के ऊपर ऊँचाई, इसके नीचे रास्ते के उपयोग पर निर्भर करेगी;
- (71) “मंजिल” से अभिप्रेत है किसी भवन के किसी फर्श की सतह और उसके तत्काल ऊपर के फर्श तल के बीच का भाग या यदि उसके ऊपर कोई तल न बनाया गया हो तो किसी फर्श और उसके तत्काल ऊपर की छत के बीच की जगह;
- (72) “मार्ग” से अभिप्रेत है कोई पहुंच मार्ग अर्थात् मुख्य मार्ग, सड़क गली, रास्ता, वीथी जीना, मार्ग, वाहन मार्ग, पैदल मार्ग, चौराहा, स्थान या पुल चाहे वह आम रास्ता हो या न हो और जिस पर आम जनता को आने जाने का अधिकार प्राप्त हो या किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान बिना बाधा के गुजरने या आने जाने का अधिकार हो चाहे वह वर्तमान में हो या किसी रकीम में प्रस्तावित हो और इसमें सभी बंधान नालिया, गड्ढे, वर्षा के पानी की नालियां, पुलियों के बाजू के रास्ते, यातायात चबूतरे, सड़क किनारे के वृक्ष, दीवारें घेरे को रोकने वाली बाड़, नाके तथा मार्ग पंक्ति के भीतर लगे जंगले (रेलिंग) सम्मिलित हैं;
- (73) “मार्ग सतह या ढलान” से अभिप्रेत है मार्ग की मध्य रेखा का शासकीय रूप से स्थापित उठान या ढलान जिस पर भू—खण्ड खुलता हो और जहां शासकीय रूप से स्थापित कोई ढलान न हो वहां मार्ग के मध्य बिन्दु का विद्यमान ढलान;
- (74) “मार्ग रेखा” से अभिप्रेत है मार्ग की पार्श्व सीमाओं को परिभाषित करने वाली रेखा;
- (75) “सब—वे” से अभिप्रेत है पदयात्रियों या वाहनों या दोनों के आवागमन के लिए कोई भूमिगत निर्मित रास्ता;
- (76) “संधि स्थल” से अभिप्रेत है सड़क से मिलने वाले वह स्थान जहां भवन का कोई भाग सड़क सीमा से लगा हो;
- (77) “परिनिर्माण करना” किसी भवन का परिनिर्माण करना से अभिप्रेत है :—
- (क) किसी स्थल पर नये भवन का परिनिर्माण करना भले ही उस पर पहले भवन बनाया गया हो या न बनाया गया हो,

- (ख) किसी ऐसे भवन का पुनः निर्माण करना, जिसके कुर्सी सतह के ऊपर या नीचे के हिस्से गिरा दिये गये हों, जल गये हों या नष्ट हो गये हों; और
- (ग) एक प्रकार के अधिभोग का दूसरे प्रकार के अधिभोग में संपरिवर्तन।
- (78) “तथ की जाने वाली दूरी” से अभिप्रेत है भवन के फर्श पर दूरस्थ किसी स्थान से सुरक्षित स्थान तक की दूरी भले ही वह बाहर निकलने का मार्ग सीधा हो, आड़ा हो या बाहर की ओर हो;
- (79) “बरामदा” से अभिप्रेत है किसी निवासीय भवन में बंद क्षेत्र जो कम से कम एक ओर से खुला हो;
- (80) “फलश वाले शौचालय” से अभिप्रेत है ऐसा शौच गर्त, जिसमें पानी से मल-पात्र को फलश करने की व्यवस्था हो;
- (81) “खिड़की” से अभिप्रेत है किसी दरवाजे से भिन्न बाहर की ओर खुलने वाला कोई स्थान जिसमें भीतरी स्थान में अपेक्षित प्राकृतिक प्रकाश या वायु संचार या दोनों की पूर्ण या आंशिक रूप में व्यवस्था की गयी हो;

**टिप्पण:** इन नियमों में जहां जनसंख्या को विचार में लिया जाना है, वहां अद्यतित प्रकाशित सेन्सस के आंकड़े लिये जावेंगे ।

### 3. नियमों का लागू होना :

- (1) जहां किसी भूमि का उपखंडों, भू-खण्डों या कॉलोनियों के रूप में विकास या पुनर्विकास किया जाना हो, वहां ये नियम उसमें के सभी विकास उपान्तरणों यदि कोई हों को लागू होंगे ।
- (2) जहां किसी भवन का परिनिर्माण किया जाना हो वहां ये नियम भवन की डिजाइन तथा निर्माण पर लागू होंगे ।
- (3) जहां भवन का पूर्ण या आंशिक भाग गिरा दिया गया हो वहां ये नियम भवन के शेष भाग या गिराने के संबंधित कार्य पर लागू होंगे ।
- (4) जहां किसी भवन में परिवर्तन किया जाना हो वहां ये नियम सम्पूर्ण भवन को चाहे वह पुराना हो या नया हो, लागू होंगे सिवाय इसके कि ये नियम केवल उस भाग को भी लागू होंगे जब कि वह भाग सुविधाओं तथा सुरक्षा के उपायों की दृष्टि से सर्वांगपूर्ण हों ।
- (5) जहां भवन के अधिभोग में परिवर्तन किया जाना हो, वहां ये नियम परिवर्तन से प्रभावित हुए भवन के संपूर्ण भागों को लागू होंगे ।

4. **विद्यमान भवन** – भवन इन नियमों में दी गयी किसी भी बात में किसी क्षेत्र की विकास योजना में उपबंधित संपूर्ण परिसीमाओं तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए उस तारीख को जिसको कि इन नियमों के सुसंगत उपबंध प्रवृत्त हों किसी विद्यमान भवन के वर्धित भाग को गिराने, उसमें परिवर्तन करने या उसका परित्याग करने की न तो तब तक उपेक्षा की जायेगी और न ही किसी विद्यमान भवन के उपयोग या उपभोग को चालू रखने से रोका जायेगा, जब तक कि प्राधिकारी के मत में ऐसे भवन या उसके भाग से समीपवर्ती सम्पत्ति की सुरक्षा को या भवन के अधिभोगियों की सुरक्षा को खतरा न हो।
5. **वैकल्पिक सामग्री, डिजाइन तथा निर्माण कार्य की पद्धति और परीक्षण।—**
- (1) इन नियमों के उपबंध ऐसी किसी सामग्री या डिजाइन या निर्माण की पद्धति के प्रयोग को रोकने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं जो इन नियमों या संहिता द्वारा विशेष रूप से विहित न की गयी हो परंतु ऐसे किसी विकल्प का अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कर दिया जाना चाहिए।
  - (2) प्राधिकारी ऐसे किसी विकल्प का अनुमोदन कर सकेगा, बशर्ते उसकी राय है कि प्रस्तावित विकल्प संतोषजनक हैं तथा वह सामग्री पद्धति / प्रस्तावित कार्य अभिप्रेत प्रयोजन के लिए कम से कम इन नियमों या संहिता में क्वालिटी, सामर्थ्य, उपयुक्तता और प्रभावशीलता, अग्नि तथा जल प्रतिरोधिता, स्थायित्व तथा सुरक्षा के संबंध में विहित सामग्री पद्धति या कार्य के समतुल्य हो।
  - (3) **परीक्षण—** जब कभी प्राधिकारी के समक्ष इन नियमों या संहिता के उपबंधों के पालन का अपर्याप्त प्रमाण हो या इस बात का अपर्याप्त प्रमाण हो कि कोई सामग्री या डिजाइन या निर्माण की कोई पद्धति इन नियमों या संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप है या वैकल्पिक सामग्री या डिजाइन या निर्माण की पद्धति के दावे को सिद्ध करने की दृष्टि से प्राधिकारी पालन के प्रमाण स्वरूप पर्याप्त पहले परीक्षण करने की अपेक्षा कर सकेगा। यह परीक्षण स्वामी या आवेदक के व्यय पर अनुमोदित एजेन्सी द्वारा कराये जायेंगे।
  - (4) यदि इन नियमों या संहिता में कोई उपयुक्त परीक्षण पद्धति विनिर्दिष्ट न हो तो, प्राधिकारी परीक्षण प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।
  - (5) ऐसे समस्त परीक्षणों के परिणामों की प्रतियां प्राधिकारी द्वारा वैकल्पिक सामग्री की स्वीकृति के बाद कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक रखी जायेगी।
  - (6) **ग्रीन बिल्डिंग :** राज्य शासन राजकीय राजपत्र के माध्यम से ऊर्जा दक्ष, पर्यावरणीय मैत्री भवन संरचना हेतु मापदंड एवं मानक निर्धारित कर सकेगी एवं प्राधिकारी को लागू करने संबंधी निर्देश दे सकेगा।

**भाग दो**  
**संगठन तथा प्रवर्तन**

**6. भवन अनुज्ञा तथा निरीक्षण विभाग।—**

- (1) प्राधिकारी का एक भवन अनुज्ञा निरीक्षण विभाग होगा जो एक प्राधिकारी के प्रभार में होगा। ऐसा अधिकारी जिसके पास इंजीनियर या वास्तुविद् या नगर योजनाकार के लिए नियम 26 में विहित की गयी न्यूनतम अर्हताएं हों, वह इन नियमों के प्रयोजन के लिए भवन निर्माण अधिकारी के नाम से पदाभिहित किया जायेगा। भवन निर्माण अधिकारी की नियुक्ति संचालक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे संचालक इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करें, अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी:

परन्तु संचालक द्वारा दो या दो से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों को, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, एक ही भवन निर्माण अधिकारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी ऐसे अधिकारी को जो नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के सहायक संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का हो, नगर पालिका क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले आयोजना क्षेत्रों के भाग के लिए भवन निर्माण अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि जनगणना में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के रूप में वर्गीकृत ऐसे नगरों में जहां ये नियम प्रवृत्त हैं, तकनीकी पृष्ठ भूमि वाले किसी अधिकारी को, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमोदन से भवन निर्माण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

- (2) प्राधिकरण, भवन निर्माण अधिकारी की सहायता के लिए समुचित संख्या में ऐसे भवन निर्माण निरीक्षक तथा अन्य तकनीकी पदाधिकारी पदाभिहित कर सकेगा जिनके पास कम से कम नियम 26 में पर्यवेक्षकों के लिए निहित अर्हता से कम अर्हता न हो।

**7. भवन निर्माण अधिकारी की शक्तियां तथा कर्तव्य।—**

- (1) भवन निर्माण अधिकारी इन नियमों के सभी उपबंधों को तथा उनके अनुसरण में जारी किये गये विधि पूर्ण आदेशों तथा निर्देशों को प्रवर्तित करेगा और किसी भवन के निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत, हटाये जाने, गिराये जाने के तरीके या पद्धति से संबंधित किसी भी मामले पर कार्यवाही करेगा।

## (2) गृह निर्माण अधिकारी—

- (क) नियम 14 के अधीन अनुज्ञा के लिए समर्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञा जारी कर सकेगा।
- (ख) वह उन परिसरों का, जिनके लिए ऐसी अनुज्ञा जारी की गई है, निरीक्षण करेगा और इन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।

## (3) भवन निर्माण अधिकारी —

- (क) अवैध या असुरक्षित निर्माणों को हटाने,
- (ख) विकास या निर्माण के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की अपेक्षा करने,
- (ग) विद्यमान भवनों में पर्याप्त निर्गम सुविधाओं की व्यवस्था की अपेक्षा करने और
- (घ) इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने;
- के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं या आदेश जैसे और जब आवश्यक हो, जारी कर सकेगा।

8. **प्रवेश करने का अधिकार** — भवन निर्माण अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका प्रतिनिधि, उसे इन नियमों के अधीन सौंपे गये किसी कर्तव्य की पूर्व सूचना देने के पश्चात, किसी भवन या परिसर में युक्तियुक्त समय में प्रवेश कर सकेगा:

परन्तु निवास—गृह के रूप में उपयोग किये जाने वाले किसी भवन की दशा में या ऐसे भवन से संलग्न उद्यान के किसी सह—भाग पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और प्रवेश करने के आशय की अधिभोगियों को कम से कम 24 घंटे की लिखित सूचना दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा।

9. **निरीक्षण**— भवन निर्माण अधिकारी सभी अपेक्षित निरीक्षण कर या करवा सकेगा। सभी निरीक्षण रिपोर्ट लिखित रूप में होंगी तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाएंगी। भवन निर्माण अधिकारी प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे तकनीकी मामलों में जो उत्पन्न हो, रिपोर्ट देने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नियुक्त करेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

10. **रेखांक के अनुसार निर्माण कार्यों का न होना**—

(1) यदि किसी अवस्था में भवन निर्माण अधिकारी का यह मत हो कि निर्माण कार्य मंजूर रेखांक के अनुसार नहीं चल रहा है या इन नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह स्वामी/आवेदक/ अधिभोगी को अधिसूचित करेगा तथा उस पर आगे का निर्माण कार्य जो इन नियमों या

किसी अन्य विधि के अनुकूल न हो तब तक के लिए रोक दिया जाएगा, जब तक सुधार न कर दिया जावे और उसे अनुमोदित न कर दिया जाये।

(2) यदि स्वामी/आवेदक/अधिभोगी निर्माण की किसी अवस्था में इन अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहे तो प्राधिकारी भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा को रद्द कर सकेगा और वह ऐसे रद्दकरण की सूचना तामील करवा सकेगा। यदि वह स्वामी/आवेदक उसके ज्ञात पते पर उपलब्ध न हो और स्वामी/आवेदक की ओर से सूचना को प्राप्त करने के लिए कोई एजेन्ट न हो वहां सूचना उक्त निर्माण रथल पर सुरक्षित रूप से लगाई जा सकेगी ऐसी सूचना का लगाया जाना उसके स्वामी/आवेदक/अधिभोगी को उसका रद्दकरण अधिसूचित कराने के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

11. **अधिभोग का अतिक्रमण** – जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों के विपरीत किसी भवन का उपयोग किया जा रहा हो वहां भवन निर्माण अधिकारी सूचना द्वारा ऐसे उपयोग को बंद करने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर उपयोग करना बंद कर देगा या भवन या उसके भाग को इस प्रकार बनायेगा जिससे कि नियमों की अपेक्षाओं का पालन हो जाय।

### भाग तीन अनुज्ञा तथा निरीक्षण

#### 12. विकास या निर्माण के लिये अनुज्ञा—

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन का विकास, परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या उसमें कोई परिवर्तन या उसे गिराने का कार्य, प्राधिकारी से इस संबंध में लिखित में पूर्व अनुज्ञा आदि प्राप्त किये बिना न तो करेगा और न ही करवायेगा:

परन्तु निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा की अपेक्षा नहीं होगी:—

- (क) किसी खिड़की या दरवाजे या रोशनदान को खोलने तथा बंद करने का कार्य;
- (ख) आने जाने के दरवाजे की व्यवस्था करना;
- (ग) पार्टीशन लगाना;
- (घ) नकली छत बनाना;
- (ङ.) उद्यान लगाना;
- (च) पुताई कार्य;
- (छ) पेंट करना ;

- (ज) पुनः खपरैल छाना तथा छत की मरम्मत करना;
- (झ) प्लास्टर करना तथा जुड़ाई का काम;
- (ञ) पुनः फर्श बनाना;
- (ट) अपनी स्वयं की जमीन पर धूप से बचाव के लिए शेड बनाना;
- (ठ) भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों के उन भागों का उस सीमा तक और उन्हीं विशिष्टियों के अनुसार पुनर्निर्माण करना, जो ऐसी क्षति के पहले मौजूद थी;
- (ड.) किसी अन्य आपदा से जैसी कि जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित की जाए, क्षतिग्रस्त भवनों के उन भागों का उस सीमा तक और उन्हीं विशिष्टियों के अनुसार पुनर्निर्माण करना जो ऐसी क्षति से पहले मौजूद थी;
- (घ) किसी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किये गये आदेश या निर्देशों का पालन करते हुए, निर्माण कार्य कराना;
- (ण) किसी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, निर्माण कार्य कराना;
- (त) कोई ऐसा निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कराया जाना जो :—
  - (क) किसी राजमार्ग या सार्वजनिक सड़क के रख-रखाव या सुधार के लिए आवश्यक हो और जो ऐसे राजमार्ग, मार्ग या सार्वजनिक सड़क की सीमाओं के भीतर भूमि पर किया गया हो।
  - (ख) ऐसी किसी नाली, मलनाली, मुख्य नाली, पाइप, पाइप केबल, टेलीफोन या अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के हों, जिसमें उस प्रयोजन के लिए ऐसी सड़क या अन्य भूमि का खोदना शामिल हैं:

परन्तु ऐसा कोई कार्य जिसमें किसी सड़क का खोदा जाना निहित है, प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- (थ) कृषि संकार्य के सामान्य क्रम मे किया गया कोई निर्माण (जिसमें कूप सम्मिलित है);

- (द) पूर्णतया तथा कृषि प्रयोजन के लिए भूमि तक पहुंचने के लिए आशयित सड़क का निर्माण;
- (ध) भूमि का सामान्य उपयोग, जिसका विवाह—पंडाल या उत्सव अवसरों जैसे— अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है; तथा
- (न) ऐसी भूमि के मामले में जिसका सामान्यतः किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है अथवा यदा—कदा किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है उस भूमि का अन्य प्रयोजन या अवसरों पर उपयोग करना जिसमें स्थाई व्यपवर्तन (डायवर्सन) या वास्तविक कालावधि के लिए व्यपवर्तन (डायवर्सन) अंतर्वलित न हो।
- (2) ऊंचे भवन की दशा में कोई भी अनुज्ञा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी स्थल अनुमोदन समिति की अभिव्यक्त अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी:—
- (क) नगरपालिक निगम क्षेत्र के भीतर स्थल अनुमोदन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:—
- |   |            |
|---|------------|
| (एक) संभागीय आयुक्त   | अध्यक्ष    |
| (दो) जिला कलेक्टर   | सदस्य      |
| (तीन) पुलिस अधीक्षक   | सदस्य      |
| (चार) निगमायुक्त  | सदस्य      |
| (पांच) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) का अधीक्षण यंत्री   | सदस्य      |
| (छह) संबद्ध विद्युत वितरण कम्पनी का संभागीय अभियंता   | सदस्य      |
| (सात) अग्निशमन प्राधिकारी / सहायक अग्निशमन अधिकारी  | सदस्य      |
| (आठ) नगर तथा ग्राम निवेश का क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला संयुक्त संचालक, उप संचालक या, सहायक संचालक | सदस्य सचिव |

- (ख) नगरपालिक निगम क्षेत्र के बाहर स्थल अनुमोदन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:—

(एक) जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो) यथास्थिति जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी / नगरीय स्थानीय निकाय का मुख्य नगरपालिक अधिकारी,	सदस्य
(तीन) पुलिस अधीक्षक या उसका नाम निर्देशिती, जो यथास्थिति उप पुलिस अधीक्षक या नगर पुलिस अधीक्षक की पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो,	सदस्य
(चार) अधिकारिता रखने वाला लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) का संबंधित कार्यपालन यंत्री	सदस्य
(पांच) संबद्ध विद्युत वितरण कंपनी का संभागीय अभियंता	सदस्य
(छह) अग्नि शमन प्राधिकारी (फायर अथारिटी) का एक प्रतिनिधि या सहायक अग्नि शमन अधिकारी की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी	सदस्य
(सात) नगर तथा ग्राम निवेश का, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला संयुक्त संचालक या उप संचालक या सहायक संचालक	सदस्य सचिव

3. विकास तथा भवन निर्माण दोनों के लिए अनुज्ञा, ऐसे भवन निर्माण कियाकलाप प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होगी जिसमें कि संयुक्त भवन निर्माण योजना के रूप में भूमि का विकास अंतर्गत करती हो ।

### 13. इन नियमों के पूर्व जारी किये गये विकास/ भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र :-

इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में ऐसे नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञा, मंजूरी या अनुमोदन, पारित किया गया कोई आदेश अथवा की गयी कोई कार्यवाही या की गयी कोई बात उसी विधि या नियम के उपबंधों के अनुसार, जिसके कि अधीन ऐसी मंजूरी या अनुमोदन दिया गया था, आदेश पारित किया गया था अथवा कोई कार्यवाही या कोई बात की गयी थी, शासित होगी, मानो कि ये नियम प्रवृत्त ही नहीं हुए हो:

परन्तु अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय, कार्य के उस भाग के लिए जो कि आरम्भ नहीं किया गया हो, इन नियमों के अधीन नई मंजूरी अपेक्षित होगी और वह प्रदान की जा सकेगी ।

**14. विकास अथवा भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्रः—**

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन को विकसित, निर्मित, पुनर्निर्मित करना चाहता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, वह परिशिष्ट—क—1 (विकास अनुज्ञा की दशा में) में अथवा परिशिष्ट—क—2 (भवन निर्माण अनुज्ञा की दशा में) दिए गए प्रारूप में लिखित में प्राधिकारी को कोई आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन चार प्रतियों में दस्तावेजों, रेखांक तथा विवरणों के साथ होगा। रेखांक अमोनिया प्रिन्ट अथवा सफेद प्रिट में होंगे। इसके अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे साफ्टवेयर में तैयार की जाएगी जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए। अमोनिया प्रिन्ट अथवा सफेद प्रिट का एक सेट कपड़े की जिल्ड में अथवा लेमीनेशन में होगा जिसे अभिलेख हेतु प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा। आवेदन यथास्थिति परिशिष्ट—क—1 अथवा क—2 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन शुल्क के साथ होगा।
- (2) भवन अनुज्ञा की दशा में आवेदन के साथ सरचना वास्तुविद/इंजीनियर/ भवन के पर्यवेक्षक के द्वारा यह कथन करते हुए कि सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया गया ऐसा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि नियम 88 के समस्त उपबंधों (भूकंप संभावित क्षेत्र हेतु) का पालन कर लिया गया है।
- (3) **अधिनियम की धारा 29 (3) के अधीन अनुज्ञा के परिवर्तन हेतु आवेदन**
  - (एक) धारा 30 के अधीन पूर्व में प्रदान की जा चुकी अनुज्ञा के परिवर्तन हेतु आवेदन परिशिष्ट ट में दिए प्ररूप ड में उल्लिखित विस्तृत जानकारी और अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
  - (दो) आवेदन के साथ नियम 21 के उप नियम (2) में निर्धारित शुल्क की रसीद की प्रति संलग्न होगी।
  - (तीन) संचालक, इस प्रकार प्राप्त किए गए आवेदन का परीक्षण करेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदित परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से प्रथम दृष्टया प्रतिकूल नहीं है, तो परिशिष्ट ट में दिए गए प्ररूप ड में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। संचालक, उक्त सूचना को ऐसे दो प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में आवेदक के खर्च पर प्रकाशित करवाएगा जिनका ऐसे क्षेत्र में विस्तृत परिचालन हो जिसमें कि भूमि अवस्थित है।

- (चार) सार्वजनिक सूचना संबंधित जिला कलेक्टर, तहसीलदार, रथानीय प्राधिकारी के कार्यालयों के सूचना पटलों पर भी प्रदर्शित की जाएगी तथा स्थल पर भी लगायी जाएगी।
- (पांच) सूचना की प्रतिलिपि र्पीड पोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी भेजी जाएगी जिनका आवेदन में हितबद्ध व्यक्तियों के रूप में उल्लेख किया गया है।
- (छह) ऐसे व्यक्ति जिनका उल्लेख उपरोक्त उपनियम (3)(पांच) में है उन्हें संचालक द्वारा सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें सुनवाई की नियत तिथि के कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।
- (सात) संचालक ऊपर उपनियम (3) में वर्णित सूचना के माध्यम से आक्षेपों, सुझावों और दावों को प्राप्त करने के लिए कालावधि के अवसान के पश्चात् तथा उपनियम (3) (चार) के अधीन सूचित किए गए व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् उन पर विस्तार से विचार करने हेतु अग्रसर होगा।
- (आठ) संचालक, प्राप्त दावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के अनुक्रम में आवेदक अथवा आपत्तिकर्ता अथवा किसी लोक प्राधिकारी से कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा जैसी कि समुचित समझे।
- (नौ) प्राप्त आपत्तियों तथा दावों का परीक्षण करने के पश्चात् तथा संबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् संचालक :-
- (क) परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन स्वीकार कर सकेगा; अथवा
  - (ख) परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा; अथवा
  - (ग) परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन को ऐसे परिवर्तनों के साथ तथा ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार कर सकेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाएः :

परंतु कोई ऐसा परिवर्तन, जो किसी ऐसे भू खण्ड अथवा किसी निर्मित क्षेत्र को प्रभावित करता है जिसके कि संबंध में विकासकर्ता ने किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है, अनुमत नहीं किया जाएगा। यद्यपि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी ऐसे भूखण्ड अथवा किसी निर्मित क्षेत्र को प्रभावित करता है जिसके कि संबंध में कोई अनुबंध अथवा अग्रिम बुकिंग की गई है, अनुमत किया जा सकेगा बशर्ते कि वह व्यक्ति जिसके कि साथ ऐसा अनुबंध किया गया है अथवा जिसके कि पक्ष में ऐसी अग्रिम बुकिंग की गई थी, लिखित में संचालक को ऐसे परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे देता है:

परंतु यह और भी कि भूमि या भवन का कोई भाग, जो कि बंधक रखा गया है अथवा जिस पर कि कोई धारणाधिकार विद्यमान है, किसी भी प्रकार के किसी परिवर्तन के अध्यधीन नहीं होगा।

(दस) उस दशा में जहां कि इसके ऊपर उपनियम (3) के खण्ड(नौ) के उपखण्ड (क) अथवा (ग) के अधीन संचालक रेखांक को परिवर्तित करने का विनिश्चय करता है तो आवेदक को नियम 21 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन देय रकम के 50 प्रतिशत के समतुल्य अनुज्ञा शुल्क देना होगा। तथापि, यदि परिवर्तन में अनुमोदित अभिन्यास में कोई परिवर्तन अंतर्गत नहीं है तो कोई अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(4) धारा 16 अथवा 29 (1) के अधीन विकास अनुज्ञा के लिए आवेदन –

(एक) धारा 16 अथवा धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन विहित परिशिष्ट-1 के प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें उल्लिखित समस्त दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे।

(दो) (क) उपनियम 4 (1) में निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक आवेदन नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन यथाविहित आवेदन शुल्क के साथ होगा तथा ऐसे संदाय के रसीद की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। ऐसी किसी रसीद के बिना प्राप्त कोई आवेदन अविधिमान्य समझा जाएगा तथा इसी कारण से निरस्त किया जाएगा।

(ख) अनुज्ञा जारी किए जाने के पूर्व आवेदक नियम 21 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविहित किसी अनुज्ञा शुल्क का संदाय करेगा।

(तीन) संचालक, आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात्, या तो

(क) आवेदन स्वीकार करेगा; अथवा,

(ख) आवेदन अस्वीकार करेगा; अथवा

(ग) आवेदन को ऐसे परिवर्तनों के साथ तथा ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार करेगा जैसी कि समुचित समझे।

(5) धारा 16 के अधीन विकास अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी यदि भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कि :-

(क) पहुंच के पर्याप्त साधन अभी तक विकसित या प्रस्तावित नहीं किए गए हैं; अथवा

(ख) आवेदन में प्रस्तावित कियाकलाप,—

- (एक) प्रकाशित प्ररूप विकास रेखांक में प्रस्तावित नहीं है; अथवा
- (दो) विचाराधीन संरचनात्मक रेखांक अथवा प्ररूप रेखांक की किसी विस्तृत रूपरेखा के अनुरूप नहीं है; अथवा
- (तीन) क्षेत्र की पर्यावरणीय अपेक्षाओं के सहायक नहीं है; अथवा
- (चार) उनके अनुरूप नहीं हैं जो उसके आसपास विद्यमान हैं; अथवा
- (पांच) इस संबंध में संचालक द्वारा जारी किसी विशिष्ट निदेश के अनुपालन में नहीं है।

**15. भूकंप रोधी बनाना** — नियम 14 में विहित दस्तावेज के अतिरिक्त जहां कि भूमि भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, परिशिष्ट—क—3, क—4, क—5, क—6, क—7 तथा क—8 में यथादर्शित प्रमाण पत्र विकासकर्ता, वास्तुविद तथा संरचना इंजीनियर द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किए जाएंगे। 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले बड़े भवनों की दशा में अथवा तीन से अधिक मंजिल वाले भवनों की दशा में सम्बद्ध परियोजना की पूर्णता पर कमशः वास्तुविद, विकासकर्ता तथा संरचना इंजीनियर द्वारा पृथक् से परिशिष्ट क—9, क—10 तथा क—11 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

**16. आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी।—**

- (1) (क) परिशिष्ट क—1 में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क निर्देशक रेखांक (की प्लान), स्थल रेखांक (साइट प्लान), उप संभाग/अभिन्यास रेखांक (सब डिवीजन/ले आउट प्लान) सेवा रेखांक (सर्विस प्लान), प्रस्तावित विकास की परियोजना प्रतिवेदन रूपरेखा, स्वामित्व का प्रमाण अथवा स्थल के संबंध में कोई अन्य विधिक अधिकार दर्शित करने वाले दस्तावेज, नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक को भू स्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने का प्रमाण (यदि आवेदक स्वामी नहीं है), वाहन स्थान गणना तथा इस नियम के उपनियम (2) से (12) में यथाविहित पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र के साथ वाहन स्थान रेखांक।
- (ख) परिशिष्ट क—2 में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क, निर्देशक रेखांक (की प्लान), स्थल रेखांक (साइट प्लान), मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अधीन अनुमोदित उप विभाजन/अभिन्यास रेखांक (सब डिवीजन/ले आउट प्लान), सेवा रेखांक, प्रस्तावित विकास की परियोजना प्रतिवेदन रूपरेखा, स्थल के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण अथवा कोई विधिक अधिकार दर्शित करने वाले दस्तावेज, नजूल

अनापत्ति, आवेदक को भू-स्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने का प्रमाण (यदि आवेदक स्वामी नहीं है) वाहन स्थान गणना तथा इस नियम के उपनियम (2) से (12) में यथाविहित पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र के साथ वाहन स्थान रेखांक।

(2) रेखाचित्र शीट का आकार :—

(क) रेखाचित्र शीटों का आकार सारणी 1 में विनिर्दिष्ट में से किसी भी आकार का होगा।

#### सारणी— 1

(रेखाचित्र शीट का आकार (नियम 16 (2) (क) देखिए)

अनुक्रमांक	पदनाम	कटा हुआ आकार (ट्रिम्ड) मि.मि में	बिना कटा हुआ आकार मि.मि में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए ०	841 X 1,189	980 X 1,230
2	ए १	594 X 841	625 X 880
3	ए २	420 X 594	450 X 625
4	ए ३	297X 420	330X 450
5	ए ४	210 X 297	240 X 330
6	ए ५	148X 210	165X 240

(ख) रेखांकों में रंग भरने हेतु अनुशंसित संकेत चिन्ह :—

सारणी (2) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार रेखांकों में रंग भरा जाएगा।

#### सारणी— 2

(रेखांकों में रंग भरना (नियम 16) (ख) देखिए)

अनुक्रमांक	मद	स्थल रेखांक		भवन निर्माण रेखांक	
		इवेत रेखाचित्र	अमोनिया प्रिन्ट	इवेत मानचित्र	अमोनिया प्रिन्ट
1	भू-खण्ड की रेखाएं	गहरा काला	गहरा काला	गहरा काला	गहरा काला
2	विद्यमान मार्ग	हरा	हरा	—	—
3	भावी मार्ग (यदि कोई हो)	हरी बिन्दु रेखा	हरी बिन्दु रेखा	—	—
4	अनुज्ञेय भवन निर्माण पंक्ति	गहरी काली बिन्दु रेखा	गहरी काली बिन्दु रेखा	गहरी	गहरी
5	खुली जगह	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं
6	विद्यमान कार्य	काली	नीली	काली	नीली

7	गिराये जाने के लिए प्रस्तावित निर्माण	पीली तिरछी रेखा	पीली तिरछी रेखा	पीली तिरछी रेखा	पीली तिरछी रेखा
8	प्रस्तावित कार्य (टिप्पणी-1 देखिये)	लाल	लाल	लाल	लाल
9	जल तथा मल निकास कार्य	लाल बिन्दु रेखा	लाल बिन्दु रेखा	लाल बिन्दु रेखा	लाल बिन्दु रेखा
10	जल पूर्ति कार्य	हल्की काली बिन्दु रेखा			

टिप्पणी 1 संपूर्ण नए निर्माण कार्यों के लिए रेखांकों में रंग भरना आवश्यक नहीं है। यद्यपि विद्यमान निर्माण कार्य के विस्तार के लिए यह लागू होगा।

टिप्पणी 2 भूमि विकास, उप विभाजन, अभिन्यास के लिए सम्यकरूप से सूचीबद्ध उपयुक्त रंग के संकेत चिन्हों का उपयोग किया जाए।

(3) निर्देशक रेखांक – कम से कम 1:10,000 के मान से तैयार किया गया निर्देशक रेखांक विकास/निर्माण कार्य के लिए अनुज्ञा के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आसपास के भूमि चिन्हों के संबंध में स्थल की सीमा की स्थिति दर्शाई जाएगी, निर्देशक रेखांक का न्यूनतम परिमाप 75 मि.ली. से कम नहीं होगा।

(4) स्थल रेखांक – स्थल रेखांक दस हेक्टर तक के स्थल के लिए कम से कम 1:1000 के मान से तथा दस हेक्टर से बड़े स्थल के लिए कम से कम 1:2000 के मान से तैयार किए जाएंगे और उनमें :-

(क) परिमाप सहित स्थल की तथा खसरा क्रमांक या अन्य समान स्थानीय वर्ग दर्शाते हुए आवेदक की किसी लगी हुई भूमि की सीमाएं दर्शाई जाएंगी और यदि पूर्व में आवेदक के स्वामित्व की लगी हुई भूमि को उप विभाजित किया गया हो तो उस पर निर्मित सार्वजनिक सुविधाएं और उस स्थल की ओर खुलने वाले उस पर स्थित सभी मार्ग जिनके लिए अनुमति मांगी जा रही हैं, दर्शाए जाएंगे :

- (ख) आसपास के मार्ग के संबंध में स्थल की स्थिति;
- (ग) उस मार्ग का नाम जिस पर भवन स्थित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि कोई हो;
- (घ) स्थल पर के ऊपर या नीचे स्थित सभी विद्यमान भवन जिसमें सर्विस लाईनें भी सम्मिलित हैं;
- (ङ.) प्रस्तावित भवन तथा ऐसे अन्य सभी भवनों (यदि कोई हो) की निम्नलिखित के संबंध में स्थिति जिनका आवेदक (क) में विनिर्दिष्ट अपनी लगी हुई भूमि पर निर्माण करना चाहता है—

- (एक) स्थल की सीमाएं तथा उस स्थिति में जहां स्थल का विभाजन कर दिया गया हो आवेदक के स्वामित्व के भाग तथा अन्य लोगों के स्वामित्व के भागों की सीमाएं;
- (दो) सभी लगे हुए मार्ग, भवन (मंजिलों की संख्या तथा ऊंचाई सहित) तथा वे परिसर, जो स्थल तथा(क) में विनिर्दिष्ट लगी हुई भूमि (यदि कोई हो) के 12 मीटर की दूरी के भीतर हों; तथा
- (तीन) यदि स्थल के 12 मीटर की दूरी के भीतर कोई मार्ग न हो तो निकटवर्ती विद्यमान मार्ग;
- (च) ऐसे भवन तथा अन्य सभी भवनों (यदि कोई हों) जिन्हें आवेदक ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट अपनी लगी हुई भूमि पर निर्मित करना चाहता है, तक मार्ग से पहुंचने के साधन;
- (छ) अबाध रूप से वायु संचरण, प्रकाश के प्रवेश के लिए भवन के चारों ओर छोड़ी जाने वाली जगह;
- (ज) सामने के मार्ग (यदि कोई हों) तथा भवनों के बगल में या पीछे की ओर मार्ग की चौड़ाई;
- (झ) भवनों के रेखांक से सापेक्ष उत्तरी बिंदु की दिशा;
- (ज) विद्यमान सभी चीजों की स्थिति जैसे उच्च वोल्टेज लाईनें, टेलीग्राफ तथा विद्युत खम्भे/लाईनें, भूमिगत पाइप लाईनें, वृक्ष, श्मशान, धार्मिक भवन, रेल्वे लाईनें आदि जो स्थल के निकटतम छोर से 30 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हों, विकसित की जाने वाली भूमि की सभी प्रमुख भौतिक चीजों की स्थिति जिसमें उस स्थल के मामले में जिसके ढाल 1:20 से अधिक हो, 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी जल पुंज, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तथा समोच्च स्थलों की लगभग स्थिति तथा आकार सम्मिलित है;
- (ट) भूमि का वर्तमान तथा प्रस्तावित उपयोग; और
- (ठ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो प्राधिकारी द्वारा विहित किए जाएं;
- (5) उपविभाजन/अभिन्यास रेखांक – विकास कार्य के मामले में आवेदन के साथ उपविभाजन/अभिन्यास रेखांक संलग्न होगा जो कम से कम 1:500 के मान से तैयार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होगे—
- (क) उपयोग किया गया मान तथा उत्तरी बिंदु;
- (ख) सभी प्रस्तावित तथा विद्यमान सड़कों की स्थिति और साथ की भूमि के भीतर विद्यमान प्रस्तावित /विहित चौड़ाई;
- (ग) भवन पंक्ति सहित भू खण्ड की सीमाएं, जिसमें प्रत्येक भू खण्ड के भीतर रुकावटें (सेट बेक) दर्शाई गई हों;

- (घ) जल निकास, मल निकास, नालियों की स्थिति, सार्वजनिक सुविधाएं तथा सेवाएं तथा विद्युत लाईनें आदि;
- (ङ.) एम.ओ.एस., एफ.ए.आर., तलाच्छादन, भवन की ऊंचाई, अधिभोगी भार के साथ उपविभाजन / अभिन्यास रेखांक में सभी भू खण्ड का आकार, क्षेत्र तथा उनका उपयोग दर्शाने वाली सारणी;
- (च) ऐसा विवरण जिसमें स्थल का कुल क्षेत्र, सड़को के अधीन उपयोग किया गया क्षेत्र, पार्कों, खेल के मैदानों के लिए खुली जगहें, मनोरंजन स्थल तथा रक्षित क्षेत्रों जैसे स्कूल, शापिंग, तथा अन्य सार्वजनिक स्थल (यदि उपबंधित किये गये हैं) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित अभिन्यास रेखांक जिसके साथ उपविभाजन किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल के कुल क्षेत्र के संबंध में उनका कुल प्रतिशत; तथा
- (छ) विद्यमान मार्गों से उपविभाजित क्षेत्रों तक पहुंचने के साधन
- (ज) दो हेक्टर या अधिक क्षेत्र वाले समस्त अभिन्यासों में वर्षा के पानी, रेन वाटर की हार्डिंग के उपायों की व्यवस्था।

#### **(6) भवन निर्माण रेखांक.—**

- (१) भवनों के रेखांक, उठान और काट को अधिमानता 1:100 के मान से तैयार किया जाएगा, रेखांक में :—
  - (क) इसमें आवृत क्षेत्र (कवर्ड एरिया) सहित उन सभी तलों के तल रेखांक सम्मिलित हैं, जिनमें सभी चौखटों के अवयवों के आकार तथा स्थान और कमरों के आकार तथा सीढ़ियां, ढलानों तथा लिफ्ट के लिए खाली छोड़े गए स्थानों (लिफ्ट वेल) को स्पष्ट दर्शाया जाएगा;
  - (ख) भवन के सभी भागों के अधिभोग का उपयोग दर्शाया जाएगा;
  - (ग) आवश्यक सेवाओं उदाहरणार्थ फ्लश वाले सण्डास, हौदी, स्नानागार की सही स्थिति दर्शाई जाएगी जिसमें जलपूर्ति तथा जल निकास लाईनें सम्मिलित होंगी;
  - (घ) काट रूपरेखा सम्मिलित होगी जिनमें (नीव के) पायों के आकार तलघर की दीवार की मोटाई, दीवार का निर्माण चौखटों के अवयवों का आकार तथा उनकी सामग्री सहित फर्श की सिल्लियां तथा छत की सिल्लियां तथा दरवाजे, खिड़कियां और अन्य द्वारों का आकार तथा स्थिति काट में भवन तथा कमरों की ऊंचाई और मुंडेरों (पैरापेट) की ऊंचाई और जल निकास की स्थिति तथा छत की ढलान दर्शायी जाएगी। कम से कम एक काट सीढ़ियों से ली जानी चाहिए;

- (ड.) संरचनात्मक इंजीनियरिंग जैसे छत, सिल्लियां, स्तम्भ चौखट आदि को समाविष्ट करते हुए प्रबलित सीमेंट कंकीट (आरसीसी) के काम के संबंध में की गई परिणामाएं तथा डिजाइनें दर्शाने वाली अनुसूची;
- (च) सामने तथा बगलों के उठान दर्शित होंगे;
- (छ) सेवा शौच गर्त यदि कोई हो, के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे;
- (ज) अनुमत भवन पंक्ति से परे, आगे निकले भागों के परिमाप दिए जाएंगे;
- (झ) छत का रेखांक सम्मिलित होगा जिसमें जल निकास तथा छत की ढलान दर्शाई जाएगी।
- (अ) रेखांक से सापेक्ष उत्तरी बिन्दु के संकेत तथा उपयोग में लाया गया मान दिया जाएगा,
- (ट) फर्शवार निर्मित क्षेत्र की अनुसूची, एफ.ए.आर., रुकावटों तथा व्याप्ति क्षेत्र की प्रस्तावित अनुसूची दी जायेगी; तथा
- (ठ) वाणिज्यिक भवन के लिए, प्रदर्शन पटलों की स्थिति तथा आकार दर्शाया जाएगा।
- (2) ऊंचे/विशेष भवनों के लिए भवन रेखांक – ऊंचे भवनों के लिए और शैक्षणिक, सभा भवन, संरथागत, औद्योगिक भवन, भण्डार गृह जैसे विशेष भवनों के लिए और खतरनाक और मिले जुले अधिभोग वाले भवनों के लिए, जिनके क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, भवन रेखांक में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी जाना चाहिए:-
- (क) अग्नि साधित्रों/दमकलों के लिए प्रवेश मार्ग और साथ ही वाहन को घुमाने के स्थल तथा भवनों के चारों ओर मोटर चलने योग्य मार्ग के ब्यौरे,
- (ख) मुख्य तथा वैकल्पिक जीने का आकार (चौड़ाई) और साथ ही छज्जे पर पहुंचने, गलियारे, हवादार लाबी तक पहुंचने का साधन,
- (ग) लिफ्ट अनुलग्नकों (लिफ्ट एनक्लोजर्स) की स्थिति तथा ब्यौरे,
- (घ) फायर लिफ्ट का स्थान तथा आकार,
- (ड) धुंआ रोकने वाले लाबी/द्वार यदि उपबंधित किया गया हो,
- (च) मल निकास की नालियां, कचरा घर, सेवा मोरी,
- (छ) वाहन खड़े करने के स्थल,
- (ज) कचरा डालने का स्थान, यदि कोई हो,
- (झ) भवन सेवाओं के ब्यौरे जैसे आग बुझाने वाले यंत्र (फायर डेम्बर) की स्थिति के साथ वातानुकूलन प्रणाली, यांत्रिक वायु संचार प्रणाली, विद्युत सेवा, बायलर, गैस पाइप,

- (ज) चिकित्सालयों तथा विशेष जोखिम वाले स्थानों के लिए निर्गम मार्गों के ब्यौरे जिसमें ढलानों (रेम्प) आदि की व्यवस्था शामिल है,
- (ट) जनरेटर ट्रांसफार्मर तथा रिवर गियर कक्ष का स्थल
- (ठ) धुआं निकालने की प्रणाली, यदि कोई हो
- (ड) आग लगने पर स्वतः सूचना देने वाली प्रणाली (फायर अलार्म सिस्टम) तथा नेटवर्क के ब्यौरे
- (ढ) केन्द्रीयकृत नियंत्रण का स्थान, जो आग लगने पर स्वतः सूचना देने वाली प्रणाली आग से सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंध तथा आम सूचना की व्यवस्था आदि से जुड़ा हो,
- (ण) रिथर जल संग्रह टैंक की स्थिति तथा परिमापों और पम्प कक्ष और साथ ही चल पम्प तथा जल संग्रह टैंक के लिए अग्नि सेवा इनलेट,
- (त) आग से सुरक्षा के रिथर संस्थापनों जैसे छिड़काव करने वाला (स्प्रिंकलर) वेट राइजर, होजरिन, फब्बारा (इन्चर) कार्बन डाईआक्साइड, संस्थापनों आदि की स्थिति तथा ब्यौरे,
- (थ) प्रथमोपचार (फर्स्ट एड), अग्नि शामक (फायर फाइटिंग) उपकरणों या संस्थापनों की स्थिति तथा ब्यौरे।
- (3) ऊंचे भवनों की दिशा में अतिरिक्त जानकारी –  
ऊंचे भवनों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी, अर्थात्:-
- (क) नगरीय आयोजना,— विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग; परिक्षेत्रिक योजना (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग; अभिन्यास रेखांक (ले आउट प्लान) (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग; प्रस्तावित घनत्व।
- (ख) यातायात आयोजना,— विद्यमान सड़क की चौड़ाई; प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई ; प्रवेश तथा निर्गम की व्यवस्था; सेवा मार्ग की व्यवस्था; भूखण्ड तथा उससे संलग्न क्षेत्रों की व्यापक परिसंचारण योजना; यानों की पार्किंग के लिए व्यवस्था।
- (ग) अग्नि रोध, अग्नि शमन तथा अग्नि सुरक्षा योजना; अग्नि का पता लगाने तथा अग्नि शमन व्यवस्थाओं के ब्यौरे,
- (घ) सेवाओं की योजना,—

आंतरिक जल, गंदी नाली (सिवरेज) जल निकास, बिजली (पावर), दूर संचार, कूड़ा व्ययन (गारबेज डिस्पोजल) तथा सामान्य स्थानों की सफाई (स्केवजिंग), परिधीय जल (पेरिफेरियल वाटर), ट्रंक वाटर।

- (ड.) स्थापत्य, प्रत्येक तल के रेखांक, अनुप्रस्थ काट की आवश्यक संख्या, प्रत्येक बाजू की ऊँचाई (इलेवेशन), प्रसाधन खण्डों तथा रसोई के ब्यौरे, भूदृश्यकरण (लैंडस्केपिंग) तथा वृक्षारोपण के ब्यौरे, विद्युत् खम्भों से बिजली संयोजनों (पावर कनेक्शन) की प्रणाली, टेलीफोन के खम्बे, कूड़ादानों का कमांकन, विभिन्न यानों की पार्किंग, नालियों, ओवर हेड टैंक, भूमिगत जल टैंक को आवृत्त करना।

(7) सेवा संबंधी रेखांक,—

जलापूर्ति तथा मल निकास व्यवस्था, यदि कोई हो के रेखांक उठान तथा काट को भी दर्शाया जाएगा। तीन या अधिक मंजिल वाले भवनों के मामले में सेवाओं की उठान तक स्कीम भी समिलित की जाएगी।

(8) विशिष्टियां,—

(एक) आवेदन पत्र के साथ सामान्य तथा विस्तृत दोनों प्रकार की विशिष्टियां, जिसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का प्रकार तथा श्रेणी दी जाएगी तथा जो, यथास्थिति, अनुज्ञाप्त वास्तुविद संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक या नगर योजनाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी।

(दो) भूमि के उपविभाजन के लिए अनुज्ञा हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी होंगे:—

(क) एक ऐसा विवरण जिसमें क्षेत्र के भीतर किए जाने के लिए सभी प्रस्तावित सुधारों अर्थात् सड़कों तथा गलियों का वर्गीकरण करना तथा पक्का बनाना, गंदी नाली, गड्ढा, बगल की नालियों, पर्याप्त निरापद तथा सुनिश्चित जलापूर्ति व्यवस्था, मल निराकरण की व्यवस्था, सड़क-प्रकाश तथा उद्यानों और खेल के मैदानों और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के निकास की सामान्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:—

(ख) यह प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जाना है तथा विभिन्न प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि के प्रस्तावित वितरण की विशिष्टियां;

(ग) उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री से संबंधित सामान्य विशिष्टियां, क्षेत्र के प्रस्तावित विकास की अनुमानित लागत; और

(घ) प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण।

- (9) पर्यवेक्षण. आवेदन पत्र के साथ पर्यवेक्षण करने वाले, यथारिथति, अनुज्ञाप्त वारस्तुविद, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक या नगर योजनाकार का प्रमाण पत्र परिशिष्ट (ख) में संलग्न होगा।
- (10) संरचनात्मक डिजाइन का प्रमाण पत्र. ऊचे भवनों की दशा में संरचनात्मक रक्तायित्व के संबंध में एक प्रमाण पत्र जो संरचना इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा। समस्त सुसंगत परिकलनों (कैलकुलेशंस) सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- (11) स्वत्व आदि का सबूत. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आवेदक का, भूमि या भू-खण्ड (प्लाट) पर अधिकार स्वत्व या हित की साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित सबूत संलग्न होंगे :—
  - (क) विक्रय विलेख, पट्टाविलेख या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज जिसके अधीन भूमि या भू-खण्ड (प्लाट) में अधिकार स्वत्व हित का दावा किया गया है, की अभिप्रमाणित प्रति,
  - (ख) खसरा, नक्शे (पटवारी अक्स) तथा खतौनी अभिलेख, यदि कोई हो, की अभिप्रमाणित प्रतियां,
  - (ग) नजूल के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति:

परन्तु, संबद्ध नजूल प्राधिकारी से पूर्ण अनुमोदित अभिन्यास का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने की दशा में, अभिन्यास में के व्यक्तिगत भूखंड स्वामी से नजूल प्राधिकारी से व्यक्तिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु, यह और कि संबद्ध नजूल प्राधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल किसी भवन के परिनिर्माण, पुनःनिर्माण अथवा निर्माण करने के प्रथम आवेदन पर ही अपेक्षित होगा। यदि प्राधिकारी द्वारा पूर्व में ही भू-तल का अनुमोदन कर दिया गया हो, तो किसी भी दशा में ऊपर के तलों (मंजिलों) का निर्माण करने के लिए संबद्ध नजूल प्राधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

- (घ) अन्य दस्तावेज जो प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाएं पट्टेदारी भू-खण्डों के मामले में पट्टेदार को यह साबित करना होगा कि वह पट्टेदारी भूखंड पर निर्माण करने का हकदार है।
- (ङ) स्वामी का प्राधिकार, यदि आवेदक स्वामी नहीं है तो।
- (12) उन भवनों के लिए जिनमें नियम-35 के अधीन कला आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ऐसा अनुमोदन आवेदन के साथ संलग्न होगा।

17. फार्म हाउस की अनुज्ञा, कृषि उपयोग के लिए उपदर्शित कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों जो कि प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, फार्म हाउस अनुज्ञेय होंगे :—
- भू-खण्ड का न्यूनतम आकार 0.40 हैक्टर होगा ;
  - अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 0.10 होगा;
  - ढलुआ छत सहित संरचना की अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर होगी ;
  - प्राधिकारी को भवन निर्माण हेतु आवेदन करने के पूर्व, फार्म हाउस पर न्यूनतम 100 जीवित वृक्ष प्रति हैक्टर होंगे ;
  - फार्म हाउस तक पहुंच योग्य मार्ग 7.50 मीटर से अनिम्न चौड़ाई वाला होगा ;
  - फार्म हाउस में सभी ओर से न्यूनतम 7.50 मीटर खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) होगा।
18. रेखांक तैयार करना तथा हस्ताक्षर करना — यथास्थिति, वास्तुविद, संरचना इंजीनियर, पर्यवेक्षक या नगर योजनाकारी कोई रेखांक तैयार करेगा और उन पर सम्यकरूप से हस्ताक्षर करेगा और उन पर अपना नाम, पता, अहता, अनुज्ञाप्ति क्रमांक तथा उसकी वैधता लिखेगा। रेखांक पर अपना पता दर्शाते हुए स्वामी/आवेदक द्वारा भी सम्यकरूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुज्ञाप्त व्यावसायियों द्वारा हाथ में लिये जा सकने वाले रेखांकों/भवन का प्रकार तथा परिमाप नियम 26 में दिये अनुसार होगा।
19. परिवर्तन के लिए सूचना — जब आवेदन विद्यमान भवन में किसी परिवर्तन के संबंध में हो तो आवेदन के साथ केवल ऐसे रेखांक तथा विवरण संलग्न होंगे, जो आवश्यक हों।
20. शासकीय संपत्ति से लगी हुई भूमि पर विकास — यदि शासकीय संस्था प्राधिकारी से यह अपेक्षा करती है कि उनके स्वामित्व की सम्पत्ति से लगी हुई भूमि पर जो विकास प्रस्तावित है, की जानकारी की प्रति प्रदाय की जावे, तो उन्हें वह प्रदाय की जावेगी।
21. शुल्क —
- नियम 14 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन उपनियम (2) द्वारा यथाविहित आवेदन शुल्क के साथ होगा तथा ऐसे भुगतान की पावती की एक अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। ऐसी किसी पावती के बिना प्राप्त कोई आवेदन विधिमान्य नहीं समझा जाएगा और इसलिए खारिज किया जाएगा।
  - आवेदन शुल्क: आवेदन, शुल्क के साथ होगा, जो कि निम्नानुसार होगा :—

(एक) विकास अनुज्ञा के लिए रु. 5000 प्रति हैक्टर या उसके अंश के लिए ;

(दो) भवन अनुज्ञा के लिए, प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 1 रु० प्रतिवर्ग मीटर;

(तीन) आवेदन शुल्क किसी भी रीति में वापस नहीं किया जाएगा।

**(3) अनुज्ञा शुल्क** – आवेदक अनुज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्नलिखित अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा :–

(क) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की स्थिति में (धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को छोड़कर), किसी भूमि के विकास के लिए अनुज्ञा शुल्क निम्नानुसार होगा :–

मद	निम्नलिखित भू-उपयोग क्षेत्र में विकास हेतु	जहां कि योजना क्षेत्र की जनसंख्या		
		10 लाख से अधिक	5 से 10 लाखे अधिक	5 लाख से कम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
देय अनुज्ञा शुल्क (रु./हैक्टर )	आवासीय अथवा सार्वजनिक अथवा अद्व्य सार्वजनिक अथवा औद्योगिक अथवा परिवहन	75, 000	50,000	25,000
	वाणिज्यिक	1,50,000	1,25,000	1,00,000
	आमोद प्रमोद अथवा कृषि अथवा अन्य	30,000	20,000	10,000

(ख) किसी भवन अनुज्ञा की दशा में (बहुमंजिला भवन से भिन्न)

मद कं.	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्र		प्रभार्य शुल्क
		वर्ग मी. से	वर्ग मी. तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोई भवन जो पूर्णरूपेण निवास के रूप में उपयोग के लिए आशयित हो	0	75	750
		76	125	1,250
		126	200	2,000
		201	300	3,000
		301	400	4,000
		401	600	6,000
		601	750	7,500
		751	1,000	10,000
		1,001	1,250	12,500
		1,251	1,500	15,000
		1,501	2,000	20,000
		2,001	2,500	25,000
		2500 से अधिक		50,000
2.	कोई भवन जो दुकान, भंडार घर, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने के लिए अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु आशयित है।	मद क. 1 यथा विहित शुल्क की ऐसी रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ		

3.	कोई भवन जो किसी कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किये जाने के लिए आशयित है।	मद क. में यथाविहित शुल्क
4.	कोई भवन जो दुकान तथा निवास प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु आशयित है।	मद क. में यथाविहित शुल्क की ऐसी रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ
5.	कोई भवन जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित है।	0 से 800 तक की बैठक क्षमता के लिए रु0 15000.00, 800 से अधिक की बैठक क्षमता के लिए रु0 25000.00
6.	कोई भवन जो किसी सामाजिक धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के भवन तथा किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, हेतु उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो	मद क. 1 की तरह
7.	निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन अथवा ऐसा बाह्य परिवर्धन या परिवर्तन जिससे की निर्मित क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती हो जैसे कि आंगन, चहारदीवारी, ऊँचाई, या छत में परिवर्तन जैसे कि समतल सतह की ऐसी सीट में टाईल्स लगाना, अतिरिक्त मार्ग खोलना या बन्द करना जो नियम 12 के उपनियम (1) के परंतुक अंतर्गत न आते हों	रु. 5000.00
8.	प्रस्तावित रेखांक में परिवर्धन या परिवर्तन के मामले में	10 प्रतिशत तक रु0 500. 00 10 प्रतिशत से अधिक नियमों के अनुसार नया आवेदन आवश्यक होगा
9.	भवन निर्माण अनुज्ञा का पुनः विधि मान्यकरण	संबंधित भवन के संबंध में मूलतः प्रभारित अनुज्ञा शुल्क की रकम का 10 प्रतिशत

(ग) बहुमंजिला भवन की भवन अनुज्ञा की दशा में :—

मद क्र.	निर्माण का प्रकार	प्रभार्य शुल्क रूपये में
(1)	(2)	(3)
1.	कोई भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिए आशयित हो	निर्मित क्षेत्र का रु. 10 प्रति वर्गमीटर
2.	कोई भवन जो दुकान, भंडार घर, कारखाना या व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिए अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	मद क्र. 1 में यथाविहित शुल्क तथा शुल्क की रकम का 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार
3.	कोई भवन जो किसी कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो	मद क्र. 1 में यथाविहित शुल्क
4.	कोई भवन जो दुकान सहनिवास के प्रयोजन के लिए आशयित हो	मद क्र. 1 में यथाविहित शुल्क तथा शुल्क की रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार
5.	कोई भवन जो किसी विशेष सामाजिक, धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजन, जिसमें चिकित्सालय, विद्यालय, वलब, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के भवन सम्मिलित हैं, के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो	मद क्र. 1 में यथाविहित शुल्क

(घ) यदि आवेदक शुल्क जमा करने की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञा शुल्क नहीं जमा करता है तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा। आवेदक को ऐसी सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(4) मानक रेखांक अनुज्ञा :—

प्रत्येक प्राधिकारी 150 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आकार के लिए अनुमोदित मानक भवन रेखांकों का एक सेट रखेगा। यदि स्वामी/आवेदक का भूखण्ड किसी अनुमोदित अभिन्यास में स्थित है तथा यदि वह प्राधिकारी के पास उपलब्ध अनुमोदित मानक रेखांकों में से एक के अनुसार अपने आवास का निर्माण करने की इच्छा रखता है तो वह अपनी पसंद के अनुमोदित मानक रेखांक दर्शित करते हुए आवश्यक शुल्क तथा अपने स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। प्राधिकारी को शुल्क के भुगतान की रसीद ऐसे मामले में प्राधिकृत भवन अनुज्ञा के रूप में मानी जाएगी।

**(5) परिवर्तन के लिए आवेदन :-**

अधिनियम की धारा 30 के अधीन पूर्व से ही प्रदान की गयी अनुज्ञा को परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश के अनुपालन में आवेदित किसी आवेदन की दशा में, जो कि ऐसे परिवर्तन की अपेक्षा करता है या उसे अनुमत करता है, केवल यहां ऊपर उपनियम (2) में विहित आवेदक शुल्क प्रभारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में उपनियम (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित कोई अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

**(6) आवेदन का वापस लिया जाना :-**

उस दशा में जहां कि आवेदक अनुमति के पूर्व किसी समय अपने आवेदन तथा रेखांकों को वापस ले लेता है तो ऐसी वापसी ऐसे आवेदन के संबंध में समर्त कार्यवाहियों को समाप्त कर देगी। वापसी की तारीख से तीन मास की किसी कालावधि के भीतर नवीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क नवीन आवेदन के लिए देय शुल्क के मद्दे समायोजित किया जाएगा। किसी भी दशा में एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

**22. विलयन तथा विभाजन –**

**(क) भूखण्ड का विलयन –**

(1) किसी भूखण्ड के अन्य भूमि अथवा भूखण्ड के साथ विलयन के लिए कोई आवेदन ऐसे भूखण्ड अथवा भूमि के यथास्थिति स्वामी अथवा स्वामी (स्वामियों) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, परिशिष्ट-ट में दिए गए प्ररूप-थ में, संचालक को किया जाएगा। आवेदन के साथ प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 5000/- रु० होगा तथा ऐसे शुल्क के भुगतान की रसीद की एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी। विलयन के आवेदन को अनुमत किए जाने की दशा में ऐसी अनुज्ञा के प्रदान किये जाने के समय आवेदक को 25000/- रु० के समतुल्य कोई अनुज्ञा शुल्क देना होगा।

(2) (1) उस दशा में जहां कि परिसर का भू-उपयोग आवासीय है, भूखण्डों का विलयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुमत किया जाएगा—

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के भूखण्डों का विलयन नहीं किया जाएगा;

(ख) केवल समीपस्थ भूखण्डों का विलयन किया जाएगा तथा ऐसे विलयन किए गए भूखण्ड 500 वर्ग मी० से अधिक नहीं होंगे;

- (ग) विलयन के पश्चात् गठित भूखण्ड में अनुज्ञेय निवास इकाईयों की संख्या, उन भूखण्डों के, जिनका कि विलयन किया गया था, अनुज्ञेय निवास इकाईयों के योग से अधिक नहीं होगी;
- (2) किसी आवासीय भूखण्ड का भूमि के साथ विलयन प्रतिषिद्ध है।
- (3) (1) वाणिज्यिक भू उपयोग वाले परिसर से लगे हुए भूखण्डों का विलयन किया जा सकेगा।
- (2) किसी वाणिज्यिक भूखण्ड का भूमि के साथ विलयन प्रतिषिद्ध है।
- (4) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भू उपयोग वाले परिसरों से लगे हुए भूखण्डों का विलयन किया जा सकता है।
- (5) औद्योगिक भू उपयोग वाले परिसरों से लगे हुए भूखण्डों का विलयन किया जा सकता है। ऐसे भूखण्ड का सदृश भू उपयोग वाली लगी हुई भूमि के साथ भी विलयन किया जा सकता है।
- (6) विलयन के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर संचालक ऐसे विलयन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, यदि कोई हों, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए, परिशिष्ट-ट में दिये गये प्ररूप-ण से कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियत अंतिम दिन के पश्चात् संचालक प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, तो, का परीक्षण करने को अग्रसर होगा संचालक, आवेदक अथवा आपत्तिकर्ता अथवा किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगा सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।
- (7) (1) आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तथा हितबद्ध व्यक्तियों, यदि कोई हों, को सुनने के पश्चात्, संचालक, या तो,—  
 (क) आवेदन को स्वीकार कर सकेगा; अथवा  
 (ख) आवेदन को खारिज कर सकेगा; अथवा  
 (ग) आवेदन को ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार कर सकेगा जैसी कि उचित समझी जाएँ।
- (2) यद्यपि विलयन का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा विलयन—  
 (क) किसी व्यक्ति के पहुंच के अधिकार को किसी भी रीति में प्रतिकूलतः प्रभावित करता है;

(ख) लागू विकास रेखांक में विहित मानदण्डों अथवा अधिनियम अथवा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

- (8) मिश्रित उपयोग वाले भूखण्ड अथवा भूमि की दशा में विलयन के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9) जहां कि भूखण्ड किसी सरकारी अभिकरण जैसे गृह निर्माण मण्डल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विकसित किसी योजना के किसी अभिन्यास का भाग है, विलयन केवल तभी अनुमत किया जा सकेगा। जब आवेदक संबद्ध अभिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

**(ख) भूखण्ड का विभाजन –**

- (1) किसी भूखण्ड के विभाजन के लिए कोई आवेदन परिशिष्ट-ट के प्ररूप— द में संचालक को किया जाएगा। आवेदन के साथ प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (2) आवेदन शुल्क 5000/- रु० होगा तथा ऐसे शुल्क के भुगतान की रसीद आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी। उस स्थिति में जहां कि विभाजन का आवेदन अनुमत कर दिया जाता है, आवेदक को, ऐसी अनुज्ञा प्रदान किए जाने के समय 25000/- रु० के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (3) केवल सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक अथवा औद्योगिक उपयोग के परिसरों वाले भूखण्डों का विभाजन अनुज्ञय होगा। मिश्रित उपयोग अथवा किसी अन्य उपयोग वाले भूखण्ड की दशा में विभाजन के किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (4) विभाजन के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर संचालक, आवेदित विभाजन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करते हुए परिशिष्ट-ट में दिए गए प्ररूप— त में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। विभाजन के अधीन भूखण्ड से लगे हुए भूखण्डों के स्वामियों अथवा अधिभोगियों को भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना पत्र तामील किया जाएगा, जिन्हें सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। आपत्तियां/ सुझाव प्राप्त करने हेतु नियम अंतिम दिन के पश्चात् संचालक प्राप्त आपत्तियों का यदि कोई हों परीक्षण करने को अग्रसर होगा। संचालक, आवेदक अथवा आपत्तिकर्ता अथवा किसी

लोक प्राधिकारी से, ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे।

- (5) (1) आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तथा हितबद्ध व्यक्तियों की, यदि कोई हों, सुनवाई के पश्चात्, संचालक, या तो –
- (क) आवेदन को स्वीकार कर सकेगा; अथवा
  - (ख) आवेदन को खारिज कर सकेगा ; अथवा
  - (ग) आवेदन को ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार कर सकेगा जैसी कि उचित समझी जाएं।
- (2) यद्यपि भूखण्ड के विभाजन का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा विभाजन –
- (क) किसी व्यक्ति के पहुंच के अधिकार को किसी भी रीति में प्रतिकूलतः प्रभावित करता है;
  - (ख) लागू विकास रेखांक में विहित मानदण्डों अथवा अधिनियम अथवा इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है।
- (6) जहां कि भूखण्ड किसी सरकारी अभिकरण जैसे गृह निर्माण मण्डल, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विकसित किसी योजना के किसी अभिन्यास का भाग है, विभाजन केवल तभी अनुमत किया जा सकेगा जब आवेदक संबद्ध अभिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

### 23. मंजूरी की अवधि :—

- (1) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अधीन एक बार अनुदत्त की गई मंजूरी तीन वर्ष तक विधिमान्य बनी रहेगी।
- (2) यदि अनुज्ञा का अवसान हो जाता है तो उसे पुनर्विधिमान्य कराया जाएगा। ऐसा पुनर्विधिमान्यकरण एक—एक वर्ष की दो लगातार अवधियों के लिए अनुमत किया जा सकेगा, जिसके पश्चात् प्रस्ताव नए सिरे से प्रस्तुत करना होगा। पुनर्विधिमान्यकरण के आवेदन के उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किए जाने की दशा में प्राधिकारी, उसे पुनर्विधिमान्य करने के पूर्व नियम 21 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन विहित शुल्क के बराबर अनुज्ञा शुल्क प्रभारित करेगा। यद्यपि, पुनर्विधिमान्यकरण के लिए आवेदन उसकी विधिमान्यता की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होता है तो कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। पांच वर्ष की परिसीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

- (3) उस दशा में जहां कि परियोजना का निष्पादन अधिनियम की धारा 30 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के विधिमान्य रहने के दौरान प्रारंभ होता है, अनुज्ञा तत्पश्चात् किसी भी समय व्यपगत हुई नहीं समझी जाएगी तथा कोई पुनर्विधिमान्यकरण अप्रेक्षित नहीं होगा।
- 24. निर्माण के दौरान विचलन।—** (1) स्वीकृत रेखांक से विचलन अनुज्ञेय नहीं होगा यदि ऐसे विचलन में अंतर्ग्रस्त निर्माण —
- (क) सामने के सीमान्त खुले क्षेत्र को प्रभावित करता है;
  - (ख) अनुज्ञेय एफ ए आर के 10 प्रतिशत से अधिक है;
  - (ग) वाहन क्षेत्र एवं लोक उपयोगिता स्थान से संबंधित है;
  - (घ) सड़क की सीमा अथवा सार्वजनिक मार्ग के संरेखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर आता है ;
  - (ङ) किसी जल निकाय, तालाब, नदी अथवा नाला या जलधारा के क्षेत्र में आता है ; तथा
  - (च) जल निकाय के किनारे के 30 मीटर या ऐसी दूरी के भीतर आता है जैसा कि सुसंगत विकास रेखांक में विहित किया जाए।
- (2) प्रत्येक निर्मित तल के लिए भवन की ऊँचाई में 0.15 मीटर तक की बढ़ोत्ती को भवन की ऊँचाई की गणना में नहीं लिया जावेगा ।
- (3) जहां कि भवन के निर्माण में स्वीकृत रेखांक से कोई विचलन होता है, स्थानीय प्राधिकारी ऐसा प्रशमन शुल्क प्रभारित कर सकेगा जैसा कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के कार्य को प्रशासित करने वाले सुसंगत अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों में विहित किया जाए।

**25. अनुज्ञा का प्रतिसंहरण।—**

प्राधिकारी, इन नियमों के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई किसी अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी अनुज्ञा मिथ्या कथन अथवा किसी सारवान् तथ्य के दुर्व्यवपदेशन के आधार पर प्राप्त की गयी हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेक्षण नहीं किया गया हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को जिसने कि अनुज्ञा प्राप्त की हो, सुनवाई का एक अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और की प्रतिसंहरण अथवा निलंबन का ऐसा आदेश बातिल हो जाएगा यदि आवेदक अधिनियम अथवा नियम अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का

पालन कर देता है। तथापि, जहां अनुज्ञा मिथ्या कथन अथवा किसी सारवान तथ्य के किसी दुर्व्यपदेशन के आधार पर प्राप्त की गयी हो तो प्रतिसंहरण का ऐसा आदेश बातिल नहीं किया जाएगा।

**26.** इंजीनियर आदि को अनुज्ञाप्ति देना – (1) प्राधिकारी, संरचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, तथा नगर योजनाकारों को जिनके पास उपनियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ हों, परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्ररूप में अनुज्ञाप्ति दे सकेगा।

(2) किसी इंजीनियर आदि को अनुज्ञाप्ति देने के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता कॉलम 2 में दी गई हैं।

पदनाम	न्यूनतम अर्हता	
	(1)	(2)
1. वास्तुविद्		कोई वास्तुविद्, जो वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन वास्तुविद् परिषद् में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, ऐसे वास्तुविद् को विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकारियों से कोई पृथक् अनुज्ञाप्ति अपेक्षित नहीं होगी।
2. संरचना इंजीनियर		मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा इंजीनियर संस्था (भारत) या समकक्ष समुद्रपारीय संस्था से सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन में चार्टर्ड इंजीनियर या सह सदस्य और संरचना इंजीनियरिंग पद्धति के साथ डिजाईनिंग एवं फील्ड वर्क में तीन वर्ष का अनुभव परन्तु तीन वर्ष का अनुभव कम कर दिया जाएगा, – (क) मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय की संरचना इंजीनियरिंग की शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि की दशा में दो वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा (ख) संरचना इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की दशा में एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा।
3. इंजीनियर		इंजीनियर संस्था (भारत) की कार्पोरेट सदस्यता (सिविल) या सिविल नगरपालिक या संरचना इंजीनियरिंग में ऐसी उपाधि या पत्रोपाधि जो उसे ऐसी सदस्यता के लिए पात्र बनाती हो।
4. पर्यवेक्षक		(क) स्थापत्य सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या वास्तुकला में इंटरमीडिएट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दो वर्ष का अनुभव ; या (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट्समेन के साथ किसी वास्तुविद् या इंजीनियर के अधीन पांच

		वर्ष का अनुभव।
5.	नगर योजनाकार	वास्तुकला या सिविल इंजीनियरिंग या भौतिक योजना में स्नातक, के साथ नगर योजना या शहरी योजना या क्षेत्रीय योजना या हाउसिंग योजना या परिवहन योजना या शहरी रूपांकन या भूदृश्य वास्तुकला में स्नातक।

टिप्पणी— इस संबंध में इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हताएं भी स्वीकार की जाएंगी।

- (3) इस नियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त कराने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित की अभिप्रामाणित प्रति के साथ प्राधिकारी को आवेदन करेगा:—
  - (एक) प्रमाण पत्र जिन पर दावा आधारित है ; और
  - (दो) अनुज्ञाप्ति फीस के भुगतान के प्रतीक रखरूप रसीद ।
- (4) अनुज्ञाप्ति मंजूर करने वाला प्राधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे रखे जायेंगे जिसे अनुज्ञाप्ति मंजूर की गई हो या जिसकी अनुज्ञाप्ति नवीकृत की गई हो ।
- (5) अनुज्ञाप्ति तीन वर्ष के लिये विधिमान्य होगी और उसी अवधि के लिये नवीकरण योग्य होगी ।
- (6) शुल्क — अनुज्ञाप्ति मंजूर करने का शुल्क निम्नानुसार होगा :—
  - (1) संरचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार रूपये 1500
  - (2) पर्यवेक्षकों रूपये 750
  - (3) समूह या एजेन्सी रूपये 3600
- (7) मूल अनुज्ञाप्ति की अवधि समाप्त होने पर उपनियम (6) में विहित शुल्क का भुगतान करने पर उसी अवधि के लिये अनुज्ञाप्ति नवीकृत की जा सकेगी ।
- (8) अनुज्ञाप्ति धारी अपनी अनुज्ञाप्ति के निबंधनों के अनुसार कार्य करेगा ।
- (9) कोई वास्तुविद् या कोई अनुज्ञाप्त संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार इसमें नीचे दर्शाये गये कर्तव्यों का पालन करने के लिये सक्षम होगा:—
  - (क) वास्तुविद—सक्षमता— कोई भी वास्तुविद् जो कि परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है, भवन के लिये अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :—
    - (क) सभी भवनों चाहे वे किसी भी आकार तथा ऊँचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं;

(ख) 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड पर तथा तीन मंजिल या 11 मीटर ऊंचाई तक के आवासीय भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएँ;

(ग) सभी भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण पत्र;

(घ) 4 हेक्टर तक के क्षेत्र विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक और उनसे संबंधित सूचनाएँ ; तथा

(ड) 4 हेक्टर तक के भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण प्रमाण—पत्र

#### (ख) संरचना इंजीनियर सक्षमता —

अनुज्ञाप्त संरचना इंजीनियर भवन की अनुज्ञा से संबंधित कार्य कार्यान्वित करने के लिये सक्षम होगा तथा निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:-

(एक) 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर तथा तीन मंजिल या 11 मीटर की ऊंचाई तक के आवासीय भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभीरेखांक तथा सूचनाएँ;

(दो) समस्त भवनों के लिये संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएँ ;

(तीन) समस्त भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण—पत्र;

(चार) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक और संबंधित सूचनाएँ;

(पांच) एक हेक्टेयर तक के भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र।

(ग) इंजीनियर सक्षमता— अनुज्ञाप्त इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:-

(एक) 300 वर्ग मीटर तक के भू-खण्ड पर तथा दो मंजिल या 7.5 मीटर की ऊंचाई तक के आवासीय भवनों से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएँ;

(दो) 500 वर्ग मीटर तथा चार मंजिल (15 मीटर) तक की ऊंचाई के समस्त भवनों के लिये संरचनात्मक ब्यौरे एवं गणनाएँ;

(तीन) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाणपत्र ;

(चार) 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित सूचनाएँ ; और

(पांच) 1 हेक्टेयर तक के भूमि क्षेत्र के विकास हेतु पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र।

(घ) पर्यवेक्षक— सक्षमता — अनुज्ञाप्त पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:-

- (एक) 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर और दो मंजिल या 7.5 मीटर की ऊँचाई तक के आवासीय भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी ;
- (दो) ऊपर (एक) में भवनों के लिए पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र;
- (ड) नगर योजनाकार—सक्षमता— अनुज्ञाप्त नगर योजनाकार निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा:—
- (क) भूमि के आकार को विचार में लाए बिना विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी ; और
- (ख) ऊपर (क) में दिए गए अनुसार भूमि के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण—पत्र
- (च) समूह या अभिकरण:— जब अर्हता प्राप्त वास्तुविदों, इंजीनियरों, नगर योजनाकार का कोई अभिकरण या समूह कार्य कर रहा हो तो अर्हता और कार्य की सक्षमता, समूह या अभिकरण में व्यक्ति की उच्चतम सक्षमता के बराबर होगी।

## 27. अनुज्ञा स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना:—

(1) प्राधिकारी, रेखांक तथा विशिष्टियां या तो स्वीकृत कर सकेगा या उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा या उन्हें ऐसे परिवर्तनों या निर्देशों या शर्तों जैसा कि वह उचित समझे, के साथ स्वीकृत कर सकेगा और उस पर अपना निर्णय परिशिष्ट—घ में आवेदक को संसूचित करेगा। स्वीकृत रेखांक (अमोनिया प्रिंट/सफेद प्रिंट) का एक सेट कपड़ा चढ़ा हुआ/लेमीनेटेड होगा, जो कि अभिलेख के लिये प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा।

(2) यदि प्राधिकारी की राय में भू—खण्डों का अभिन्यास या मार्ग या पहुंच मार्ग का संरेखण, यातायात के सहज आवागमन में सहायक नहीं है या उससे संलग्न भूमियों के अभिन्यास तथा विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, तो प्राधिकारी, आवश्यक समझे गये अनुसार अभिन्यास में परिवर्तन करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा। संबंधित राज्य संकर्म विभाग द्वारा यथाविहित विकास कार्यों की विशिष्टियां जैसे सड़कें, मलवाहन, जल आपूर्ति, बिजली, विकास कार्यों में जोड़ी जाएंगी।

28. अनुज्ञा स्वीकृत करने या उसे अस्वीकृत करने का परिसीमा काल—यदि अधिनियम की धारा—30 की उपधारा (5) में विहित कालावधि के भीतर प्राधिकारी अपनी अस्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आवेदक को लिखित में सूचना देने में असफल रहता है तो अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी। तथापि किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी व्यक्ति को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, तथा विकास योजना या परिक्षेत्र योजना के उपबंधों के विरुद्ध, या भूमि के पट्टे या स्वत्वों के निबंधनों के विरुद्ध या कार्यस्थल पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करने लिये प्राधिकृत करती है।

29. अनुज्ञा देने से इंकार करने की स्थिति में कारण बताये जाएंगे— अनुमति देने से इंकार करने की दशा में प्राधिकारी ऐसा करने का कारण बतायेगा। प्राधिकारी यथासंभव, पहली बार में स्वतः प्रस्तुत आवेदन, रेखांकों, विशिष्टियों और दस्तावेजों पर सभी आपत्तियों को बतायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व की आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् पुनः प्रस्तुतिकरण के समय कोई नई आपत्तियां नहीं उठाई जाएं ।
30. आपत्तियों का निराकरण करते हुए स्वामी द्वारा रेखांकों का पुनः प्रस्तुत किया जाना— एक बार रेखांक की सूक्ष्म जांच हो जाने तथा कमियों/आपत्तियां इंगित कर दिये जाने के पश्चात्, आवेदक कमियों/उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिये रेखांक को परिवर्तित करेगा और उसे पुनः प्रस्तुत करेगा। प्राधिकारी पुनः प्रस्तुत दस्तावेजों/रेखांक की सूक्ष्म जांच करेगा और यदि उसमें और भी आपत्तियां हों तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

### 31 आवेदक/ स्वामी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य –

- (1) न तो अनुज्ञा की स्वीकृति और न ही रेखांचित्रों तथा विशिष्टियों के अनुमोदन से और न ही भवन के परिनिर्माण के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों से आवेदक/ऐसे भवन का स्वामी, इन नियमों और लागू विकास रेखांकों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के पूर्ण उत्तरदायित्व से किसी भी रूप से मुक्त नहीं होगा ।
- (2) प्रत्येक आवेदक या स्वामी—
- (क) प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या भवन अधिकारी या उसके द्वारा सम्यकरूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, उस भवन या परिसरों में जिसके लिए परमिट दिया गया हो, इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी युक्तियुक्त समय में प्रवेश करने देगा;
- (ख) स्थल के स्वामित्व या अधिकारी या हित से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;
- (ग) जहां प्रयोज्य हो वहां भवन जोनिंग ग्रेड, मल प्रवाह नालियों, जल प्रनल (वाटर मेंस), नलकारी (प्लम्बिंग) संकेतों, सुरंग लगाने, सड़क, अधिभोग, विद्युत, राजमार्गों से संबंधित अनुज्ञा तथा प्रस्तावित कार्य के संबंध में संबंधित संस्थाओं से अपेक्षित अन्य सभी अनुज्ञाएं प्राप्त करेगा ;
- (घ) परिशिष्ट ड-1 में भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के आशय के संबंध में प्राधिकारी को सूचना देगा ;

- (ङ) परिशिष्ट ड -2 में कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को लिखित में सूचना देगा ;
- (च) परिशिष्ट ड -3 में प्राधिकारी को अनुज्ञा में वर्णित कार्य की पूर्णता के संबंध में लिखित सूचना देगा ;
- (छ) प्राधिकारी से परिशिष्ट ड-4 में निम्नलिखित के पूर्व अधिभोग के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा :—
- (एक) किसी भी भवन या उसके किसी भाग के निर्माण या परिवर्धन के पश्चात् उस भवन या उसके किसी भाग के अधिभोग; या
- (दो) किसी भी भवन या उसके किसी भाग के अधिभोग की श्रेणी में परिवर्तन;
- (ज) भूमि स्वामी के आवेदन पर, प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुज्ञा, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन में जारी नहीं की जाती है अथवा उक्त अवधि के भीतर परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि अधिभोग प्रमाण—पत्र जारी कर दिया गया है।
- (3) आवेदक या भूमि स्वामी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों अथवा कर्तव्यों का पालन न किए जाने की अवस्था में भवन अधिकारी, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), मध्यप्रदेश नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) जैसी भी स्थिति हो, के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करेगा ।

### 32 स्थल पर रखे गए दस्तावेज़ :

- (1) जहां किन्हीं सामग्रियों का परीक्षण इन नियमों की अपेक्षाओं की अनुरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाता हो वहां परीक्षण के आंकड़ों के अभिलेख भवन निर्माण के दौरान और तत्पश्चात् ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए, निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे ।
- (2) ऐसा व्यक्ति जिसे अनुज्ञा जारी की जाए, निर्माण के दौरान :—
- (क) उस संपत्ति के, जिसके कि संबंध में अनुज्ञा जारी की गई हो किसी सहजदृश्य स्थान पर भवन निर्माण या विकास, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अनुज्ञा की प्रति लगायेगा; और

(ख) उस संपत्ति के, जिसके कि संबंध में अनुज्ञा जारी की गई हो, बारे में, नियम 20 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित रेखाचित्रों (ड्राइंग) तथा विशिष्टियों की एक प्रति रखेगा ।

### 33 प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण :

- (1) सामान्यतया ऐसे प्रत्येक निर्माण या निर्माण कार्यों का, जिनके लिए अनुज्ञा आवश्यक हो अथवा जारी की गई हो प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा । यदि निर्माण में परिसंकट अंतर्वलित हो या जिनका निरंतर निरीक्षण किया जाना आवश्यक हो, वहां प्राधिकारी विशेष निरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगा ।
- (2) जहां आवश्यक हो, वहां सूचना प्राप्त होने के बाद 7 दिन के भीतर निरीक्षण किया जाएगा । ऐसी अवधि के पश्चात् आवेदक या स्वामी स्वीकृत रेखांक के अनुसार निर्माण कार्य जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा । प्रथम निरीक्षण के समय प्राधिकारी अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार यह अवधारित करेगा कि क्या भवन की अवस्थिति, अनुमोदित स्थल रेखांक के अनुसार है । निर्माण कार्य पूरा होने का अंतिम निरीक्षण, सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर किया जाएगा ।
- (3) जब किसी निर्माण कार्य के निरीक्षण से यह पता चले कि सुरक्षा उपायों में कोई कमी है तो प्राधिकारी को, आवेदक या स्वामी को तत्काल तब तक कार्य बंद करने का निर्देश देने का अधिकार होगा जब तक कि आवश्यक उपचारी उपाय नहीं कर लिए जाते हैं ।

34 भवन गिराना— भवन के गिराने से पूर्व आवेदक या स्वामी, भवन के भीतर के समस्त सेवा कनेक्शनों, विभिन्न सेवाओं जैसे जल, विद्युत, गैस, मल नाली तथा अन्य सेवा कनेक्शनों के संबंधित सेवा प्रदाताओं को सूचना देगा । भवन को गिराने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उपयोगी वस्तुओं को हटाने से संबंधित ऐसी सूचना न मिल गई हो जिसमें यह बताया गया हो कि भवन से संबंधित सेवा कनेक्शन तथा आनुषंगिक उपकरण जैसे मीटर और रेग्युलेटर हटा लिए गए हैं या सीलबंद कर दिए गए हैं और उनमें सुरक्षित तरीके से प्लग लगा दिए गए हैं ।

### 35 स्थापत्य नियंत्रण—

- (1) इन नियमों के उपबंधों का पालन सामान्य भवनों के लिए पर्याप्त है । तथापि ऐसे बड़े सार्वजनिक भवन या काम्पलेक्स जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हों या पुरातात्त्विक महत्व के स्मारकों या भवनों के निकट हों जो विद्यमान संरचनाओं के सम्मुख स्थित हैं, की संपूर्ण योजना के सौंदर्य बोध का भी परीक्षण करना होगा ।

इसके अतिरिक्त, ऐसे विकास जिनमें ऐतिहासिक, रथापत्य संबंधी या अन्य स्मारकों की सामान्य विशिष्टताएं और पर्यावरण प्रभावित हो, की भी जांच की जाएगी और बनाए गए रेखांक में आवश्यक उपांतरण भी किए जाएंगे ।

**टिप्पणी:-** इस खण्ड का उपयोग केवल दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना आशयित है और जांच केवल विद्यमान संरचनाओं के साथ ही नई संरचनाओं के सौदर्य को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बाहरी रथापत्य संबंधी विशेषताओं तक सीमित होगी ।

(2) प्राधिकारी, सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे भवनों की योजनाओं का परीक्षण करने के लिए एक कला आयोग नियुक्त कर सकेगा । इस आयोग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो संबंधित विषय के विशेषज्ञ हों ।

(3) आयोग, उपनियम (1) में वर्णित किए गए अनुसार केवल महत्वपूर्ण भवनों का चयन करेगा और उनका परीक्षण करेगा । यथास्थिति, स्वामी और /या वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर या नगर योजनाकार जिसने रेखांक पर हस्ताक्षर किए हैं, का परीक्षण किया जा सकेगा । रेखांकों, उठानों (एलिवेशन), खण्डों, माडलों आदि का अध्ययन किया जाएगा ।

यथास्थिति, वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर या नगर योजनाकार सामान्य रूप से उन प्रयोजनों को, जिनके लिए भवन का उपयोग किया जाना है, और मुख्य रूप से उन शर्तों को, जिनसे प्रेरित होकर डिजाइन तैयार की गई है, स्पष्ट करेगा । आयोग प्राधिकारी को संपूर्ण योजना में परिवर्तन करने की सिफारिश कर सकेगा या योजना में उपांतरण करने का सुझाव दे सकेगा । प्राधिकारी, इसके पश्चात् भवन अनुज्ञा देने पर अंतिम निर्णय करेगा ।

अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन 60 दिनों की कालावधि की या उस कालावधि की, जिसके भीतर प्राधिकारी को नगर पालिक अधिनियम के अधीन भवन अनुज्ञा देनी चाहिए, संगणना करते समय, आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने में लिया गया समय विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(4) कला आयोग, उन योजनाओं पर भी, जो क्षेत्र को सुंदर बनाएंगी और सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि करेंगी, प्राधिकारी को सलाह दे सकेगा ।

**भाग 4**  
**विकास नियंत्रण**

36. भू उपयोग वर्गीकरण—विभिन्न भू उपयोग वर्गीकरण नीचे दिए अनुसार होंगे :—

अनुक्रमांक	भू उपयोग परिक्षेत्र	भू उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
(1)	(2)	(3)	
1	आवासीय	आवासीय भू—तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय मध्यम घनत्व निम्न घनत्व	(आर 1) (आर 2) (आर—3) (आर 4)
2	वाणिज्यिक परिक्षेत्र	शहर केन्द्र उपनगर केन्द्र सामुदायिक केन्द्र स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र सुविधा व्यावसायिक केन्द्र मण्डी वर्गीकृत बाजार	(सी 1) (सी 2) (सी 3) (सी 4) (सी 5) (सी 6) (सी 7)
3	औद्योगिक परिक्षेत्र	सेवा उद्योग सामान्य उद्योग विशेष उद्योग	(आई 1) (आई 2) (आई 3)
4	मनोरंजन	उद्यान हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान) प्राकृतिक क्षेत्रों या भू—दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण खेल मैदान स्टेडियम झील के सामने का विकास प्रदर्शनी मैदान	(जी 1) (जी 2) (जी 3) (जी 4) (जी 5) (जी 6) (जी 7) (जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/ शिक्षा और अनुसंधान/ स्वास्थ्य/ सामाजिक/ सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)

(1)	(2)	(3)	
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रवर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जे.डे)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टेंड या टर्मिनर्स	(टी 1)
		बस पिक अप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड / हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पी.यूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र / आकसीकरण ताल	(पी.यूएफ 2)
		विद्युत् सब स्टेशन	(पी.यूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउंड्स	(पी.यूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर	(पी.यूएफ 5)
		जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत् लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	
		रेडियो / टी वी स्टेशन	(पी.यूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पी.यूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पी.यूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र	(पी.यूएफ 9)

(1)	(2)	(3)
9	जल निकाय	नदियां (उल्ल्यू 1)
		झील / तालाब / जलाशय (उल्ल्यू 2)
		नाला / नहर (उल्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (उल्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि (ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार (ए 2)

37 (1) भू उपयोग वर्गीकरण में परिसरों का अनुज्ञात उपयोग— इस नियम के अन्य उपबधों के अध्याधीन रहते हुए निम्नलिखित उद्योग आवासीय आर 1, आर 2, परिक्षेत्र और वाणिज्यिक परिक्षेत्रों में अनुज्ञात हैं,—

(एक) परिशिष्ट च के भाग एक में सूचीबद्ध उद्योगों को परिक्षेत्र आर 1, में अनुज्ञात किया जा सकता है :

परंतु ऐसे उद्योगों में एक समय में 5 से अधिक कामगार नियोजित न हों और जिसमें कोई भाप, विद्युत, तेल, जल या कोई अन्य यांत्रिक शक्ति काम में न लाई जाती हो या उनका उपयोग न किया जाता हो:

परन्तु यह और भी कि परिशिष्ट च के कमांक 1 से 38 तक पर सूचीबद्ध उद्योगों को अधिकतम 1 कि.वा. के विद्युत शक्ति भार का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(दो) परिशिष्ट च के भाग एक तथा भाग दो में सूचीबद्ध उद्योगों को परिक्षेत्र आर 2 में अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु भाग—दो के उद्योग जो प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अधिकतम विद्युत भार की और उसमें अधिकथिक शर्तों के अनुसार केवल विद्युत का उपयोग करते हों ;

(तीन) परिशिष्ट च के भाग—तीन में सूचीबद्ध उद्योगों को, जिनका अधिकतम विद्युत भार 5 कि.वा. होंगा, भाग—एक तथा भाग—दो में सूचीबद्ध उद्योगों के अतिरिक्त वाणिज्यिक परिक्षेत्र में अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) भवन का उपयोग तथा अधिभोग का विकास, योजना के अनुसार होना—विभिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञात भवनों के विभिन्न उपयोग तथा अधिभोग विकास योजना में दिए गए अनुसार होंगे ।

- (3) उपयोग परिक्षेत्र के अनुरूप होगा— जहां भवनों या परिसरों का उपयोग विकास योजना में विशिष्ट रूप से न बताया गया हो, वहां उपयोग, उस क्षेत्र के अनुरूप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वह आता हो ।
- (4) विकास योजना में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए अनुसार उपयोग—जहां स्थल का उपयोग विकास योजना में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उसका उपयोग इस प्रकार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा ।
- (5) अननुरूप उपयोग— किसी भू-खण्ड का उपयोग किसी ऐसे उपयोग, अधिभोग या परिसर के लिए नहीं किया जाएगा जो कि इन नियमों या विकास योजना के अधीन अनुज्ञात से भिन्न हों ।

- 38 पहुंच मार्ग. — (1) कोई भी भवन किसी अन्य भवन तक पहुंचने के मार्ग से वंचित नहीं करेगा—कोई भी भवन इस प्रकार नहीं बनाया जाएगा जिसके कारण किसी अन्य भवन तक पहुंचने का मार्ग न रहे ।
- (2) भवन/भूखण्ड/सार्वजनिक/निजी पहुंच मार्ग से लगा होगा प्रत्येक भवन/भूखण्ड यथाशक्य किसी भी सार्वजनिक/निजी पहुंच मार्ग जैसे मार्ग/सड़क से लगा होगा ।
- (3) भवन के निर्माण द्वारा किसी पहुंच मार्ग के लिए अलग रखे गए क्षेत्र का अधिकमण न होना : प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो भवन का परिनिर्माण करता है, किसी भी समय ऐसे किसी भवन का परिनिर्माण नहीं करेगा या करवाएगा या परिनिर्माण करने के लिए अनुज्ञा नहीं देगा, जिससे किसी भी रूप में इन नियमों के अधीन अपेक्षित पहुंच मार्ग के लिए पृथक् रखे गए क्षेत्र का अधिकमण करता हो या उसे समाप्त करता हो ।
- (4) पहुंच मार्ग की चौड़ाई
- (क) निवास स्थान संबंधी भू-खण्ड सार्वजनिक पहुंच मार्गों, जैसे मार्ग या सड़क से लगे होंगे, ऐसे भू-खण्ड पर जो मार्ग या सड़क से जुड़े न हों, मार्ग या सड़क से सीधे जुड़े हुए स्थानों से पहुंचा जा सकेगा । विभिन्न लंबाई के पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई सारणी 3 में दिए गए अनुसार होगी । किसी भू-खण्ड या भूमि के विकास की अनुमति तब, तक नहीं दी जाएगी जब तक वहां सार्वजनिक मार्ग से पहुंचने का साधन न हो, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए सार्वजनिक पहुंच के साधन परिशिष्ट —ज में उल्लिखित किए गए अनुसार होंगे ।

**सारणी—3**  
**पहुंच मार्ग की चौड़ाई तथा लम्बाई**  
**(नियम 38 (4) (क) देखिए)**

अनुक्रमांक	पहुंच मार्ग की चौड़ाई मीटर में	पहुंच मार्ग की लम्बाई मीटर में
(1)	(2)	(3)
1	7.5	150
2	9.0	250
3	12.0	400
4	18.0	1000
5	24.0	1000 से अधिक

- टिप्पणी—** (1) पहुंच मार्ग, सीमान्त खुले स्थान से मुक्त होगा।  
(2) यदि विकास कार्य पहुंच मार्ग के केवल एक ओर ही किया जाता हो तो प्रत्येक मामले में विहित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 0.5 मीटर तक कम की जा सकेगी।  
(ख) अन्य भवन—सभी औद्योगिक भवनों, थिएटर, सिनेमाघरों, सभा भवनों, रस्टूडियो, शैक्षणिक भवनों, बाजारों तथा अन्य भवनों के लिए जहां भारी भीड़ होती हो, पहुंच मार्ग का माप निम्नलिखित से कम नहीं होगा :—

पहुंच मार्ग की चौड़ाई मीटर में	पहुंच मार्ग की लम्बाई मीटर में
(1)	(2)
12.0	200
15.0	400
18.0	600
24.0	600 से अधिक

- (5) रास्ता— सड़क मार्ग या आंतरिक पहुंच मार्ग से भवनों में प्रवेश, जहां तक हो सके ऐसे चौड़े पक्के रास्ते से जो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा जहां कि ऐसे रास्ते की लम्बाई 30 मीटर से अधिक न हो।  
(6) पहुंच मार्ग की लम्बाई— मुख्य पहुंच मार्ग की लम्बाई दूरस्थ भू-खण्ड (भवन) से सार्वजनिक मार्ग तक की दूरी द्वारा अवधारित की जाएगी। गौण पहुंच मार्ग की

लम्बाई उसके प्रारंभ होने के स्थान से अन्य चौड़ी सड़क जिस पर वह मिलता है, तक मापी जाएगी ।

- (7) प्राधिकारी, सामान्य हित में पहुंच मार्ग को और चौड़ा करने की अपेक्षा कर सकेगा—क्षेत्र के सामान्य विकास के हित में प्राधिकारी उपनियम (4) में अपेक्षित बातों की तुलना में पहुंच मार्ग को अधिक चौड़ा करने की अपेक्षा कर सकेगा ।
- (8) विद्यमान निर्मित क्षेत्र में भूखण्डों की सीमा का मार्ग की ऐसे क्षेत्रों में, जो पूर्व से ही निर्मित हैं और जहां भूखण्ड 4.5 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों/पहुंच मार्गों की ओर उन्मुख हैं वहां यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़क /पहुंच मार्ग की चौड़ाई 4.5 मीटर हो जाए, भूखण्ड की सीमा सड़क/पहुंच मार्ग की मध्य रेखा से खिसका दी जाएगी ।

### **39. पहुंच मार्गों का समतलीकरण आदि—**

- (1) पहुंच मार्गों को समतल तथा पक्का किया जाएगा, पत्थर की सिल्लियां तथा फर्शी लगाई जाएंगी, मल निकास नाली, जल निकास नाली, मोरी बनाई जाएगी , प्रकाश व्यवस्था की जाएगी और जलापूर्ति लाइन डाली जाएगी और प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त छाया के लिए वृक्ष लगाए जाएंगे । इन्हें किसी संरचना या जुड़नार (फिक्सचर) द्वारा अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए ताकि इसके कारण उसकी चौड़ाई नियम 38 के उपनियम (4) के अधीन अपेक्षित न्यूनतम चौड़ाई से कम न हो और प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त स्थिति में उसे रखा जाएगा ।
- (2) यदि भवन के किसी निजी मार्ग या अन्य पहुंच मार्ग को समतल पक्का नहीं किया जाता है, उसमें सिल्लियां या फर्शियां नहीं लगाई जाती हैं, मल निकास नाली, जल निकास नाली, मोरी नहीं बनाई जाती हैं, प्रकाश व्यवस्था नहीं की जाती है या जलापूर्ति लाइन नहीं डाली जाती है या प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त छाया के लिए वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं तो वह लिखित सूचना देकर परिसरों के स्वामी या आवेदक या अधिभोगी को ऐसी रीति में, जैसा कि वह निदेश दे, उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कह सकेगा, जो उक्त मार्ग या अन्य पहुंच मार्ग के सामने स्थित हों, उनसे लगे हो या उस पर जाकर जुड़े हों या जहां ऐसे मार्ग या अन्य पहुंच मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सके ।
- (3) यदि कोई संरचना या जुड़नार (फिक्सचर) किसी पहुंच मार्ग पर बनाई जाती है और परिणामस्वरूप उसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो प्राधिकारी उसे पीछे हटा सकेगा या पीछे हटवा सकेगा और उस पर हुआ व्यय स्वामी या आवेदक या अधिभोगी से वसूल कर सकेगा ।

40. राजमार्गों/महत्वपूर्ण सड़कों से पहुंच मार्ग— पेट्रोल पम्प, मोटेल जैसी राजमार्गीय सुविधाओं को छोड़कर किसी परिसर तक ऐसे राजमार्गों तथा ऐसी अन्य सड़कों से, जिन्हें कि प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सीधे कोई पहुंच मार्ग नहीं होगा । ऐसी सड़कों का वह भाग जिस पर सीधे मार्ग की अनुमति दी गई हो, विकास योजना में अभिज्ञापित किए अनुसार होगा । तथापि, ऊपर विनिर्दिष्ट राजमार्गों/अन्य सड़कों पर विद्यमान विकास कार्यों की दशा में यह खण्ड लागू नहीं होगा तथापि, ये उपबंध मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, 1936 (क्रमांक 34 सन् 1936) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के उपबंधों के अध्यधीन होंगे ।
41. आवासीय भवनों से भिन्न भवनों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं—  
 आवासीय भवनों से भिन्न भवनों के लिए पहुंचने के साधनों की निम्नानुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी :—
- (क) मुख्य मार्ग, जिस पर भवन मिलता है, की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी तथा इस मार्ग का एक छोर, जिसकी चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, दूसरे मार्ग से मिलेगा ;
  - (ख) भवन तथा उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह वाला होगा । खुली जगह बाधा रहित रखी जाएगी और मोटरों के आ—जा सकने योग्य होगी ;
  - (ग) भू—खण्ड के मुख्य प्रवेश द्वार की चौड़ाई इतनी होगी ताकि दमकल आसानी से प्रवेश कर सके तथा किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम नहीं होगी । प्रवेश द्वार के फाटक, भीतर की ओर परिसरों की अहाता दीवार से सटकर इस प्रकार खुलने चाहिए कि दमकल बाहर से भू—खण्ड के भीतर निर्बाध रूप से आ जा सके । यदि मुख्य प्रवेश द्वार अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर होगी ।
42. 12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था—  
 (1) उन भवनों के लिए जो 12.5 मीटर से अधिक एवं 30 मीटर तक की ऊंचाई के हैं, 12.5 मीटर से अधिक तथा 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए योजना के मानदण्ड सारणी क्रमांक—4 में दिए अनुसार होंगे ।

## सारणी-4

## (नियम 42 (1) देखिए)

भू-खण्ड/भूमियां जिन पर 12.5 मीटर तथा 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रस्तावित हैं

भवनों के लिए विकास मानदण्ड :

अनुक्रमांक	मीटर में मार्ग की ऊंचाई	न्यूनतम भू-खण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र	अग्रभाग मीटर में	फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)	भूतल आच्छादि त क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊंचाई मीटर में	सामने का खुला स्थान मीटर में	बगल का / पृष्ठभाग का एम. ओ.एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	12.0 मीटर तथा अधिक	1000 वर्ग मीटर	18 मीटर	1 : 1.50	30	18 मीटर	7.5	6.0
2.	18 मीटर तथा अधिक	1500 वर्ग मीटर	21 मीटर	1 : 1.75	30	24 मीटर तक	9.0	6.0
3.	24 मीटर तथा अधिक	2000 वर्ग मीटर	30 मीटर	1 : 2.0	30	30 मीटर तक	12.00 मीटर	7.5 मीटर

टिप्पणी : जहां उपयोग किए जाने वाला परिसर व्यावसायिक है तो उपरोक्त कालम (6) में वर्णित भू-तल आच्छादित क्षेत्र, 40 प्रतिशत पढ़ा जाएगा ।

(2) नियम 2 (38) में यथा परिभाषित ऊँचे भवनों के लिए योजना मानदण्ड सारणी क्रमांक 5 में दिए गए अनुसार होंगे –

## सारणी—5

(नियम 42 (2) देखिए)

नियम 2 (30) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिए भू-खण्ड/भूमियां जिन पर ऊंचे भवन प्रस्तावित हैं, के लिए विकास मानदण्ड :

अनुक्रमांक	मार्ग की ऊंचाई	न्यूनतम भू-खण्ड/भूमि (वर्गमीटर) में क्षेत्र	अग्रभाग मीटर में	फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ. ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊंचाई मीटर में	एम.ओ. एस.	बगल का/पृष्ठभाग का एम.ओ.एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	30 मीटर तथा अधिक	2500	30 मीटर	1 :2.25	30	45 मीटर तक	15.00 मीटर	7.5 मीटर
2.	36 मीटर तथा अधिक	3000	40 मीटर	1 :2.50	30	60 मीटर तक	18.00 मीटर	9.0 मीटर
3.	45 मीटर तथा अधिक	3500	45 मीटर	1 :2.75		75 मीटर तक	21.00 मीटर	9 मीटर
4.	60 मीटर तथा अधिक	4000	50 मीटर	1 :3.0	30	90 मीटर तक	24.00 मीटर	10 मीटर
5.	75 मीटर तथा अधिक	4500	60 मीटर	1 :3.0	30	90 मीटर से अधिक	30.00 मीटर	12 मीटर

- (3) उन भवनों के लिए जिनकी ऊंचाई 12.5 मीटर है, समस्त आवश्यक मानचित्र एवं विवरण प्राधिकारी को नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप अग्निशमन संबंधी व्यवस्था का समावेश करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिभोग अनुज्ञापत्र तभी जारी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था कर दी गई है।
- (4) सभी ऊंचे भवनों के लिए रथल अनापत्ति समिति से नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन रथल अनापत्ति आवश्यक होगी। समिति द्वारा रथल अनापत्ति के पश्चात् नगर तथा ग्राम निवेश से निवेश (प्लानिंग) अनुज्ञा तथा प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी।

- (5) भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और वह मोटर के आने जाने योग्य होगी ।
- (6) दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भू-खण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो । प्रवेश द्वार के फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भू-खण्ड में बाहरी पहुंच मार्ग निर्बाध हो । यदि मुख्य प्रवेश द्वार अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर होगी ।
43. बंद गली (कल डी सेक)– भू-खण्डों तक पहुंचाने वाली बंद गली की अनुमति दी जाएगी परंतु बंद गली की अनुज्ञा केवल सीधी सड़कों पर दी जाएगी, और मुड़ने के स्थान का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, वहीं उसका डायमेंशन 11 मीटर से कम नहीं होगा ।
44. गली— जहां आवश्यक हो, गली की व्यवस्था की जा सकेगी । जहां गली की व्यवस्था की गई हो, वहां गली की चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं होगी तथा तब तक बंद गली की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक पर्याप्त मोड़ की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई हो ।
45. सड़कों का परस्पर मिलना—
- (1) इस तरीके से अभिन्यास की व्यवस्था सड़कों के सन्धिस्थलों पर की जाएगी कि जहां तक संभव हो सके सभी सड़कें समकोण पर मिलें । 30 डिग्री से कम अंश पर मिलने वाली सड़कें नहीं होना चाहिए ।
  - (2) समकोणों पर मिलने वाली या अन्यथा सड़कों के संधिस्थलों के लिए प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त गोल या पृथक या तिरछी या उसी प्रकार की सड़कों की चौड़ाई, होने वाले यातायात तथा साईटिंग एंगल आदि पर निर्भर करते हुए अन्य व्यवस्था करनी होगी ।
46. भवन पंक्ति (बिल्डिंग लाइन)— नियम 56 के अध्यधीन रहते हुए पहुंच मार्ग के साधनों से कम से कम 3 मीटर पीछे भवन पंक्ति की व्यवस्था की जाएगी ।

**47. सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधाएं—**

**(1) खुले सामुदायिक स्थान निम्नानुसार होंगे :-**

(क) वाणिज्यिक प्रक्षेत्र— वाणिज्यिक प्रक्षेत्रों में स्थित और 0.2 हैक्टर या अधिक भूमि के किसी अभिन्यास या उप विभाजन में सामुदायिक स्थल मनोरंजन प्रयोजनों के लिए रक्षित रखे जाएंगे। ऐसे स्थान जहां तक संभव हो सके एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे अथवा समुदाय के उपयोग के लिए समूहों या पाकेटों में नियोजित किए जा सकेंगे।

(ख) आवासीय परिक्षेत्रों में सामुदायिक खुले स्थान— भू-खण्ड के रूप विकास के किसी आवासीक अभिन्यास में या भूमि के उप विभाजन में, समूह गृह निर्माण या प्रकोष्ठ गृह निर्माण में, सामुदायिक खुले स्थान, मनोरंजन प्रयोजन के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जहां तक संभव हो इन सामुदायिक खुले स्थानों की सामुदायिक उपयोग के लिए एक ही स्थान पर व्यवस्था की जाएगी या समूह में योजना बनाई जा सकेगी :

परंतु यह कि अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकेगा और वह नीचे उपनियम (2) में यथाउल्लेखित से कम नहीं होगा ।

**(2) न्यूनतम खुला क्षेत्र — न्यूनतम सामुदायिक खुला स्थान निम्नानुसार होगा —**

(एक) अभिन्यास क्षेत्र का 10 प्रतिशत; या

(दो) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की दशा में जैसा कि परिशिष्ट—ज में विहित है।

(3) मनोरंजन के स्थल का न्यूनतम औसत परिमाप — ऐसे क्षेत्र की लम्बाई सामान्यतया औसत चौड़ाई के ढाई गुने से अधिक नहीं होगी। तथापि स्थलाकृति के आधार पर सामान्यतया विभिन्न आकारों के खुले स्थानों के लिए अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, जहां तक कि दिए गए खुले स्थान, खुले स्थानों से लगे हुए निकटवर्ती सामुदायिक स्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों ।

(4) पवेलियन जिमनेशिया— ऐसे मनोरंजन स्थानों में, 25 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र वाली, एक मंजिली संरचना, जिसका पवेलियन अथवा जिमनेशिया के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, अनुज्ञात की जा सकेगी। जहां एक स्थान पर, खुले स्थान का क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, वहां ऐसे पवेलियन जिमनेशिया के निर्मित क्षेत्र का 75 वर्ग मीटर तक विस्तार किया जा सकेगा।

(5) स्वतंत्र पहुंच मार्ग— प्रत्येक मनोरंजन के क्षेत्र तथा उसमें स्थित संरचना तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र पहुंच मार्ग होगा। स्वतंत्र पहुंच मार्गों पर तब तक जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मनोरंजन के स्थल तक अभिन्यास में स्थित प्रत्येक भवन से सीधे पहुंचा जा सकता हो। साथ ही भवन पंक्ति मनोरंजन के खुले स्थल की सीमा से कम से कम 3 मीटर दूर हो।

48. औद्योगिक परिक्षेत्र।— (1) सुविधाजनक खुली जगह का औद्योगिक उपयोग— प्रत्येक औद्योगिक परिक्षेत्र में, कुल क्षेत्र का 5 प्रतिशत, खुले स्थान के रूप में आरक्षित किया जाएगा। ऐसे खुले स्थान का पार्किंग, बैंकिंग, केन्टीन, कल्याण केन्द्र और ऐसे अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें कि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, उपयोग किया जा सकेगा।
- (2) औद्योगिक भूखण्डों में खुला स्थान 1000 वर्ग मीटर या अधिक के औद्योगिक भूखण्डों में, कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत सुविधाजनक खुली जगह के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी सुविधाजनक खुली जगह तक पहुंच मार्ग हो और इस प्रकार इसे स्थित होना चाहिए जिससे कि उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा सहज रूप से उसका उपयोग किया जा सके।
- (3) औद्योगिक भूखण्डों के लिए विकास के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:—

#### औद्योगिक भूखण्डों के लिए विकास के मानदण्ड

अनुक्रमांक	न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत में	न्यूनतम खुला स्थान एम.ओ. एस. मीटर में			अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
			आगे	अगल / बगल	पीछे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0.045 हैक्टर तक	60	3.20	2.10 / 2.10	2.10	1.25
2	0.045 हैक्टर से अधिक और 0.10 हैक्टर तक	60	4.50	3.00 / 3.00	3.00	1.25
3	0.10 हैक्टर से अधिक और 0.20 हैक्टर तक	60	7.50	3.75 / 3.75	4.50	1.00
4	0.20 हैक्टर से अधिक और 0.50 हैक्टर तक	60	9.00	4.50 / 4.50	4.50	1.00
5	0.50 हैक्टर से अधिक और 0.75 हैक्टर तक	60	12.0	6.00 / 6.00	6.00	1.00
6	0.75 हैक्टर से अधिक और 1.00	60	15	7.50 / 7.50	7.50	1.00

	हैक्टर तक					
7	1.00 हैक्टर से अधिक और 1.25 हैक्टर तक	60	18	9.00 / 9.00	9.00	1.00
8	1.25 हैक्टर से अधिक और 2.00 हैक्टर तक	60	21	10.50 / 10.50	10.50	1.00
9	2.00 हैक्टर से अधिक	60	24	12.00 / 12.00	12.00	1.00
फ्लैटेड – उद्योगों के लिए						
10	न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर (0.15 हैक्टर)	50	12	7.50 / 7.50	7.50	1.5

टिप्पणी:-

- (1) कालम क्रमांक (4), (5) और (6) में वर्णित एम.ओ.एस. न्यूनतम है। औद्योगिक भवन के एक से अधिक तल होने की दशा में, सामने का एम.ओ.एस. भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के आधे के बराबर होगा, इसी प्रकार बाजू के एम.ओ.एस. भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के एक तिहाई के बराबर होंगे।
  - (2) राज्य सरकार, मामले के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त मानदण्डों में छूट दे सकेगी।
  - (3) खतरनाक उद्योग/प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग/ऐसे उद्योगों को जिनके लिए कारखाना अधिनियम के अधीन अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है, यथास्थिति औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधीन और/या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
49. अन्य सुविधाएँ.— (1) सामान्यतः खुली जगहों के अतिरिक्त, अभिन्यासों की व्यवस्था सारणी-6 में दिए गए मान पर सामुदायिक सुविधाओं के लिए की जाएगी :—

## सारणी (6)

(नियम 49 (1) देखिए)

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं

क्रमांक	आवश्यक सुविधाएं		प्रावधानों का न्यूनतम माप	आवश्यक क्षेत्र तथा अम्युक्ति
	प्रधान	गौण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शैक्षणिक सुविधाएं	नर्सरी शाला (3 से 5 वर्ष तक का आयु समूह)	4,000 जनसंख्या के लिए एक	0.1 हैक्टर
		प्राथमिक शाला (5 से 11 वर्ष तक का आयु समूह)	4,000 जनसंख्या के लिए 1	प्रति हैक्टर 250 व्यक्तियों तक के घनत्व के लिए 0.6 हैक्टर
		हाई स्कूल (11 से 16 वर्ष तक का आयु समूह)	16,000 जनसंख्या के लिए 1	प्रति हैक्टर 251 से 500 व्यक्तियों तक के घनत्व के लिए 0.5 हैक्टर
		उपाधि महाविद्यालय	80,000 की जनसंख्या के लिए 1	प्रति हैक्टर 250 व्यक्तियों तक के घनत्व के लिए 2.0 हैक्टर प्रति हैक्टर 251 से 500 व्यक्तियों तक के घनत्व के लिए 1.8 हैक्टर
2	स्वास्थ्य सुविधाएं	स्वास्थ्य केन्द्र	प्रत्येक 16,000 की जनसंख्या के लिए 1	1.0 हैक्टर आवासीय कर्मचारी आवास गृहों सहित
		सामान्य चिकित्सालय	प्रत्येक 80,000 की जनसंख्या के लिए 1	4.0 हैक्टर सहायक सामग्री तथा कर्मचारी आवासिक गृहों सहित 200 बिस्तरों के लिए

3	वाणिज्यिक सुविधाएं जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है	सुविधाजनक शापिंग केन्द्र	प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए 1	0.05 से 0.1 हैक्टर
		स्थानीय शापिंग केन्द्र	प्रत्येक 16000 की जनसंख्या के लिए 1	0.4 हैक्टर
		क्षेत्रीय शापिंग केन्द्र	प्रत्येक 80000 की जनसंख्या के लिए 1	2.5 हैक्टर
4	संचार सुविधाएं तथा अत्यावश्यक सेवाएं	उप डाकघर	प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1	100 वर्ग मीटर
		डाक और तार कार्यालय सह डिलीवरी और बुकिंग जिसमें 1000 लाइनों का टेलीफोन एक्सचेंज सम्मिलित है	प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1	1.0 हैक्टर
		विद्युत उप केन्द्र	समस्त विक्रय केन्द्रों में एक	12 मीटर गुणा 12 मीटर
		पुलिस थाना कर्मचारी आवास गृहों सहित	प्रति 50,000 जनसंख्या पर एक	0.8 हैक्टर
		पुलिस चौकी कर्मचारी आवास गृहों सहित	प्रति 20,000 जनसंख्या पर एक	0.4 हैक्टर
5	सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं	धार्मिक भवन	प्रति 15,000 जनसंख्या पर 1	0.8 हैक्टर, सड़कों के प्रतिच्छेदन पर न हो तथा चौराहों से 60 मीटर दूर अवस्थित हो
		कम्युनिटी हाल तथा पुस्तकालय	प्रति 15,000 जनसंख्या पर 1	0.3 हैक्टर
		सिनेमा घर	प्रति 25,000 जनसंख्या पर 1	0.3 हैक्टर क्षेत्रीय शापिंग केन्द्र, कारोबार तथा वाणिज्यिक क्षेत्र जो आवासीय क्षेत्र में न हो, अथवा प्रति स्थान तीन वर्ग मीटर की दर से जो भी अधिक हो, वाहन स्थान सहित ।

6	औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सुविधाएं	श्रमिक कल्याण केन्द्र	प्रति 40 हैक्टर पर 1	0.2 हैक्टर
		सुविधाजनक दुकानें	10 वर्ग मीटर प्रत्येक की 5 दुकानें	0.2 हैक्टर
		स्वास्थ्य केन्द्र	प्रति 200 हैक्टर पर 1	0.6 हैक्टर
		डाकघर	—	0.04 हैक्टर
		टेलीफोन एक्सचेंज	—	0.06 हैक्टर
		बैंक	—	200 वर्गमीटर
		पेट्रोल पम्प सह सर्विस स्टेशन	—	30 मीटर गुणा 35 मीटर
		पुलिस थाना कर्मचारी आवास गृहों सहित	—	0.4 हैक्टर
		अग्निशमन केन्द्र कर्मचारी आवास गृहों सहित	—	0.8 हैक्टर

टिप्पणी —

- (1) उपरोक्त कॉलम (5) में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्दिष्ट है। भूखण्ड का आकार, प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा। सारणी तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी।
- (2) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकताएं परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होंगी।
- (3) सारणी 6 उपविभाजन या अभिन्यास रेखांक की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाने का मार्गदर्शी आधार होगी। विकास रेखांक में प्रस्तावित घनत्व किसी क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या को अवधारित करेगा। ऐसे क्षेत्रों में जिनमें कोई विकास रेखांक या परिक्षेत्रिक रेखांक तैयार नहीं किया गया हो, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तरीका संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (4) उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को परिशिष्ट- छ में दिए अनुसार विहित प्ररूप में कोई आवेदन किया जा सकता है। प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आवेदक को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जैसी कि उसके लिए यथास्थिति विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक अथवा किसी प्रस्तावित भू उपयोग अथवा घनत्व पद्धति के अनुसार उपविभाजन अथवा अभिन्यास रेखांक तैयार करने के लिए आवश्यक हो।

**50. स्थल की आवश्यकताएँ – भूमि के किसी हिस्से का उपयोग भवन निर्माण के लिए स्थल के रूप में नहीं किया जाएगा—**

- (क) यदि प्राधिकारी का यह विचार हो कि स्थल अस्वारक्ष्यकर है या उस पर भवन बनाना खतरनाक है।
- (ख) यदि स्थल जल निकाय/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो।
- (ग) यदि भवन के स्वामी/ आवेदक ने प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में, निर्माण को लगातार सीलन से बचाने के लिए अपेक्षित समर्त उपाय न दर्शा दिए हों।
- (घ) यदि भवन का जनसमूह के एकत्र होने जैसे सिनेमा/थियेटर/ सार्वजनिक पूजन के लिए हो तथा आवेदक ने सम्बद्ध प्राधिकरण के समक्ष अधिकारी से आवश्यक अनुज्ञाप्ति अथवा अनापत्ति नहीं प्राप्त कर ली हो।
- (ड.) यदि कोई भवन किसी ऐसे क्षेत्र में प्रस्तावित हो जो कि पिंजरों, मलमूत्र गंदी तथा घृणास्पद वस्तुओं से भरा हुआ हो, जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर दिया जाए कि वह स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से सुरक्षित है तथा उस पर निर्माण किया जा सकता है।
- (च) यदि स्थल पर नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है और उसमें ऐसी व्यवस्था की भी नहीं जा सकती हो।
- (छ) यदि स्थल का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए हो जो प्राधिकारी की राय में, आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए कष्टप्रद साबित होगा,
- (ज) भू-खण्ड को भवन स्थल के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया हो.
- (झ) स्थल पर भवन का प्रस्तावित अधिभोग विकास योजनाओं या परिक्षेत्रिक विनियमों में भवन उपयोग प्रस्तावों के अनुरूप न हो,
- (अ) भवन, लोकोपयोगी सेवाओं जैसे नगरपालिका नाली/मल निकास नाली या मुख्य जल लाइन या परेषण (टान्समिशन) लाईन को विपरित रूप से प्रभावित करता हो।

### **51. सतही जल नालियाँ**

- (1) भवन की सीमा के भीतर स्थित भूमि के किसी भाग या अन्य क्षेत्र से यदि प्राधिकारी आवश्यक समझे, सतही जल नालियों या अन्य उपायों से कारगर रूप से निकाला जाएगा।

- (2) किसी अधोभूमि या सतही मल निकास नाली से जोड़ने के लिए प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
52. विद्युत लाइनों से दूरी – (1) किसी भवन और किसी ऊपरी विद्युत प्रदाय लाइन के बीच न्यूनतम दूरी इसमें नीचे वर्णित या लागू विद्युत नियमों में वर्णित, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगी। कोई बरामदा, बालकनी या इसी तरह का भवन में किसी प्रकार का परिनिर्माण करने या पुनर्निर्माण या परिवर्धन या कोई अतिरिक्त परिवर्तन करने के लिए है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो इन नियमों का उल्लंघन करता हो:–

अनुक्रमांक (1)	विशिष्टियां (2)	खड़े रूप में मीटर (3)	आड़े रूप में मीटर (4)
(क)	निम्न तथा मध्य वोल्टेज लाइनों तथा सेवा लाइनों	2.5	1.2
(ख)	33000 वोल्ट सम्मिलित करते हुए तथा उच्च वोल्टेज लाइनों	3.7	1.2
(ग)	33000 वोल्ट से परे अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों	(टीप देखिए)	

टीप:— 33000 वोल्ट से अधिक अतिरिक्त वोल्टेज लाइनों के पास स्थित भवनों के लिए 15 मीटर (मध्य रेखा के दोनों तरफ 7.5 मीटर खुला) या लागू विद्युत नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, जो भी अधिक हो, क्षितिज के समानांतर एक बरामदा (कोरीडोर) बनाया जाएगा।

- (2) ऊपर उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम छोड़ी गई जगह, खड़े रूप में छोड़ी गई जगह के लिए अधिकतम से और आड़ी जगह के लिए हवा के दबाव के कारण हुए अधिकतम झुकाव से मापी जाएगी।

### 53 भू-खण्डों के आकार तथा अन्य मानक

- (1) आवासीय:—

(एक) प्रत्येक भू-खण्ड न्यूनतम आकार का होगा और सामने का भाग, नीचे दिये अनुसार विकास के प्रकार के अनुरूप होगा:—

विकास का प्रकार	भू-खण्ड का आकार (वर्गमीटर)	सामने का भाग(फन्टेज) मीटर में
(1)	(2)	(3)
असम्बद्ध भवन	225 से अधिक	12 से अधिक
अर्द्ध असम्बद्ध भवन	125 से 225	8 से 12
पंक्तिबद्ध भवन	50 से 225	4.5 से 8

(दो) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अल्प आय समूह के लिए भूखण्ड के आकार का मानदण्ड परिशिष्ट ज में उपबंधित किए गए अनुसार होगा।

- (2) औद्योगिक — भू-खण्ड का आकार ऐसा होगा जैसा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए।
- (3) भूमि के अन्य उपयोग — व्यवसाय, शैक्षणिक, वाणिज्यिक, सभा भवन, सिनेमा थियेटर, मंगल कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि अन्य उपयोगों के लिए भवनों के भूखण्डों के लिए न्यूनतम आकार ऐसा होगा जैसा कि नीचे दिये गये खण्ड (एक) से (चार) के अध्यधीन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए :-
- (एक) सभा भवन/थियेटर.— जनता के मनोरंजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले रिथर कुर्सियों वाले सभा भवन/थियेटर के लिए भू-खण्ड का न्यूनतम आकार 3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी (सीट) के दर से भवन की बैठक क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

(दो) एक स्क्रीन के साथ सिनेमा हाल.— मानक निम्नानुसार होंगे:

1.	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्र	2000 वर्गमीटर या 4 वर्गमीटर प्रति सीट जो भी अधिक हो,
2.	आच्छादित क्षेत्र	कुल भूखण्ड क्षेत्र का 33 प्रतिशत (भूतल पर)
3.	तल क्षेत्र अनुपात	1.25
4.	न्यूनतम खुला क्षेत्र	सामने न्यूनतम 15 मीटर दोनों ओर 6 मीटर पीछे 6 मीटर
5.	उस सड़क की न्यूनतम चौड़ाई जिस पर सिनेमा प्लाट है।	18 मीटर

**टिप्पणी:-** वाणिज्यिक गतिविधियाँ जो कि सिनेमा से आनुषंगिक है, हेतु एफ.ए.आर. का 10 प्रतिशत क्षेत्र अनुज्ञेय होगा।

(तीन) विवाह पार्क (मेरिज गार्डन):

विवाह पार्क के लिए विकास मानक निम्नानुसार होंगे:

अनुक्रमांक	घटक (कंपोनेन्ट्स)	2 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्र	5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	न्यूनतम भूखण्ड / भूमि क्षेत्र	4000 वर्गमीटर	10000 वर्गमीटर
2	सामने की ओर सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर	18 मीटर
3	न्यूनतम अग्रभाग	25 मीटर	40 मीटर
4	अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात	0.10	0.10
5	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
6	सामने न्यूनतम पार्किंग क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत	भूखण्ड/भूमि क्षेत्र का 40 प्रतिशत
7	न्यूनतम खुला क्षेत्र (एम.ओ. एस.) सामने	पार्किंग जगह के पश्चात् 6.0 मीटर	पार्किंग जगह के पश्चात् 6.0 मीटर
	आजू बाजू तथा पीछे	4.5 मीटर	6.0 मीटर
8	भू उपयोग में अनुज्ञेयता	आवासीय/वाणिज्यिक/कृषि/पी.एस.पी.	आवासीय/वाणिज्यिक/कृषि

(चार) ईधन भराव केन्द्र :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग – राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ईधन भराव केन्द्र हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा विनिश्चित मानदण्ड लागू होंगे।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सड़क – राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न मार्गों पर स्थित ईधन भराव केन्द्र के स्थल हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:

अनुक्रमांक	जनसंख्या	भूखण्ड का न्यूनतम आकार		भूखण्ड का अग्र भाग	भूखण्ड के अग्र भाग के सम्मुख सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	सड़क संयोजन (जंक्शन) से न्यूनतम दूरी	अनुमोदित विकास योजना के भूमि उपयोग में अनुज्ञेयता
		केवल ईंधन भराव स्टेशन (एफएफएस)	सेवाओं तथा सुविधाओं सहित ईंधन भराव स्टेशन (एफएफएस एस)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1 लाख तक	20x20	35x35	20 / (एफएफएस )/ 35	18	100	आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक यातायात, कृषि तथा आमोद-प्रमोद
2.	1 लाख से ऊपर	20X20	35X35	20 / (एफएफएस )/ 35	24	100	

टिप्पण :- समस्त आकार मीटर में हैं।

- विकास योजना में संलग्न यातायात एवं परिवहन मानचित्र में यथादर्शित मार्ग संगम, ऊपर सारणी के कॉलम नम्बर (7) के लिए मान्य होंगे।
- 18 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों पर जिनमें सहायक मार्ग (सर्विस रोड) का प्रावधान हैं, पर मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी का प्रावधान अनदेखा रहेगा। तथापि, पेट्रोल पम्प के स्वामी को ईंधन भरने के पम्प के सामने सहायक मार्ग एवं फुटपाथ का निर्माण ईंधन पम्प के दोनों ओर 250–250 मीटर तक स्वयं के व्यय से करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सेवा केन्द्र हेतु खुदरा बाजार (रिटेल आउटलेट) हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार कॉलम (4) के अनुसार होगा।
- कॉलम (3) उल्लेखित एफ एफ एस में वर्कशॉप की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- कॉलम (4) में उल्लेखित भूखण्डों हेतु अधिकतम निर्मित क्षेत्र, कुल भुखण्ड क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें वर्कशाप और अन्य सेवाएं तथा सुविधाएँ जैसे स्नॅक स्टॉल, पीने का पानी ए.टी.एम. शौचालय इत्यादि सम्मिलित किए जा सकेंगे।
- समस्त ईंधन भरने के केन्द्र में महिला तथा पुरुष शौचालय, पीने का पानी, आग बुझाने का उपस्कर इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

#### भाग 5 – सामान्य भवन आवश्यकताएं

(एक) वर्गीकरण

**54. भवनों का वर्गीकरण:—**

भवनों को अधिभोग के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:—

- (क) आवासीय
- (ख) शैक्षणिक
- (ग) संस्थागत
- (घ) सभा भवन
- (ड.) व्यापारिक
- (च) वाणिज्यिक (इसमें फुटकर तथा थोक भण्डार सम्मिलित हैं)
- (छ) औद्योगिक (इसमें निम्न, सामान्य तथा उच्च अग्नि जोखिम सम्मिलित हैं)
- (ज) भण्डारण
- (झ) खतरनाक

**(दो) खुला स्थान (भू-खण्ड के भीतर)**

- 55 सामान्य —** (1) मानव निवास के लिए प्रत्येक कमरे से लगा हुआ भीतरी या बाहरी खुला स्थान आशयित होगा या ऐसे कमरे से भीतर या बाहरी खुले स्थान की ओर खुलने वाला खुला बरामदा होगा।
- (2) प्रकाश तथा वायु संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खुला स्थान — भवनों के भीतर के तथा उनके आसपास के खुले स्थानों के द्वारा ऐसे खुले स्थानों के साथ लगे हुए कमरों के लिए आवश्यक प्रकाश तथा वायु संचार व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी और सड़क के साथ सामने, पीछे अथवा किनारे से लगे भवन होने की स्थिति में उपलब्ध किए गये खुले स्थान भविष्य में ऐसी सड़कों को छोड़ा करने के लिए काफी होंगे।
- (3) प्रत्येक भवन अथवा खण्ड के लिए पृथक खुला स्थान — प्रत्येक भवन के लिए पृथक या सुभिन्न रूप से खुले स्थान होंगे और जहां भवन में एक या अधिक खण्ड हो वहां प्रत्येक खण्ड के लिए प्रकाश तथा वायु संचार के प्रयोजनों के लिए पृथक या सुभिन्न खुले स्थान होंगे।
- (4) आनुषंगिक और 7 मीटर से अधिक ऊंचे मुख्य भवन के बीच पृथक्करण 1.5 मीटर से कम का नहीं होगा। 7 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए ऐसे पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होगी।

**56. आवासीय भवन— खुला स्थान 12.5 मीटर तक ऊँचाई वाले भवनों के लिए बाहरी खुला स्थान:—**

(1) सामने का खुला स्थान:—

(क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई वाले आवासीय भवन, जिसके सामने मार्ग हो, नीचे दिए गए अनुसार सामने खुला स्थान होगा और ऐसा खुला स्थान ऐसे स्थल का अभिन्न भाग होगा।

अनुक्रमांक	भू—खण्ड के सामने मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम सामने का खुला स्थान
(1)	(2)	(3)
1	9.0 मीटर तक	3.0 मीटर
2	9.0 मीटर से अधिक और 12.0 मीटर तक	3.6 मीटर
3	12 मीटर से अधिक और 18 मीटर तक	4.5 मीटर
4	18 मीटर से अधिक	6.0 मीटर

(ख) 6.0 मीटर से कम चौड़ी मार्ग से लगे विद्यमान विकसित क्षेत्रों में भवन की दूरी (भवन लाईन) मार्ग के मध्य लाईन (सेंटर लाईन) से 6.0 मीटर होगी।

(2) पीछे का खुला स्थान — (क) प्रत्येक आवासीय भवन के पीछे का खुला स्थान जिसकी ऊँचाई 12.5 मीटर तक है निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	भूखण्ड क्षेत्र (वर्गमीटर में)	पीछे न्यूनतम खुला स्थान (मीटर में)
(1)	(2)	(3)
1	40.00 तक	निरंक
2	40.00 से अधिक और 150.00 मीटर तक	1.50
3	150.00 से अधिक और 225.00 मीटर तक	2.50
4	225.00 मीटर से अधिक	3.00

(ख) पीछे की दीवारों के किनारे तक पीछे का खुला स्थान — पीछे खुला स्थान पीछे की दीवार के साथ—साथ विस्तृत होगा। यदि कोई भवन दो या दो से अधिक सड़कों से लगा हुआ हो तो ऐसा पीछे का खुला स्थान के पीछे की दीवार के सम्पूर्ण किनारों तक रखा जाएगा। जब तक प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी पीछे की दीवार भवन के मुख के विपरित वाली दीवार होगी।

(3) बगल का खुला स्थान:—

प्रत्येक अर्द्ध संबद्ध और असंबद्ध भवन में स्थायी रूप से खुला स्थान रहेगा जो निम्नानुसार स्थल का पूर्ण भाग होगा :—

(एक) असंबद्ध भवनों के लिए दोनों और कम से कम 3 मीटर खुला स्थान होगा:

परन्तु 12 मीटर से कम अगवाड़े वाले भूखण्डों पर 7 मीटर तक की ऊँचाई के असंबद्ध आवासीय भवन के लिए, एक तरफ का खुला स्थान 1.5 मीटर तक कम रखा जा सकेगा।

(दो) अर्ध संबद्ध भवनों के लिए एक ओर न्यूनतम 3 मीटर खुला स्थान होगा.

(तीन) पंक्तिबद्ध भवनों के लिए बगल का कोई भी खुला स्थान रखना आवश्यक नहीं होगा।

(4) उप नियम (2) एवं (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गाड़ी रखने के लिए पीछे की ओर का खुला स्थान अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(5) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवन के लिए खुले स्थान:-

12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवन के लिए खुले स्थान (बगल तथा पीछे के) नियम 42 की सारणी 4 तथा सारणी 5 में दिए गये अनुसार होंगे

(6) समस्त भवनों के लिए भीतर के खुले स्थान

(क) भीतरी आंगन –

(एक) प्रत्येक कमरा (स्नानगृह, फलश वाले सण्डास और भण्डार कक्ष को छोड़कर) जो सामने, पीछे या पाश्व (बगल) में खुले स्थान से सटा न हो, भीतरी आंगन से सटा हुआ होगा, जिसकी चौड़ाई कम से कम 3 मीटर होगी।

(दो) आगे यह कि भीतरी आंगन का न्यूनतम क्षेत्रफल उसकी पूरी ऊँचाई में आंगन से लगी हुई सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के पांचवे हिस्से के वर्गफल से कम नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी कमरे (सीढ़ी के लिए छूटे स्थान तथा स्नानगृह और फलश वाले सण्डास को छोड़कर) में प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था के लिए भीतरी आंगन पर निर्भर हो तो उसका क्षेत्रफल उतना होगा जितना भवन के प्रत्येक खण्ड की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(तीन) जहां केवल फलश वाले सण्डास और स्नानगृह भीतरी आंगन से जुड़े हुए हो, तो भीतरी आंगन का क्षेत्रफल, खण्ड (ख) में दिये संवातन (वेन्टीलेशन शेफ्ट) से संबंधित उपबंध के अनुरूप होगा।

(ख) संवातन शेफ्ट— फलश वाले सण्डास और स्नानगृह के संवातन स्थान के लिए यदि सामने, बगल में पीछे की ओर या भीतर की तरफ खुले स्थान न हो, तो संवातन शेफ्ट की ओर खुले होंगे जिनका आकार नीचे दिये गये मान से कम नहीं होगा:-

भवन की ऊँचाई मीटर में (1)	संवातन शेफ्ट का आकार वर्ग मीटर में (2)	पाश्वर्ष शेफ्ट का न्यूनतम आकार मीटर में (3)
10 तक	1.2	0.9 तक
12.5	2.8	1.2
18	4.0	1.5
24	5.4	1.8
30	8.0	2.4
30 से अधिक	9.0	3.0

- टीप—(1) 30 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिए न्यूनतम संवातन शेफ्ट के अतिरिक्त यांत्रिकी पद्धति संस्थापित की जाएगी।
- (2) पूर्णतः वातानुकूलित आवासीय भवनों के लिए संवातन शेफ्ट की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है

परन्तु वातानुकूलन की व्यवस्था निरंतर कार्य करती हो, जिसका अर्थ है कि विद्युतपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था हो।

- (ग) बाहरी आंगन— बाहरी आंगन की न्यूनतम चौड़ाई (उसकी गहराई के भिन्न) 2.4 मीटर से कम होगी। यदि बाहरी आंगन की चौड़ाई 2.4 मीटर से कम हो, तो उसे नांच (NOTCH) माना जाएगा और बाहरी आंगन संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे।

#### (7) भवन के लिए संयुक्त खुला वायु स्थान

- (क) ऐसा प्रत्येक भीतरी या बाहरी खुला स्थान, जब तक कि खुला स्थान कोई सड़क न हो, पूरी तरह ऐसे भवन के लिए रखा जाएगा और सम्पूर्णतः स्वामी के स्वयं के परिसर में होगा।
- (ख) यदि ऐसा भीतरी या बाहरी खुला स्थान एक ही स्वामी के एक से अधिक भवन के लाभ के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशायित हो, तो ऐसे खुले स्थान की चौड़ाई वह होगी, जो यथा विनिर्दिष्ट सबसे ऊँचे भवन के लिये जो ऐसे खुले स्थान से संलग्न हो विनिर्दिष्ट की गयी हो।
- (ग) यदि ऐसे भीतरी या बाहरी खुले स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से स्वामित्व हो तो उसकी चौड़ाई उपरोक्त (ख) अनुसार होगी।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे संयुक्त खुले स्थान के अपने भाग का उपयोग ऐसे संयुक्त खुले स्थान से जुड़े हुए प्रत्येक भवन के लाभ के लिए करने की अनुमति देने के लिए लिखित में सहमत हो तथा वह अपनी लिखित सहमति प्राधिकारी को अभिलेख के लिए प्रस्तुत करे। ऐसा सामान्य खुला स्थान इन

नियमों के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित रथायी रूप से खुला स्थान माना जाएगा। ऐसे संयुक्त खुले स्थान के बीच 2.0 मीटर से अधिक ऊँचाई तक कोई चहारदीवारी निर्मित नहीं की जाएगी या उठाई नहीं जाएगी।

57 अन्य अधिभोगियों के लिए खुले स्थान – अन्य अधिभोगियों के लिए खुले स्थान निम्नानुसार होंगे:—

- (क) शैक्षणिक भवन – नर्सरी स्कूलों को छोड़कर भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।
- (ख) संरक्षित भवन – भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।
- (ग) सभा भवन – भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा तथा आसपास के अन्य खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।
- (घ) व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा भण्डार भवन – भवनों के सामने का खुला स्थान 6 मीटर तथा तीनों तरफ 4.5 मीटर से कम नहीं होंगे। जहां ये पूर्णरूप से आवासीय क्षेत्र में स्थित हों या दुकान तथा आवासीय क्षेत्र में हो, वहां खुले स्थानों के संबंध में छूट दी जा सकेगी।
- (ङ.) औद्योगिक भवन – भवन के आसपास का खुला स्थान 16 मीटर तक की ऊँचाई के लिए 4.5 मीटर से कम नहीं होगा तथा 16 मीटर से अधिक की ऊँचाई में प्रत्येक एक मीटर या उसके भाग की वृद्धि के लिए खुले स्थान में 0.25 मीटर की वृद्धि की जाएगी।
- (च) खतरनाक अधिभोग – भवन के आसपास के खुले स्थान ऊपरोक्त खण्ड (ङ.) में उल्लिखित औद्योगिक भवनों के लिए यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

58 बाहर निकले हुए भाग (प्रोजेक्शन) – (1) खुले स्थानों में बाहर निकला हुआ भाग— भीतर या बाहर की ओर उपबंधित प्रत्येक खुले स्थान को, उस पर किसी भी निर्माण से मुक्त रखा जाएगा तथा निम्नलिखित को छोड़कर आसमान की ओर खुला रखा जाएगा:—

- (क) कंगूरा (कार्निस) छत या झांप (वेदर शेड) की चौड़ाई 0.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- (ख) खिड़कियों के ऊपर शेड/ संवातकों या अन्य खुले स्थानों पर सायबान (सनशेड) की चौड़ाई 0.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- (ग) प्रथम अथवा उससे ऊपर के तलों पर बाहर निकली हुई बालकनी 1.20 मीटर तक बढ़ी हुई, जिसमें भूखण्ड की सीमा से 1.5 मीटर का खुला स्थान अवश्य रखा जाएगा। बशर्ते कि ऐसी बाहर निकली हुई बालकनी भवन के किसी भी पाश्व पर निरंतर निर्मित नहीं की जा सकेगी।

- (2) उप-नियम (1) (ग) में ऊपरोक्त उल्लिखित बाहरी भाग (प्रक्षेपण) भीतरी आंगन मे अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे आंगन का आकार 9.0 मीटर गुणा 9.0 मीटर से अधिक हो।
- (3) एकांतर (अलटरनेट) मंजिलों (तलों) पर बाहर निकाले कमरे अनुज्ञात किए जा सकेंगे:  
परन्तु ऐसे बाहर निकले (प्रक्षेपण) स्थान।—  
(क) नीचे के दो तलों में हवा एवं प्रकाश को बाधित न करते हो;  
(ख) सीमांत खुला क्षेत्र के ऊपर प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) न हो; और  
(ग) ठीक नीचे की मंजिल की ऊँचाई से अधिक नहीं होगा।
- (4) समानुषंगिक (एकसेसरी) भवन।— खुले स्थानों में निम्नलिखित समानुषंगिक भवनों का निर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा:—  
(क) विद्यमान भवनों में पीछे की दीवार से 1.5 मी. की दूरी पर पिछले खुले स्थान में अधिकतम 4.0 वर्गमीटर के अध्यधीन रहते हुए 2.4 मीटर ऊँचाई के शौच तथा स्नान संबंधी खण्ड अनुज्ञात किया जा सकेगा।  
(ख) एक निजी गैरेज जिसका क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर से अधिक न हो, पीछे एवं बगल के खुले स्थान में अनुज्ञात किया जाएगा।  
(ग) पम्प रूम (कमरा) तथा चौकीदार के ठहरने हेतु (कमरा) प्रत्येक का क्षेत्रफल 6.0 वर्गमीटर तक होगा।
- (5) खिड़कियों तथा संवातनों पर सनशेड (सायबान)।— विद्यमान निर्मित या संकुचित (भीड़भाड़ वाले) क्षेत्रों में खिड़कियों या संवातनों पर सनशेड (सायबान) को बनाने की जबकि प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात्:—  
(क) सड़क पर या किसी नाली पर या सड़क की सतह से 2.8 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थल की सीमाओं से बाहर किसी भाग पर किसी सनशेड (सायबान) का बनाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;  
(ख) भू-तल से 2.8 मीटर से अधिक ऊँचाई पर सनशेड (सायबान) 60 सेन्टीमीटर की अधिकतम चौड़ाई तक बाहर निकालने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा, यदि उस सड़क की चौड़ाई जिस पर वे बनाए गये हों, 9 मीटर से अधिक हो; और  
(ग) ऐसी सड़कों पर जिनकी चौड़ाई 9 मीटर से कम हो या ऐसी सड़कों पर जिन पर कोई फुटपाथ न हो, सनशेड (सायबान) निकालना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
59. खुले स्थानों की सीमाएं — (1) खुला स्थान में कमी करने के विरुद्ध रक्षोपाय. किसी भी भवन पर उस स्थिति में कोई निर्माण कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उससे समीपवर्ती किसी अन्य भवन के जो कि उसी स्वामी का हो, खुले स्थानों में

प्रस्तावित कार्य के समय उस विहित सीमा से अधिक कमी हो जाए या यदि वह पहले से ही उस सीमा से कम हो तो और अधिक कमी हो जाए।

- (2) भवन में परिवर्धन या विस्तार— भवन में परिवर्धन या विस्तार अनुज्ञात किया जाएगा:— बशर्ते कि परिवर्धन या विस्तार के लिए खुला स्थान से ऐसा परिवर्धन/विस्तार के पश्चात् इन नियमों का समाधान हो जाता है।

## 60 समूह गृह निर्माण—

समूह गृहनिर्माण के लिए मानक योजना निम्नानुसार होगी:—

- (1) न्यूनतम भूमि अथवा भूखण्ड का क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र, न्यूनतम शिथिल क्षेत्र एवं समूह आवास हेतु अन्य नियोजन मानक ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएं।
- (2) विभिन्न घनत्व के लिये अच्छादित तथा फर्शी क्षेत्र का अनुपात सारणी 7 में उपबंधित किए गए अनुसार, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विकास योजना में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

### सारणी 7

समूह गृह निर्माण के लिए तल क्षेत्र अनुपात तथा आच्छादित क्षेत्र

(नियम 60 (2) देखिए)

अनुक्रमांक	सकल घनत्व हेक्टर	आवासीय व्यक्ति/	अधिकतम आच्छादित प्रतिशत में	तल क्षेत्र अनुपात
(1)	(2)		(3)	(4)
1	125		25	0.75
2	250		30	1.25
3	425		33	1.50
4	500		35	1.75
5	625		35	2.00

टिप्पणी:— आच्छादित क्षेत्र की गणना, समूह गृह निर्माण के लिये आरक्षित संपूर्ण क्षेत्र पर निम्नलिखित घटाने के पश्चात् की जाएगी:—

- (एक) किसी राजमार्ग का क्षेत्र, 18 मीटर या अधिक की चौड़ी सड़क जो कि, समूह गृह निर्माण क्षेत्र में आती हो;
- (दो) शालेय क्षेत्र (नर्सरी स्कूलों के स्थलों को छोड़कर) तथा समूह गृह निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य सामुदायिक सुविधाएं; और

(तीन) विहित खुले स्थान (खेल के मैदानों और सामान्य स्वरूप के प्लाटों को छोड़कर इन खुले स्थानों में अनुज्ञात किए जाएंगे)

### (तीन) तल क्षेत्र अनुपात तथा उच्चतम सीमा

61. तल क्षेत्र अनुपात – विभिन्न उपयोग समूहों के लिए तल क्षेत्र अनुपात सारणी 8 में यथा उल्लिखित होगा :—

**सारणी 8**

(नियम 61 देखिए)

**विभिन्न उपयोग समूह के लिए तल क्षेत्र अनुपात**

अनुक्रमांक	उपयोग समूह	तल क्षेत्र अनुपात*	प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवासीय	1.25	
2.	वाणिज्यिक	2.50 2.00 1.75 1.50 1.25	नगर केन्द्र उप-नगर केन्द्र सामुदायिक केन्द्र स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र सुविधाजनक शापिंग सेंटर।
3	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक	1.00	प्रशासनिक/शैक्षणिक एवं अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक/संस्थागत क्षेत्र
4	औद्योगिक	नियम 48 के अनुसार	नियम 48 के अनुसार

\* तल क्षेत्र अनुपात एवं घनत्व कमशः नगर की विकास योजना में यथा उपबंधित अनुसार लागू होंगे ।

### टिप्पणि—

- (1) उस दशा में, जहां भू-खण्ड/भूमि का स्वामी अपने भू-खण्ड के किसी भाग का स्वामित्व सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, शासन/प्राधिकारी को सौंपता है और उसमें निहित करता है, वहां, उसके द्वारा सौंपे गये भू-खण्ड/भूमि के क्षेत्र के दोगुने के गणना कर अतिरिक्त तल क्षेत्र उसके आर्थिक प्रतिकर के स्थान में भू-खण्डों/भूमि के शेष भाग में अनुज्ञात किया जाएगा।
- (2) झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्विकास की दशा में, उस क्षेत्र में अनुज्ञात तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) के अतिरिक्त 0.50 तक, अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात अनुज्ञेय किया

जाएगा। तथापि, विकास एवं भवन अनुज्ञा से संबंधी समस्त अन्य मानदण्ड का अनुपालन किया जाएगा।

- (3) 200 से 500 वर्गमीटर माप वाले भू-खण्ड पर एक सर्वेन्ट क्वार्टर्स् तथा 500 वर्गमीटर से अधिक वाले भू-खण्ड पर दो सर्वेन्ट क्वार्टर्स्, अनुज्ञात किए जा सकेंगे। सर्वेन्ट क्वार्टर्स् का आकार 25 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा और सेवक (सर्वेन्ट) आवास का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र या अच्छादित क्षेत्र में संगणित नहीं किया जाएगा।
- (4) 425 वर्गमीटर या अधिक के भूखण्डों पर 2.4 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई के साथ आच्छादित पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध करायी जायेगी। पार्किंग के ऐसे क्षेत्र की गणना, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तथा अनुज्ञेय ऊँचाई गणना में नहीं ली जाएगी।
- (5) किसी शहर/नगर के पुराने भाग के क्षेत्रों के पुनर्विकास की दशा में, पुरानी तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र के अनुज्ञेय फर्श तल अनुपात (एफ.ए.आर.) से अधिक 0.25 तक अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात, मंजूर किया जा सकेगा। तथापि विकास तथा भवन अनुज्ञा संबंधी अन्य मानदण्ड शिथिल नहीं किए जाएंगे।
- (6) मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विहित की गई सीमा तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय समूह के सन्निर्मित आवासों के कुल निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) का तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) की गणना में नहीं गिना जाएगा। तथापि, ऐसी छूट, ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ.डब्ल्यू.एस) और निम्न आय समूह की रहवासी इकाइयों तक सीमित रहेगी जो अन्य आय समूह के लिए उसी कॉलोनी में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित रहवासी इकाइयों की संख्या का 15 प्रतिशत तक होगी।

## 62. पोडियम के लिए मानदण्ड :—

- (1) पोडियम का निर्माण किया जा सकेगा:—
  - (क) कम से कम 1000 वर्गमीटर माप के भूखण्ड पर;
  - (ख) ऐसी रीति में जो कि प्रत्येक तल की स्पष्ट ऊँचाई 2.4 मीटर से अधिक नहीं होगी; और
  - (ग) भूमि स्तर से ऊपर अधिकतम तीन ऐसे तलों के साथ, निर्मित किया जा सकेगा।

- (2) पोडियम की गणना तल क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) तथा भवन की ऊँचाई में नहीं की जाएगी। पोडियम की छत के बिना ढके हिस्से की गणना, नियम 47 एवं 60 के अधीन विहित खुले स्थान की आवश्यकताओं में की जा सकेगी।
- (3) उपनियम (1) (ख) में उल्लिखित 2.4 मीटर स्पष्ट ऊँचाई का प्रतिबंध, मशीनीकृत पार्किंग की आवश्यकताओं के अनुसार शिथिल किया जा सकेगा। ऐसी दशा में, पोडियम की अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 2.4 मीटर गुणा तीन तल + बीम तथा स्लेब की रूपांकित मोटाई से अधिक नहीं होगी।
- (4) पोडियम की बिना ढकी छत का उपयोग बिना ढके पार्क, पानी का पूल/तरणताल, पार्किंग के लिये किया जा सकेगा।

### **63 पार्किंग तल –**

जहां भू-खण्ड का आकार 1000 वर्ग मीटर से कम नहीं है आच्छादित पार्किंग तल जिसकी स्पष्ट ऊँचाई 2.4 मीटर से अधिक न हो, परियोजना की आवश्यकता के अनुसार भवन के किसी भी तल पर अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसी पार्किंग की गणना तल क्षेत्र अनुपात में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यदि ऐसी पार्किंग संपूर्ण तल क्षेत्र पर दी गई है तो ऐसे पार्किंग तल को भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

### **64 सेवा तल**

1000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवनों में सेवा तल उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऐसे सेवा तल की स्पष्ट ऊँचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा इसकी गणना तल क्षेत्र अनुपात तथा भवन की ऊँचाई की गणना करने के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं की जाएगी।

### **65. ऊँचाई की सीमा**

- (1) भवन की अधिकतम ऊँचाई, यथास्थिति, नियम 42 की सारणी क्रमांक 4 तथा 5 में दिये गये प्रावधान (जहां जैसी स्थिति हो) अनुसार निर्धारित होगी।
- (2) यदि कोई भवन विभिन्न चौड़ाई की 2 या अधिक सड़कों से लगा हुआ हो, तो भवन उस सड़क के सामने समझा जाएगा जिसकी चौड़ाई अधिक हो और भवन की ऊँचाई उस सड़क की चौड़ाई से विनियमित की जाएगी। इस ऊँचाई को संकीर्ण गली की ओर 24 मीटर गहराई तक बनाए रखा जा सकेगा।
- (3) भवन के हवाई अड्डे के पास स्थित होने की दशा में, ऐसे भवनों की अधिकतम ऊँचाई ऐसी होगी जैसी कि विमान प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए।

**66. आकाशीय मार्गों एवं भूमिगत मार्गों के निर्माण की अनुज्ञा :—**

(1) प्राधिकारी दो या अधिक भवनों को जोड़ने वाले विभिन्न स्तरों पर आकाशी मार्ग से निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी आकाशी मार्ग—

(क) आकाश मार्ग के ठीक नीचे, भूमि के उच्चतम स्तर से परिमाप किए गए अनुसार 6.5 मीटर की ऊंचाई से कम होगी। तथापि, इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिथिल किया जा सकेगा यदि आकाश मार्ग की दी गई ऐसी अनुज्ञा संचालन की प्रकृति की है।

(ख) इसके निर्माण तथा संधारण के लिए उत्तरदायी अभिकरण की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी सार्वजनिक सड़क के आर पार;

(ग) अग्निशमन प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा और अनुज्ञाप्त संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा प्रमाण—पत्र प्राप्त किए बिना;

(घ) ऐसी रीति में, जिससे इसके अधीन किसी वाहन का संचालन बाधित हो;

(ङ.) 4 मीटर से अधिक चौड़ाई होने पर; और

(च) यदि ऐसे आकाश मार्ग के समर्थक कालमों में आसपास स्थापत्य फीचर्स के साथ सामांजस्य स्थापित नहीं करता,

निर्मित नहीं किया जाएगा।

(2) प्राधिकारी, दो या अधिक बिन्दुओं को जोड़ने के उद्देश्य से (पैदल चलने के लिए रास्ता / या वाहन के उपयोग के लिए भूमिगत मार्ग) के साथ एक अधोमार्ग के निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु पैदल चलने के उपयोग हेतु अधोमार्ग का निर्माण किया जाएगा,—

(क) भूमि से पर्याप्त रूप से नीचे वाहनों या उसके ऊपर पैदल चलने के लिए यातायात का सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना;

(ख) उसके निर्माण एवं संधारण हेतु उत्तरदायी एजेंसी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के आर पार;

(ग) अग्निशमन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा तथा अनुज्ञाप्त संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात्;

- (घ) ऐसी रीति में जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, संवातन, साईनेज, उपयोगिता एवं सेवाएं व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक तथा सुरक्षित हैं; और
- (ङ) भीतर की छौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3.0 मीटर एवं 4.5 मीटर से कम न हो।

**टिप्पणी—** यदि अधोमार्ग से वाहन यातायात का अनुज्ञात किया जाना अपेक्षित हो, तो रूपांकन मापदण्ड उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के आधार पर प्राधिकारी व्यारा अनुमोदित किए जाएंगे।

- 67. वृक्षारोपण** – 100 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर, भवन के निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् वृक्ष रोपित किए जाएंगे। रोपित पौधों की संख्या व्यक्तिगत भूखण्ड के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर के लिए एक वृक्ष होगा। भवन के लिए आधिपत्य प्रमाण पत्र सिफर तभी जारी किया जाएगा जब प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि इस नियम के उपबंधों का पालन किया गया है। भूखण्ड पर विद्यमान वृक्षों के संरक्षण के समस्त प्रयास किए जाएंगे।

#### (चार) भवन के हिस्सों की आवश्यकताएं

##### **68. कुर्सी :**

- (1) मुख्य भवन— किसी भवन की कुर्सी या कोई भाग या उपभवन (आउट हाउस), आसपास की भूमि की सतह से इस प्रकार स्थित होगा कि स्थल से पर्याप्त जल निकास सुनिश्चित हो सके। कुर्सी की ऊंचाई, आसपास की भूमि की सतह से 45 से.मी.से कम नहीं होगी।
- (2) भीतरी आंगन— प्रत्येक आंगन उठा हुआ होगा जिससे संतोषजनक जल निकासी सुनिश्चित हो सके।

##### **69. निवास योग्य कक्ष :**

- (1) ऊंचाई — मानव निवास के समस्त कक्षों की ऊंचाई छत (पाटिके के तल) के निम्नतम बिन्दु से फर्श की सतह माप के 2.6 मीटर से कम नहीं होगी ढलवा छत के मामलों में, कक्षों की औसत ऊंचाई 2.6 मीटर से कम नहीं होगी, धरन, बलित प्लेटों या औलतियों के नीचे न्यूनतम निर्वाध ऊंचाई 2.4 मीटर होगी, वातानुकूलित कक्षों के मामले में फर्श की सतह से वातानुकूलित वाहिनी (डक्ट) निम्नतम बिन्दु तक के अथवा दिखावटी अन्तर छत (सीलिंग) का नाप ऊंचाई में 2.4 मीटर से कम नहीं रखी जाएगी।

(2) उपनियम (1) की अपेक्षाएं, आवासीय, व्यापारिक तथा वाणिज्य भवनों पर लागू होंगी शैक्षणिक तथा औद्योगिक भवनों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं लागू होंगी:-

- (क) **शैक्षणिक भवन** – सभी क्षेत्रों के लिये छत की ऊँचाई 3.6 मीटर,
- (ख) **औद्योगिक भवन** – छत की ऊँचाई 3.6 मीटर होगी किन्तु यदि वातानुकूलित हो वहां 3 मीटर होगी। (ऐसी ऊँचाई, कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए नियम, जहाँ लागू होंगे, के अनुसार शासित होगी)

(3) आकार – (क) जहां केवल एक ही कक्ष हो, वहां वास योग्य कक्ष का क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, और न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी। जहां दो कक्ष हो वहां उनमें से एक कक्ष 9.5 वर्गमीटर से कम का नहीं होगा तथा दूसरा 7.5 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 2.1 मीटर होगी, शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों की दशा में, अकेले व्यक्ति के लिये वास योग्य कक्ष का न्यूनतम आकार 7.5 वर्गमीटर होगा।

(ख) तथापि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह भवन निर्माण के मामलों में विशेष गृह निर्माण योजनाओं के कक्षों के आकार उपाबंध परिशिष्ट ज में विहित किए गए अनुसार होगी।

## 70. रसोईघर:

(1) **ऊँचाई** :— फर्श की सतह से छत (अधोपटिया) के निम्नतम बिन्दु तक नापी जाने पर रसोई घर की ऊँचाई, ऊपरी फर्श के फर्शी ट्रिप के भाग के सिवाय 2.6 मीटर से कम नहीं होगी।

(2) **आकार** :— रसोईघर का क्षेत्रफल जहां भोजन के लिये पृथक स्थान की व्यवस्था हो, 5.0 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, और जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होगी, जहाँ पृथक भण्डारगृह हो, वहा रसोईघर का क्षेत्रफल कम करके 4.5 वर्गमीटर तक रखा जा सकेगा, उस रसोईघर के जिसका खाने के लिये भी उपयोग किया जाना आशयित हो, फर्श का क्षेत्रफल 7.5 वर्गमीटर के कम नहीं होगा और उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.1 मीटर होगी।

(3) **अन्य आवश्यकताएं**— ऐसा प्रत्येक कमरा जिसका रसोईघर के रूप में उपयोग किया जाना हो—

(क) जब तक कि पृथक रूप से खानपान कक्ष (पैंट्री) की व्यवस्था न हो, रसोई के बर्तन धोने के लिये साधन होंगे, जो सीधे या सिंक के जरिये गन्दे पानी के पाईप से जुड़े होंगे जिसमें जाली तथा खटके लगे होंगे;

- (ख) रिसन रहित फर्श;
- (ग) धुएं की चिमनी यदि आवश्यक हो; और
- (घ) नियम 82 के उपनियम (3) की टिप्पणी 3 में यथाविहित न्यूनतम आकार की खिड़की या संवातन या खुला हुआ (द्वार) होगा.

#### 71. स्नानगृह एवं फलश सण्डास :

(1) ऊंचाई – स्नानगृह या फलश सण्डास की ऊंचाई फर्श की सतह से, अन्तरछत (अधोपाटिया) के सबसे निचले बिन्दु तक मापित में कम से कम 2.2 मीटर होगी।

#### (2) आकार :

(क) स्नानगृह का आकार 1.5 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, फलश सण्डास के फर्श का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.1 वर्गमीटर होगा, एवं न्यूनतम चौड़ाई 0.9 मीटर होगी, यदि स्नानगृह और सण्डास संयुक्त हों, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल 2.4 वर्गमीटर से कम नहीं होगा एवं न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर होगी, वाशबेसिन वाले फलश सण्डास का क्षेत्रफल कम से कम 1.3 वर्गमीटर होगा,

(ख) स्नानगृह/फलश सण्डासों के आकार निम्नानुसार होगे:—

(एक) स्वतन्त्र फलश सण्डास	—	1.1 मी. x 0.9 मी.
(दो) स्वतन्त्र स्नानगृह	—	1.3 मी. x 1.1 मी.
(तीन) संयुक्त सण्डास तथा स्नान गृह	—	1.1 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई सहित 2.0 वर्गमीटर
(चार) वाश बेसिन सहित फलश सण्डास	—	1.3 वर्गमीटर

(3) अन्य आवश्यकताएँ :—प्रत्येक स्नानगृह या फलश सण्डास इस प्रकार स्थित होंगे कि :—

- (क) उसकी कम से कम एक दीवार बाहरी या भीतरी खुले स्थान की तरफ खुली हो,
- (ख) अन्य फलश सण्डास धुलाई घर, स्नानगृह या चबूतरों को छोड़कर किसी कमरे के तब तक ऊपर या नीचे नहीं होगी जब तक कि उसका फर्श रिसन रहित न हो;
- (ग) उसका चबूतरा या सीट, रिसन रहित अपोषक सामग्री से निर्मित हो;
- (घ) वह दीवार या विभाजक से धिरा होगा तथा ऐसी प्रत्येक दीवार या विभाजक की सतह ऐसे कमरे के फर्श के ऊपर कम से कम 1 मीटर से कम ऊंचाई तक चिमनी और रिसन सामग्री से परिसंजित होगी ;

- (ङ) उसमें रिसन रहित फर्शी आच्छादन की व्यवस्था हो और उसका ढाल उपयुक्त प्रवीणता लिये हुए नालियों की ओर हो, न कि बरामदे या (किसी) अन्य कमरे की ओर;
- (च) उसमें खिड़की या संवातन हो जो शेफ्ट तथा खुले स्थान की ओर खुलता हो और जिसका क्षेत्रफल कम से कम 3 वर्गमीटर और बगली क्षेत्र 0.3 मीटर से कम न हो।
- (4) ऐसे किसी भी कमरे का, जिसमें फलश सण्डास हो, उपयोग शौचालय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा, और ऐसे किसी भी कमरे का दरवाजा, खिड़की या अन्य द्वार किसी रसोईघर या पाकशाला की ओर नहीं खुलेगा, ऐसे प्रत्येक कमरे का जिसमें फलश सण्डास हो, प्रवेश द्वार पूरी तरह बन्द होने वाला होना चाहिए।

## 72 लेज या टाण्ड/लापट

- (1) ऊँचाई – इसकी न्यूनतम निर्बाध ऊँचाई 1.5 मीटर होगी,
- (2) आकार – किसी भी रहने योग्य कमरे में लेज या टाण्ड का क्षेत्रफल उस फर्श जिस पर वह निर्मित किया गया हो, के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में कमरे के संवातन में रुकावट पैदा नहीं करेगा।
- (3) लापट – यदि रसोईघर में लापट की व्यवस्था की गई हो तो उसका क्षेत्रफल रसोईघर के क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उसमें लापट के नीचे कम से कम 2.2 मीटर निर्बाधि ऊँचाई रखी जाएगी स्नानगृह, फलश सण्डास तथा गलियारा में लापट का क्षेत्रफल उतना हो सकेगा जिसमें किसी व्यक्ति को, वस्तुएं उस पर रखना सम्भव हो तथा शरीर चलन के लिये युक्तियुक्त स्थान रहे,

## 73. मेजनाइन तल (विचौतल) :

- (1) ऊँचाई – इसकी न्यूनतम ऊँचाई 2.2 मीटर होगी।
- (2) आकार – मेजनाइन तल का आकार यदि उसका उपयोग बैठक खाने (लिविंग रूम) के रूप में किया जाता है, तो 9.5 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, भवन में ऐसे मेजेनाइन तल का कुल क्षेत्रफल किसी भी स्थिति में, उस कमरे की कुर्सी क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा जिसमें कि यह व्यवस्था की गई है।
- (3) अन्य आवश्यकताएं – किसी कमरे या प्रकोष्ठ पर मेजनाइन तल की अनुमति दी जा सकेगी। बास्ते कि –
- (क) मेजनाइन तल का क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर या इससे अधिक होने की स्थिति में वह प्रकाश तथा संवातन व्यवस्था के संबंध में रहने के कमरे के मानकों के अनुरूप हो;

- (ख) इसका निर्माण इस प्रकार किया गया हो कि उससे किसी भी परिस्थिति में उसके ऊपर और नीचे के स्थान के संवातन में कोई रुकावट पैदा न हो;
- (ग) ऐसे मेजनाइन तल छोटे-छोटे प्रकोष्ठों में उपविभाजित न किया गया हो;
- (घ) ऐसे मेजनाइन तल या उसके किसी भी भाग का उपयोग रसोई घर के रूप में नहीं किया जाएगा; और
- (ङ) मेजनाइन तल कम से कम एक तरफ खुला रखा जाएगा।

#### 74. भण्डार कक्ष :—

- (1) ऊँचाई — भण्डार कक्ष की ऊँचाई 2.2 मीटर से कम नहीं होगी,
- (2) आकार — यदि किसी आवासीय भवन में भण्डार कक्ष की व्यवस्था की गई हो तो उसका आकार 3 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

#### 75. गैरेज

- (1) ऊँचाई — गैरेज की ऊँचाई 2.2 मीटर से कम नहीं होगी।
- (2) आकार — गैरेज का आकार निम्न से कम नहीं होगा—
  - (क) प्राइवेट गैरेज— 2.5 मीटर X 5.0 मीटर
  - (ख) सार्वजनिक गैरेज वहाँ खड़ी की जाने वाली गाड़ियों आदि की संख्या पर आधारित होगा (गाड़ी खड़ी करने के स्थान के संबंध में नियम 84 देखिए)

#### 76. तलघर—

- (1) तलघर का उपयोग इस उपनियम 2(ग) में उल्लिखित से भिन्न आवासीय प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।
- (2) समस्त भूमि के उपयोग किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तलघर के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी :—
  - (क) तलघर विहित न्यूनतम खुला स्थान (एमओएस) में विस्तृत नहीं किया जाएगा :

परन्तु जब न्यूनतम खुला स्थान सामने 12 मीटर से अधिक है या अन्य सभी तरफ 7.5 मीटर से अधिक हो, उस स्थिति में तलघर, सामने 12 मीटर और अन्य सभी तरफ 7.5 मीटर छोड़कर, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (ख) उस भवन के कुर्सी तल की ऊँचाई जिसमें तलघर का निर्माण किया गया है, भूमि या संदर्भ तल से 0.45 मीटर से अधिक नहीं होगा और;
- (ग) कतिपय मामलों में, स्थल की अनुकृति पर आधारित भूमि के नीचे भवन का भाग या संदर्भित स्तर भी तलघर कहा जाएगा और यदि ऐसा भाग रहवासी

है तब इसका प्रयोग तदानुसार किया जा सकेगा और तलक्षेत्र अनुपात की गणना में जोड़ा जाएगा।

- (3) तलघर का प्रयोग केवल निम्नलिखित प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा—
- (क) अज्वलनशील सामग्री का भण्डारण;
  - (ख) स्ट्रांगरूम, वैंक सेलर, रेडिएशन कक्ष (केवल, चिकित्सीय उपचार और अनुसंधान के लिए);
  - (ग) वातानुकूल व अन्य उपकरण तथा भवनों के निर्वाह या उपयोग किए जाने के लिए अन्य मशीन
  - (घ) गाड़ी खड़ी करने के स्थान
  - (ङ.) प्रथम आधार तल पर केवल वाणिज्यिक गतिविधियां ही की जा सकेंगी : परंतु—
    - (एक) परिसर/भूखण्ड का भूमि उपयोग वाणिज्यिक हो;
    - (दो) भूखण्ड का क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर से कम नहीं हो; और
    - (तीन) भवन अलग हो।

**टिप्पणी:** उप नियम (3) (ङ.) तक वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुज्ञात तल क्षेत्र, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

- (4) तलघर में निम्नलिखित आवश्यक होगा, अर्थात्—
- (क) तलघर के प्रत्येक भाग में तलघर बीम के भीतरी भाग की ऊँचाई, फर्श से सीलिंग तक 2.40 मीटर होगी। ऊपर उपनियम 3 (ङ.) की दशा में, न्यूनतम स्पष्ट ऊँचाई जैसी ऊपर गणना की गई है के अनुसार 3.6 मीटर होगी।
  - (ख) तलघर में पर्याप्त संवातन व्यवस्था होगी संवातन आवश्यकताएं वही होंगी जो इन नियमों के अनुसार विशेष दखलकार द्वारा अपेक्षित होगी। ब्लोअर एंजास्टफेन, वातानुकूल प्रणाली या वैसी ही प्रणाली से पर्याप्त यांत्रिकी संवातन व्यवस्था करके इस कमी को पूरा किया जाएगा।
  - (ग) किसी तलघर की छत (सीलिंग) की अधिकतम ऊँचाई घिरे हुए आधार तल से 0.45 मीटर तक होगी जिससे खुले हुए क्षेत्र (एमओएस) में भवन के चारों ओर वाहनों के आवागमन में रुकावट न हो;

- (घ) ऐसी पर्याप्त व्यवस्थायें की जाएंगी जिससे कि तलघर में सतही जल निकास का प्रवेश न हो सके।
- (ङ.) तलघर की दीवारें तथा फर्श जल रोधी होंगे और उनकी डिजाइन इस प्रकार बनाई जाएंगी कि आसपास की मिट्टी और नमी का, डिजाइन करते समय विचार कर लिया जाए और पर्याप्त नमी रोधी उपचार किए जाये, और;
- (च) तलघर में प्रवेश मार्ग, मुख्य प्रवेश मार्ग से पृथक होगा, और इसके अतिरिक्त, तलघर के विभिन्न तलों से प्रवेश तथा निकासी के लिए अन्य सीढ़ियां/रेम्प की व्यवस्था की जाएंगी। जहां सीढ़ियां/रेम्प लगातार हैं, वहां घेरे के रूप में होंगी जो तलघर के तल और ऊच्च तलों से सेपरेशन के रूप में काम करेगी; और
- (छ) तलघर में प्रवेश के साधन के रूप में खुली रेम्प ऐसी रीति में अनुज्ञात की जा सकेंगी जिससे वे किसी भी रीति में न्यूनतम खुली जगह (एमओएस) का अवरोध उत्पन्न न करें।
- (5) बहुतलीय तलघर (बेसमेन्ट) के निर्माण में अधिकतम तीन तल अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे बहुमंजिला तलघर केवल तभी अनुज्ञात किए जाएंगे यदि—
- (क) भूखण्ड का अग्र भाग 21 मीटर है और न्यूनतम औसत गहराई 30 मीटर तथा ऐसे भूखण्ड से 18 मीटर या अधिक चौड़ी संलग्न सड़क होगी और
- (ख) भवन, पृथककृत है।
- (6) यदि भूमि या संदर्भ स्तर से नीचे की किसी निर्मित आकृति का विद्यमान अनुकृति (द्रोपो ग्राफी) के कारण रहवासी निवास के रूप में उपयोग किया है तो ऐसा क्षेत्र रहवासी क्षेत्र अनुज्ञात किया जाएगा और उसकी गणना तल क्षेत्र अनुपात के रूप में की जाएगी।
77. मुंडेर (पैरापेट)— छत, चबूतरे, छज्जे, कारीडार/लाबी/बरामदे के किनारों पर बनाई गई मुंडेर तथा हाथ पट्टी (हेण्डरेल) तैयार फर्श स्तर से, ऊंचाई में 1.05 मीटर से कम नहीं होगी।
78. सीमा दीवार (बाउण्ड्री वाल)— सीमा दीवार की आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं—
- (क) प्राधिकारी की विशेष अनुमति से ही चाहरदीवारी की अधिकतम ऊंचाई सामने की सड़क की मध्यरेखा से 1.5 मीटर अधिक होगी,
- (ख) पिछली तथा बगल की चाहरदीवारी की ऊंचाई सेवा सड़क (सर्विस रोड) यदि विद्यमान हो कि मध्यरेखा से 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, अन्यथा यह 2 मीटर से

अधिक नहीं होगी यह सामने की सड़क की मध्यरेखा के ऊपर नापी जाएगी। कोने के भूखण्ड की दशा में, बगल की सड़क से लगी हुई सीमा दीवार की ऊंचाई भी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी।

- (ग) (क) और (ख) के उपबंध जेलों की सीमा दीवार, विद्युत उपकेन्द्रों, ट्रान्सफार्मर स्टेशनों, संस्थागत भवनों जैसे सेनेटोरिया, अस्पताल, औद्योगिक भवन जैसे वर्कशाप, कारखाना, और शैक्षणिक भवन जैसे स्कूल, महाविद्यालय जिसमें छात्रावास और सार्वजनिक उपयोग के उपकरण समिलित वहां यथा अपेक्षित ऊंचाई, प्राधिकरी द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी।

79. सैप्टिक टैंक — जहां सैप्टिक टैंक का उपयोग मल निवर्तन के लिये किया जाता हो वहां सैप्टिक टैंक की स्थिति, डिजाइन तथा निर्माण निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा:—

- (1) सैप्टिक टैंक की स्थिति तथा अधस्थल अवशोषण पद्धतियाँ — कोई भी भूमिगत विक्षेपण पद्धति, पेयजल के किसी स्त्रोत से 18 मी. के भीतर नहीं होगी, यह निकटतम निवास योग्य भवन से उतनी दूर हटाया जाएगा, जितना कि आर्थिक रूप से सम्भव हो किन्तु उसके 2 मीटर के भीतर नहीं होगा, ताकि किसी संरचना को क्षति न पहुंचे।
- (2) अन्य आवश्यकताएं—
  - (क) सैप्टिक टैंक का आकार प्रकार — सैप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई 75 सेंटीमीटर होगी, और धरातल के नीचे न्यूनतम गहराई एक मीटर तथा न्यूनतम द्रव्य क्षमता एक घन मीटर होगी, टैंक की लम्बाई, चौड़ाई से 2 से 4 गुनी होगी;
  - (ख) सैप्टिक टैंकों का निर्माण, ईट चिनाई, पत्थर की चिनाई, कांकीट या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जा सकेगा;
  - (ग) किसी भी स्थिति में सैप्टिक टैंक से मल निकास, पर्याप्त समुपचार के बिना, खुली नालियों या जल निकास में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
  - (घ) प्रयोग किए गए पाइप का न्यूनतम सामान्य व्यास 100 मि.मी. होगा मैनहोलों के पाइप के जोड़ों पर, शाखा संयोजन से प्रवाह की दिशा मुख्य पाइप के प्रवाह की दिशा से 45 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बनाएगी;
  - (ङ.) भूमि नालियों, अधोजल निकास, साथ ही विक्षेपण खाइयों तथा सोखगर्त के तल का ढाल 1:300 तथा 1:400 के बीच होना चाहिए,

- (च) प्रत्येक सैटिक टैंक में कम से कम 50 मि.मी. व्यास का संवातन पाइप होगा, पाइप के ऊपरी मुहं पर मच्छर रोधी तार की जाली का एक उपयुक्त कच्छय होगा, संवातन पाइप की ऊँचाई इतनी रखी जाएगी, जिससे उस क्षेत्र के किसी भवन को दुर्गन्ध संबंधी कोई परेशानी न हो, साधारणतः यदि सैटिक टैंक निकटतम भवन से कम से कम 15 मीटर दूर हो तो सामान्यतः संवातन पाइप लगभग 2 मीटर ऊँचाई तक रखी जा सकेगी और यदि भवन 15 मीटर से कम दूरी पर स्थित हो तो भवन के ऊपरी सिरे से 2 मीटर ऊँचाई तक रखी जा सकेगी।
- (छ) जब सैटिक टैंक प्रवाह, किसी रिसन गर्त (सीवेज पिट) से जाता हो तो रिसनगर्त किसी भी उपयुक्त आकार का हो सकेगा, जिसका वृहद् परिमाप कम से कम 90 से.मी. का होगा और प्रवेश द्वार, नाली के विपरीत स्तर के नीचे गड़िराई कम से कम 100 से.मी. होगी। गर्त में पथर, ईट या कंकरीली ब्लाक लगे होंगे जिनके खुले शुष्क जोड़ होंगे, जिसके पीछे कम से कम 7.5 से.मी. साफ मोटी मिट्टी लगी होनी चाहिए। प्रवेश द्वार स्तर से ऊपर लाइमिंग मसाले से बनी होनी चाहिए, बड़े परिमाप के गर्तों के मामले में, आर.सी.सी. के ढक्कन पटियों का आकार कम करने के लिए ऊपर भाग को सकरा किया जा सकेगा। जहां, विशेषकर वृक्षों के समीप, लाइनिंग न रखी गई हो, वहां सम्पूर्ण गर्त को पथरों से भर दिया जाना चाहिए, गर्त में सतही अपहाव द्वारा पानी के बहाव से हानि को रोकने के लिये गर्त के ऊपरी भाग में, चिनाई रिंग निर्मित की जा सकेगी। मच्छर रोधी उपाय के रूप में, प्रवेश द्वार नल ऊपरी सिरे में 90 से.मी. की गहराई तक नीचे की ओर रखा जा सकेगा; और
- (ज) जब सैटिक टैंक प्रवाह का निवर्तन किसी अविलयम खाई में हो तो अविलयम खाई 50 से 100 से.मी. तक गहरी और 30 से 100 से.मी. विस्तृत होगी तथा उसका तल ढालू होगा उसमें 10 से.मी. से 25 से.मी. धुली हुई बजरी या टूटे हुए पथर होंगे, खाई में लगे खुले जुड़े पाइप बिना चमकीली चीनी मिट्टी या कांकीट के बने होंगे और उनका न्यूनतम भीतरी व्यास 75 से 100 मि.मीटर होगा। प्रत्येक अविलयम खाई 30 मीटर से अधिक लम्बी नहीं होना चाहिए और ऐसी खाईयां 1.8 मीटर से अधिक निकट नहीं बनाई जानी चाहिए।
80. जीना (स्टेयरकेस) – (1) भवनों के लिये सीढ़ियों की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई तथा अधिकतम ऊँचाई उप नियम (2) से (4) में दिये गए अनुसार होगी।

(2) न्यूनतम चौड़ाई – सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होगी—	
(एक) आवासीय भवन (रिहायशी)	— 0.85 मीटर
(दो) होटल भवन	— 1.5 मीटर
(तीन) सभा भवन जैसे आडिटोरियम थियेटर तथा सिनेमा	— 1.5 मीटर
(चार) शिक्षण भवन (अ) 24 मी. ऊँचाई तक	— 1.5 मी.
(ब) 24 मी. से अधिक ऊँचाई तक	— 2.0 मी.
(पाँच) संस्थागत भवन (अ) 10 बिस्तरों तक	— 1.5 मी.
(ब) 10 बिस्तरों से अधिक	— 2.0 मी.
(छह) अन्य सभी भवन	— 1.5 मीटर

(3) सोपान चौकी (लेडिंग) की चौड़ाई पट (ट्रेड) के चौड़ाई , से कम से कम दुगनी धन 25 से.मी. होगी ।

(4) न्यूनतम पट: — सीढ़ी का ऊपरी धरातल आवासीय भवनों के लिये बिना गोलाई वाले पट की न्यूनतम चौड़ाई 25 से.मी. होगी अन्य भवनों के लिये पट की न्यूनतम चौड़ाई 30 से. मी. होगी ।

(5) अधिकतम खड़ा पटटा (राइजर)— आवासीय भवनों के लिये खड़े पटटे (राइजर) की अधिकतम ऊँचाई 17 से.मी. होगी और अन्य भवनों के लिये 15 से.मी. होगी तथा ये प्रति सोपान पंक्ति 15 से अधिक नहीं होंगे,

(6) निर्बाध ऊँचाई — सोपान चौकी एवं जीने के नीचे गुजरने के रास्ते की न्यूनतम निर्बाध ऊँचाई 2.2 मी. होगी ।

## 81. छत :—

- (1) किसी भी भवन की छत इस प्रकार निर्मित या तैयार की जाएगी कि जिससे बरसाती पानी का कार्यक्षम निकास, यथोचित आकार के बरसाती पानी का पाईप द्वारा निकाला जा सके और वे इस प्रकार जमाए, जोड़े और लगाए गये हों कि जिससे यह निश्चित किया जा सके कि भवनों या उससे लगे हुए भवन की दीवार या नीचे के किसी भी भाग में सीलन आए बिना, भवन से वर्षा का पानी आवश्यक होने पर निकाला जा सके ।
- (2) प्राधिकारी यह अपेक्षा कर सकेगा कि बरसाती पानी का पाईप किसी सार्वजनिक पैदल मार्ग के नीचे बने किसी गली, मलनाली या बंद नाली से संयोजित किया जाए जिससे बरसाती पानी का पाईप सङ्क की नाली से जोड़ा जा सके या किसी अन्य अनुमोदित रीति से जोड़ा जा सके ।

- (3) बरसाती पानी के पाइप भवन की बाहरी दीवार में बाहर की तरफ अथवा ऐसी बाहरी दीवारों में काटे गये या बनाये गये कटाव या खांचे में अथवा ऐसी अन्य रीति में, जो प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, लगाये जाएंगे।
- (4) वर्षा/छत के पानी की हार्डस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था उन समस्त भवनों में की जाएगी जिनके भू-खण्ड का आकार 140 वर्गमीटर से अधिक हो, जो परिशिट ज-1, ज-2, ज-3 में दिये गये विकल्पों के अनुरूप हो।

### (पांच) प्रकाश तथा संवातन

#### 82 कमरों में प्रकाश व्यवस्था तथा संवातन.—

- (1) प्रत्येक कमरों में प्रकाश तथा हवा के प्रवेश के लिए एक से अधिक खुले स्थान जैसे खिड़कियां या संवातन, जो बाहरी हवा की ओर या किसी ऐसे खुले बरामदे में सीधे खुलते हों।
- (2) जहां प्रकाश तथा संवातन की अपेक्षाओं की पूर्ति, दिन के प्रकाश तथा प्राकृतिक संवातन के माध्यम से नहीं हो पाती, वहां उसे समय-समय पर यथा पुनरीक्षित संहिता के भाग आठ, भवन सेवा प्रभाग 1, प्रकाश तथा संवातन के अनुसार कृत्रिम प्रकाश तथा यांत्रिकी संवातन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन उल्लिखित खुले स्थानों के क्षेत्र के होते हुए, ऐसे खुलने वाले स्थानों के न्यूनतम सकल क्षेत्र (देखिये टिप्पणी 1 से 3), जिसमें से दरवाजों का क्षेत्र अपवर्जित होगा किन्तु जिसमें चौखट क्षेत्र समाविष्ट होगा। फर्श के क्षेत्र के दशमांश से कम नहीं होगा।

टीप 1 — यदि कोई खिड़की अंशतः स्थिर हो तो खुलने योग्य क्षेत्र की गणना की जाएगी।

टीप 2 — कमरे का कोई भी भाग प्रकाशित नहीं माना जाएगा, यदि वह उस भाग की प्रकाश व्यवस्था के लिए बनाए गये खुले स्थान से 7.5 मी. से अधिक दूर हो।

टीप 3 — इस उपनियम में दिये अनुसार रसोईघर के मामले में खुले स्थानों का क्षेत्र 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।

### (छह) लिफ्ट

- 83 लिफ्ट की व्यवस्था – 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। लिफ्ट की योजना तथा डिजाइन समय-समय पर यथा पुनर्रक्षित संहिता के भाग 8 भवन सेवाएं भाग 5 लिफ्टों तथा एस्केलेटरों का संस्थापन में दिए गए उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

### (सात) पार्किंग स्पेस

- 84 पार्किंग स्पेस (1) भूखंड पर तथा भूखंड से भिन्न क्षेत्र में वाहन खड़े करने की व्यवस्था के लिए मानदण्ड क्रमशः परिशिष्ट झ-1 तथा झ-2 में दिए गए अनुसार होगी।  
 (2) आवासीय, वाणिज्यिक, पी एस पी, औद्योगिक, मनोरंजन, कृषि और परिवहन के लिए मल्टीलेबल सार्वजनिक पार्किंग अनुज्ञात की जा सकेगी। भू-उपयोग का वर्गीकरण: पार्किंग संरचना के निर्मित क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत का, वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे स्थान के लिए अन्य योजना मानक निम्नानुसार होगी :

न्यूनतम खुला स्थान(सामने)	:	12 मीटर
अन्य सभी तरफ	:	7.5 मीटर
अच्छादित क्षेत्र	:	अधिकतम 80 प्रतिशत
भवन की ऊंचाई	:	प्रत्येक मामले में प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।

### (आठ) निर्गम द्वार

- 85 निर्गम की आवश्यकताएं— भवन की निर्गम आवश्यकताएं संहिता के उपबंधों के अनुसार होगी।

#### (नौ) अग्नि, संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं

- 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा

(1) भवन की अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकताएं संहिता के उपबंधों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक भवन में शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की विशेष आवश्यकताओं के लिए संहिता के उपबंधों के अनुसार व्यवस्था होगी।

**87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं,**

भवन की अग्नि सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाएं निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाएंगी –

- (1) राज्य शासन द्वारा अग्नि शमन प्राधिकारी पदाभिहित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक गगन चुम्बी इमारत की भवन अनुज्ञा, अग्नि शमन प्राधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी।
- (3) राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग चार में उल्लिखित अग्नि सुरक्षा उपाय लागू होंगे।

**88 “संरचनात्मक डिजाइन” – संरचनात्मक डिजाइन की नीव (फाउन्डेशन), मेसनरी, टिम्बर, प्लेन, कांकीट, रिइनफोर्सड कांकीट, प्रिस्ट्रेसड कांकीट तथा स्ट्रक्चरल स्टील की संरचना डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्स द्वारा निहित किए गए सभी सुसंगत भारतीय मानकों जिनमें निम्नलिखित भारतीय मानक सम्मिलित हैं, को ध्यान में रखते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया के भाग-छह-स्ट्रक्चरल डिजाइन, अनुभाग-1 लोड्स, अनुभाग-2 फाउन्डेशन, अनुभाग-3 बुड, अनुभाग-4 मैसनरी, अनुभाग-5 कांकीट, अनुभाग-6 स्टील के अनुसार की जाएगी।**

भूकम्प की संभावना वाले 15 जिलों में अर्थात् सीधी, शहडोल, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, देवास, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, इंदौर, धार तथा झाबुआ में और ऐसे अन्य जिलों में जो समय-समय पर भूकम्प की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाएं, संरचना डिजाइन निम्नलिखित मानकों के अनुसार होगी –

**1. आर.सी.सी. से निर्माण तथा ईंट के पक्के निर्माण हेतु –**

(एक) भारतीय मानक : 1893–1986

(दो) भारतीय मानक : 13920–1993 (भारतीय मानक 456, भारतीय मानक, 1893)

के साथ पढ़ा जाए

(तीन) भारतीय मानक : 4326–1993 (भारतीय मानक 1893 के साथ पढ़ा जाए)

**2. कम मजबूती के मिट्टी, गारा एवं ब्लाक की चिनाई हेतु –**

(एक) भारतीय मानक : 13827–1993

(दो) भारतीय मानक : 13828–1993 (ख) मरम्मत तथा मजबूती हेतु

(तीन) भारतीय मानक : 13935–1993

**3. अन्य मानक के लिए**

- (एक) भारतीय मानक : 1893–1994 “क्रायटेरिया फार अर्थक्वेक रेसिस्टेंस डिजाइन आफ स्ट्रक्चर्स (चौथा पुनरीक्षण) जून, 1986
- (दो) भारतीय मानक : 13920–1993 “डेकटाइल डिटेलिंग आफ रिइनफोर्सस स्ट्रक्चरसब्जेक्ट टू सेलमिक फोर्सल कोड आफ प्रेकिट्स” नवम्बर, 1993
- (तीन) भारतीय मानक : 13828–1993 “अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाईन एंड कन्स्ट्रक्शन आफ बिल्डिंग्स कोड आफ प्रेकिट्स (द्वितीय पुनरीक्षण)” अक्टूबर, 1993
- (चार) भारतीय मानक : 13828–1993 “इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट आफ लो स्ट्रेंथ मेसनरी बिल्डिंग गाईडलाईन्स” अगस्त, 1993
- (पांच) भारतीय मानक : 19827–1993 “इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट आफ अर्बन बिल्डिंग गाईडलाईन्स” अक्टूबर, 1993
- (छह) भारतीय मानक : 3935–1993 “रिपेयर एंड सेसमिक स्ट्रेंथनिंग आफ बिल्डिंग गाईडलाईन्स” नवंबर, 1993।

**टीप-** जब कभी भी नेशनल बिल्डिंग कोड के भारतीय मानक निर्दिष्ट किए जाएं तो मानक के नवीनतम उपबंध या संबंधित प्रचलित उपबंधों का पालन किया जाना चाहिए।

**89 सामग्री की गुणवत्ता तथा कारीगरी**

- (1) सामग्री की गुणवत्ता – सभी सामग्रियों तथा कारीगरी अच्छी गुणवत्ता की होंगी तथा वे सामान्यतः राज्य के लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय मानक विनिर्देशों तथा संहिता के मान्य मानदण्डों के अनुरूप होंगी या जैसी कि समय समय पर यथा पुनरीक्षित संहिता के भाग पांच, भवन सामग्री तथा भाग सात, “रचनात्मक प्रक्रिया तथा सुरक्षा” में सम्मिलित की गयी हों।
- (2) कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु सामग्रियों की गुणवत्ता में छूट दी जा सकेगी—आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य अल्प आयु समूह के लिए प्रस्तावित गृह निर्माण योजनाओं के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों की किस्म में प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जा सकेगी:

परन्तु ज्वलनशील सामग्रियों से संनिर्भित गृह निर्माण इकाइयां, अग्नि प्रसार को रोकने की दृष्टि से समुचित रूप से पृथक रखी गयी हों।

- (3) प्रयुक्त सामग्री – निर्माण में पुराने भवनों की सामग्रियों का उपयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु इस प्रकार प्रयुक्त सामग्री उपर विनिर्दिष्ट नई सामग्रियों के मानदण्डों के अनुरूप होगी।

- (4) सामग्रियों का संग्रहण – सभी भवन सामग्रियां, भवन स्थल पर इस प्रकार भण्डारित की जाएंगी जिससे उनके संरचनात्मक तथा अन्य सारभूत गुणों में कोई गिरावट या कमी न आये। इसके अतिरिक्त सामग्रियों का भण्डार अनन्य रूप से भवन भूखण्ड के भीतर किया जाएगा। यदि घनी बरस्ती में, जहां भवन भूखण्ड के भीतर भण्डार करना संभव न हो, वहां रेत, पत्थर आदि सामग्रियों का अस्थायी भण्डारण, प्राधिकारी द्वारा आम सङ्कों पर करने दिया जाएगा:

परन्तु ऐसा भण्डार पद यात्रियों तथा वाहन चलाने वाले दोनों को ही यातायात संबंधी गंभीर कष्टदायक न हो।

- (5) निर्माण के दौरान खोदे गये गड्ढे – भवनों, सङ्कों, तटबंधों तथा इसी के समान निर्माण तथा मरम्मत के दौरान खोदे गये सभी गड्ढे (बरोपित) गहरे तथा नाली के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और ये नालियां नीचे की ओर ढालू भूमि पर बहते हुए किसी नदी, नाले, स्रोत, जलसारणी या नालों में जाकर मिलेंगी तथा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी पृथक गड्ढा नहीं खोदेगा जिससे यह संभावना बने कि वहां पानी इकट्ठा हो जिससे मच्छर पैदा हों।

- (6) ढहा देना या विध्वंस करना—

- (क) विध्वंस का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, विध्वंस की जाने वाली संरचना के साथ तथा जिसमें उसके आसपास के स्थान सम्मिलित है का, सावधानी पूर्वक तथा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विध्वंस की योजना कार्यान्वित करते समय, समीपवर्ती संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुज्ञाप्त तकनीकी कर्मचारी का इस आशाय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। संक्रियाओं के क्रम की अंतिम योजना को प्राधिकारी से अनुमोदित कराना होगा।

- (ख) विध्वंस का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा उसे स्थल पर प्रमुखता से चिपका दिया जाएगा।

- (ग) यदि विध्वंस की जाने वाली संरचना ऐसी हो जिसमें अग्नि, बाढ़ या भूकम्प से हुई कोई क्षति छिपी हो तो आकस्मिक रूप से भवन गिर जाने के खतरे को रोकने के लिए अवलम्बन जैसे उपाय प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त किए जाएंगे।

- (घ) सम्पत्ति के चारों ओर खतरे के बड़े-बड़े निशान चिपका दिये जाएंगे और संरचनाओं तक पहुंचने वाले सभी द्वारों को, कामगारों को छोड़कर अन्य सभी

व्यक्तियों के लिए रोक दिया तथा बंद कर दिया जाएगा। रात में सभी रुकावटों पर या ऊपर चेतावनी प्रकाश (वार्निंग लाईट) रखी जाएगी।

- (ड.) संबंधित सर्विस कम्पनियों और प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिए जाने और उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात्, सम्पत्ति में रेखा के बाहर सभी गैस, पानी, विद्युत, वाष्प तथा अन्य सेवा लाइने बंद कर दी जाएंगी। विधंस के कार्य के लिए अपेक्षित अस्थायी सेवा कनेक्शनों को अलग से लिया जाएगा और उनकी व्यवस्था इस रीति में की जाएगी कि जिससे कामगार सुरक्षित रह सकें।
  - (च) जब कार्य न हो रहा हो, तब चौकीदार जनता को खतरनाक क्षेत्र में अप्राधिकृत प्रवेश करने से रोकने के लिए जानकारी देगा।
  - (छ) कार्य आरम्भ करने के पूर्व सभी कामगारों को सुरक्षा के सभी आवश्यक साधन दिए जाएंगे।
  - (ज) जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा दूरियां, चिन्हों द्वारा स्पष्टतः चिन्हित तथा उपदर्शित की जाएंगी। जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षा की दृष्टि से, पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए डायर्वर्सन मार्गों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- 90 भवन सेवाएं – विद्युत प्रतिष्ठापनाओं, वातानुकूल और ऊष्मा उत्पन्न करने के कार्य की योजना, डिजाइन तथा प्रतिष्ठापन, समय–समय पर, यथापुनरीक्षित संहिता के “भाग आठ— “भवन सेवाएं”, “भाग 2—विद्युत प्रतिष्ठापन” और “भाग 3—वातानुकूल तथा ऊष्मा उत्पन्न” करना के अनुसार किया जाएगा।
- 91 नलकारी सेवाएं – जल प्रदाय, जल निकास तथा स्वच्छता की योजना डिजाइन, निर्माण, और गैस प्रदाय पद्धति की योजना, डिजाइन, निर्माण पद्धति की योजना, प्रतिष्ठापन, समय समय पर, यथापुनरीक्षित संहिता के “भाग नौ—नलकारी सेवाएं” “भाग—1—जल प्रदाय”, “भाग 2—जल निकास तथा स्वच्छता” और “भाग 3—गैस प्रदाय” के अनुसार होगी।
- 92 भवनों में जल तथा गैस प्रदाय की आवश्यकता— विभिन्न अधिभोगियों के लिए जल एवं गैस प्रदाय की आवश्यकता उसकी उपलब्धता के अधीन रहते हुए कोड के संहिता के भाग—नौ में उल्लिखित अनुसार होगी।
- 93 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए, जल निकास, स्वच्छता की आवश्यकता— विभिन्न अधिभोगियों के लिये जल निकास, स्वच्छता, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित है, संहिता के भाग—नौ में दिए गए अनुसार होगी।

## (दस) अधिभोग की विशेष आवश्यकताएं

## 94 सिनेमा, थियेटर तथा सार्वजनिक सभा भवन—

- (1) प्राधिकारी द्वारा सिनेमा भवन के निर्माण के लिए तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप न हो।
- (2) सिनेमा/सभा भवनों का मार्ग नियमित पंक्ति के पीछे रखा जाना: कोई व्यक्ति, सिनेमा, थिएटर या सार्वजनिक सभा भवन के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु आशयित किसी भवन का निर्माण तब तक नहीं करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए विद्यमान भवन में परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि ऐसा भवन, मार्ग की नियमित पंक्ति से या यदि ऐसी कोई पंक्ति न हो तो मार्ग से कम से कम 9 मीटर पीछे न हो। यह और भी कि ऐसे भवनों की स्थिति नियम 53 के उपबंधों या विकास योजनाओं (यदि कोई हो) द्वारा शासित होगा तथा प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

## 95 मल्टीप्लेक्स के संबंध में उपबंध —

- (1) "मल्टीप्लेक्स" से अभिप्रेत हैं, ऐसा भवन जिसमें 2 या उससे अधिक सिनेमा हाल, शापिंग एरिया के साथ या उसके बिना हो।
- (2) मल्टीप्लेक्स अथवा मल्टीप्लेक्स—सह—शापिंग सेंटर— में अनुज्ञेय गतिविधियाँ निम्नानुसार होंगी :—
  - (क) मनोरंजन क्षेत्र जैसे :— दो अथवा अधिक स्क्रीन के सिनेमा हॉल, कॉर्सट हॉल, थ्री डी सिनेमा हॉल, विडियो गेम आर्केड, डिस्कोथेक, गो कार्टिंग, थ्री डायमेंशन एरिना, बोलिंग ऐली तथा अन्य गतिविधियाँ जो इस प्रवर्ग में आती हैं।
  - (ख) फुड जॉन परिसर, रेस्टोरेंट, केफे बार, लाउन्ज, बार, पब, आइसक्रीम पार्लर एवं अन्य इसी प्रकार की गतिविधियाँ।
  - (ग) लाजिंग क्षेत्र जैसे विश्राम कक्ष सहित होटल्स सूट्स आदि।
  - (घ) वाणिज्यिक स्थापना जिसमें दुकान, कार्यालय परिसर आदि सम्मिलित हैं।
- (3) उपनियम (2)(ग) तथा (2) (घ) में उल्लिखित गतिविधियाँ ऐसे क्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी जो कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (4) नए मल्टीप्लेक्स—सह—शापिंग सेंटर की स्थापना और पुराने सिनेमा हाल को मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे, —

नए मल्टीप्लेक्स—सह—शापिंग सेंटर की स्थापना और पुराने मल्टीप्लेक्स में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञा तथा मानदण्ड विकास योजना में दिए गए अनुसार होंगे। जहां नए मल्टीप्लेक्स—सह—शापिंग सेंटर भवन पुराने सिनेमा घर को मल्टीप्लेक्स में परिवर्तन के मानक शहर की विकास योजना में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित नहीं है और ऐसे क्षेत्र में, जहां विकास योजना प्रवृत्त नहीं है, नए मल्टीप्लेक्स—सह—शापिंग सेंटर की स्थापना और पुराने सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने के मानक निम्नानुसार होंगे,—

अनु क्रमांक	विकास के मानदण्ड	मल्टीप्लेक्स	मल्टीप्लेक्स कम—शापिंग	पुराने सिनेमा हाल को मल्टी प्लेक्स में बदलना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तल क्षेत्र अनुपात	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार
2	बैठने की क्षमता के लिए न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र	300 सीट तक	1200 वर्ग मीटर	प्रति सीट 4 वर्ग मीटर
		500 सीट तक	2000 वर्ग मीटर	प्रति सीट 4 वर्ग मीटर
		500 सीट से अधिक	@ प्रति सीट 4 वर्ग मीटर	प्रति सीट 4 वर्ग मीटर
3	अधिकतम आच्छादित भूतल	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4	(क) न्यूनतम खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) सामने	12.0 मीटर	12.0 मीटर	12.0 मीटर
	(ख) न्यूनतम खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) अन्य सभी तरफ	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार	6.0 मीटर
5	अधिकतम ऊँचाई (नीचे टीप (ख) भी देखिए)	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार	नियम 42 के अनुसार

6	जनसंख्या वाले कर्बों के लिए पार्किंग क्षेत्र	3.0 लाख तक	प्रत्येक 55 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिये एक कार स्पेस	प्रत्येक 55 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिये एक कार स्पेस	नीचे टीप (ग) के अनुसार
		3.0 लाख से 7.5 लाख तक	प्रति 50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक कार स्पेस	प्रति 50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक कार स्पेस	नीचे टीप (ग) के अनुसार
		7.5 लाख से अधिक	प्रति 45 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक कार स्पेस	प्रति 45 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक कार स्पेस	नीचे टीप (ग) के अनुसार
7	जनसंख्या वाले कर्बों के लिए भूखण्ड के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	3.0 लाख तक	18 मीटर	18 मीटर	12 मीटर
		3.0 से 7.5 लाख तक	24 मीटर	24 मीटर	12 मीटर
		7.5 लाख से अधिक	30मीटर	30मीटर	18 मीटर

- (क) मल्टीप्लेक्स हाल की स्पष्ट ऊंचाई 8 मीटर से कम नहीं होगी।
- (ख) मल्टीप्लेक्स इस प्रकार निर्मित किया जाएगा जिससे भवन की ऊंचाई 30 मीटर के भीतर रहे। प्राधिकारी, इस ऊंचाई से ऊपर, क्षेत्र की प्रयोग की अनुज्ञेयता के अनुसार अन्य गतिविधियां अनुज्ञात कर सकेगा।
- (ग) यदि मल्टीप्लेक्स में परिवर्तन के कारण, स्थानों (सीटों) की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, तो कोई अतिरिक्त पार्किंग अपेक्षित नहीं होगी, यदि परिवर्तन के कारण सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो अतिरिक्त पार्किंग अपेक्षित होगी। प्रति 12 सीट के लिए एक कार की जगह रखी जाएगी।
- (5) पार्किंग क्षेत्र की गणना – कुल पार्किंग क्षेत्र की गणना कार स्पेस के अनुसार निम्नलिखित को जोड़कर की जाएगी –

- (एक) तलघर का क्षेत्रफल वर्गमीटर में 35 वर्गमीटर से विभाजित कर
- (दो) भूमि के ऊपर का क्षेत्रफल वर्गमीटर में आच्छादित प्रार्किंग 30 वर्गमीटर से विभाजित कर ;
- (तीन) खुला स्थान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में 25 वर्गमीटर से विभाजित कर ;
- (चार) सीमान्त खुला स्थानों में पार्किंग अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
- (6) मल्टीप्लेक्स पूर्णतः वातानुकूलित होगा।
- (7) सार्वजनिक सुविधाएं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

#### 96. शापिंग माल की स्थापना –

- (1) शापिंग माल तथा खुले माल की स्थापना के लिए मापदण्ड निम्नलिखित होंगे:—

शापिंग माल तथा खुले माल की स्थापना के लिए अनुज्ञेयता तथा मानदण्ड विकास योजना में उल्लिखित अनुसार होंगे। जहां किसी नगर की विकास योजना में भवन, शापिंग माल तथा खुला माल के भवन के मानदण्ड स्पष्टतः नहीं दिए गए हैं और उन क्षेत्रों में जहां विकास योजना प्रवृत्त नहीं है, शापिंग माल तथा खुला माल स्थापित करने के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:—

सं.क्र.	विकास माप दण्ड		शॉपिंग मॉल	खुला मॉल
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) जबकि भूखण्ड लगा हुआ हो	सड़क की चौड़ाई 18 मीटर	1.50	1.50
		सड़क की चौड़ाई 24 मीटर	1.75	1.75
		सड़क की चौड़ाई 30 मीटर और अधिक	2.00	2.00
2.	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए	1500 वर्ग मीटर	5000 वर्ग मीटर
		3 से 5 लाख जनसंख्या वाले शहरों के लिए	2000 वर्ग मीटर	7500 वर्ग मीटर
		5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए	2500 वर्ग मीटर	10000 वर्ग मीटर
3.	अधिकतम भूतल आच्छादन	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
4.	न्यूनतम सीमान्त खुला क्षेत्र (एमओएस)	सामने	9.0 मीटर	12.0 मीटर
		पीछे	6.0 मीटर	7.5 मीटर
		बाजू में	6.0 मीटर	7.5 मीटर
5.	अधिकतम ऊँचाई	नियम 42 के	नियम 42 के	

सं.क.	विकास माप दण्ड	शॉपिंग मॉल	खुला मॉल
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र	अनुसार	अनुसार
		3 लाख जनसंख्या तक 3 से 5 लाख की जनसंख्या तक 5 लाख से अधिक जनसंख्या तक	प्रत्येक 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में एक कार पार्किंग स्पेस प्रत्येक 55 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में एक कार पार्किंग स्पेस प्रत्येक 50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में एक कार पार्किंग स्पेस
			प्रत्येक 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में एक कार पार्किंग स्पेस
7	अधिकतम ऊँचाई	3 लाख जनसंख्या तक 3 से 5 लाख की जनसंख्या तक 5 लाख से अधिक जनसंख्या तक	18 मीटर 24 मीटर 30 मीटर
8.	भूखण्ड के सामने न्यूनतम सड़क की ऊँचाई	18 मीटर	18 मीटर

(2) पार्किंग क्षेत्र की गणना:-

कार स्पेस के समतुल्य उपलब्ध कराया गया कुल पार्किंग क्षेत्र निम्नलिखित को जोड़कर गणना में लिया जाएगा:-

(एक) तलघर का क्षेत्रफल वर्गमीटर में 35 वर्गमीटर से विभाजित कर

(दो) कवर्ड पार्किंग (पोडियम/स्टिल्ट) का क्षेत्रफल वर्गमीटर में 30 वर्गमीटर से विभाजित कर

(तीन) खुला स्पेस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में 25 वर्गमीटर से विभाजित कर

3. इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सुविधायें प्रदाय की जायेंगी।

97. कारखानों एवं औद्योगिक संरचना – (1) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबन्ध लागू होगे।

- (2) कारखाने की स्थिति.— कारखाना स्थल की स्थिति, विकास योजनाओं, यदि कोई हो, के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे और ऐसे क्षेत्रों के लिये जहाँ कोई विकास योजना प्रवृत्त ना हो, संचालक के परामर्श से स्थल अनुमोदित होगा।
- (3) व्यापार संबंधी कूड़ा करकट तथा गंदगी के लिए व्यवस्था.— ऐसे कारखानों के मामले में जिसकी जल निकासी की व्यवस्था को, सार्वजनिक मल विकास पद्धति या नजदीकी प्राकृतिक जल प्रवाह से जोड़ने का प्रस्ताव हो, तो प्राधिकारी से और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल से व्यवस्थाएं करने हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

98. संकेत तथा बाहरी प्रदर्शन संरचना : संहिता के उपबंध लागू होंगे — इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, भवन तथा भूमि पर लगाये गये विज्ञापन संकेतों का प्रदर्शन समय—समय पर यथा पुनरीक्षित संहिता के भाग—दस—संकेत तथा बाहरी प्रदर्शन संरचना के अनुसार किया जाएगा।
99. अल्प आय गृह निर्माण समूह की विशेष अपेक्षाएः— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अल्प आय गृह निर्माण जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय गृह निर्माण योजना के लिए विशेष अपेक्षाए परिशिष्ट “अ” में दिये अनुसार होगी।
100. कुर्सी निर्माण संबंधी जांच हेतु सर्वेक्षण.— गगनचुंबी भवन में कुर्सी का निर्माण पूर्ण हो जाने पर, भवन का स्वामी प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा कि कुर्सी का निर्माण अनुज्ञेय आवृत्त क्षेत्र के अनुसार ही किया गया है। स्वामी एक सूचना, प्राधिकारी को देगा जो या तो प्रमाण पत्र जारी करेगा या यह आदेश देगा कि अनुमोदित स्थल रेखांक के अनुसार समुचित परिवर्तन किए जाने के आदेश देगा। स्वामी ऐसे अनुदेशों का, जो कि उसे इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिये जाएं, पालन करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर प्राधिकारी इस बात के लिए सक्षम होगा कि कुर्सी के ऐसे भाग को तोड़ दे जिसके संबंध में आपत्ति की गई थी। प्राधिकारी सूचना प्राप्ति के 15 दिन के भीतर या तो अपेक्षित प्रमाण पत्र या आदेश करेगा कि परिवर्तन किए जाएं, ऐसा करने में असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।
101. सर्विस प्रमाण पत्र जारी किया जाना.— भवन के सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर स्वामी सर्विस प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए प्राधिकारी को एक आवेदन देगा जिसके आधार पर सेवा संबंधी संयोजनों (सर्विस कनेक्शन्स) की विशेष कर पानी, मलनाली (सिवरेज) तथा बिजली (पावर) आदि की मंजूरी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी। प्राधिकारी सूचना प्राप्ति के 15 दिन के भीतर या तो अपेक्षित प्रमाण पत्र

या आदेश करेगा कि परिवर्तन किए जाएं, ऐसा करने में असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

102. पूर्णता का प्रमाण पत्र – प्रत्येक स्वामी भवन के पूर्ण हो जाने पर उसके अधिभोग के पूर्व प्राधिकारी से इस आशय का पूर्णता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा कि मंजूर की गयी योजना के अनुसार भवन पूर्ण हो गया है।
  103. विकास योजना के उपबंधों को पूर्वोच्चरण बनाया जाना— योजना क्षेत्र में लागू मानदण्ड तथा विनियम ऐसे होंगे जैसे कि सुसंगत विकास योजना में विहित हैं और इन नियमों के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार उपांतरित किये गए समझे जाएंगे जहां तक कि वे उक्त संबंधित योजना क्षेत्र में लागू होते हैं।
  104. कठिनाईयों का दूर किया जाना.— यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
  105. निरसन तथा व्यावृत्ति – मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा समय–समय पर उसमें किये गये संशोधन एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:
- परन्तु,—
- (क) इस निरसन का उक्त नियमों के पूर्व इंजीनियर, नगर योजना कारो इत्यादि को दी गई अनुज्ञाप्तियों, प्रचालन या उनके अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;
  - (ख) इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन—पत्र, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लंबित हो तो वह इन नियमों अर्थात् मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार निरंतर बना रहेगा तथा निपटाया जाएगा;
  - (ग) इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर यह नियम लागू होते हो, उसके अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगी जो कि निरसित नियमों के अधीन प्रोद्भूत हुआ हो;

परिशिष्ट 'क'-1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा  
हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

---



---



---

महोदय,

मैं नगर \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ के  
कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार \_\_\_\_\_ ग्राम \_\_\_\_\_ में स्थित खसरा कमांक  
\_\_\_\_\_ भू-खण्ड कमांक \_\_\_\_\_ क्षेत्र \_\_\_\_\_ हेक्टर/ वर्ग मीटर \_\_\_\_\_  
(विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम  
16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा  
वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञाप्ति  
कमांक \_\_\_\_\_ जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित  
तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित  
करता हूँ—

1. मुख्य रेखांक नियम 16(3) अनुसार) :—————
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) :—————
3. उप विभाग/ अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) :—————  
(सबडिवीजन /ले-आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) :—————
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :—————
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शानेवाले  
दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) :—————

7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार :-----
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार :-----
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : -----
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :-----
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इल्ट्रॉनिक कापी :-----

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर -----

आवेदक का नाम -----

आवेदक का पता -----

ई-मेल पता -----

दूरभाष/मोबाइल नम्बर-----

दिनांक -----

## परिशिष्ट 'क' - 2

(नियम 14 देखिए)

स्थानीय प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति ,

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

महोदय,

मैं ————— कालोनी या मोहल्ला या बाजार ————— ग्राम या नगर ————— तहसील ————— जिला में स्थित भवन क्रमांक ————— भू-खण्ड क्रमांक या खसरा क्रमांक ————— क्षेत्रफल ————— वर्गमीटर या हेक्टेयर ————— निर्माण के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार परिनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे द्वारा तथा ————— वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर या पर्यवेक्षक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) ————— जो कि उस परिनिर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड एवं साफ्ट कापी में) निम्नलिखित दस्तावेज, योजना तथा चार प्रतियों में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

1. मुख्य रेखांक (की-प्लान) :————
2. रथल रेखांक (साईट प्लान) :————
3. उपविभाग / अभिन्यास  
(सबडिवीजन / ले-आउट प्लान) :————
4. भवन नक्शे (प्लान्स) :————

5. सेवा आयोजना(सर्विस प्लान) :-----
6. विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन), सामान्य तथा विस्तृत :-----
7. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व/कोई विधिक अधिकार (लीगल राईट) के सबूत दिखाते हुए दस्तावेज :-----
8. नजूल अनापत्ति की काँपी :-----
9. आवेदन शुल्क की पावती की कापी :-----
10. इस आवेदन के साथ भू-स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें :-----  
(जहां आवेदन भू-स्वामी से भिन्न हो )
11. पार्किंग की गणना के साथ पार्किंग प्लान :-----
12. अनुक्रमांक 1 से 11 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :-----

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर	_____
आवेदक का नाम	_____
आवेदक का पता	_____
ई-मेल पता	_____
दूरभाष/मोबाइल नम्बर	_____
दिनांक	_____

प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सीधे उपयोग हेतु प्ररूप (फॉरमेट) तैयार किया जा सकता है।

## परिशिष्ट 'क' - 3

(नियम 15 देखिए)

विकास कर्ता द्वारा वास्तुविद् एवं संरचना (आर्किटेक्चरल एवं स्टक्चरल)

कार्य संबंधी घोषणा पत्र (भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लिए)

(समुचित भवन निर्माण तथा संरचना / डिजाइन सहित प्रस्तुत किया जाए)

द्वारा

(विकासकर्ता का नाम एवं पता)

प्रति,

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

विषय: \_\_\_\_\_ (कार्य का विवरण तथा पता)

प्रिय महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया भवन के प्रस्तावित संनिर्माण से संबंधित वास्तुविद् (आर्किटेक्चरल) कार्य मेरे / हमारे द्वारा श्री \_\_\_\_\_ (वास्तुविद् का नाम एवं पता) को सौंपा गया है।

और यह कि ऊपर उल्लिखित भवन के प्रस्तावित संनिर्माण हेतु संरचना इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्सी सर्विस डिजाइन का कार्य मेरे / हमारे द्वारा \_\_\_\_\_ (संरचना इंजीनियर का नाम एवं पता) को अनुमोदन हेतु सौंपा गया है।

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

विकासकर्ता का नाम

### परिशिष्ट 'क' – 4

**(नियम 15 देखिए)**

**भवन योजना तथा संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) डिजाइन संबंधी सुरक्षा अपेक्षाएं  
समाधान से संबंधित घोषणा पत्र (भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लिए)**

(रथानीय प्राधिकारी से भवन संनिर्माण की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए रेखांक के साथ निम्नलिखित प्रमाण –पत्र भवन के रेखाचित्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं)

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन संनिर्माण के लिए अनुमोदन से संबंधित अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए भवन रेखांक में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 88 के सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को नियत समय में पूरा किया गया है तथा उसमें दी गई सूचना मेरे/हमारे ज्ञान तथा विश्वास से तथ्यात्मक रूप से सत्य है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भवन के डिजाइन में मिटटी की स्थिति पर आधारित प्राकृतिक परिसंकटों से सुरक्षा सहित संरचना डिजाइन को सम्यक् रूप से सम्मिलित किया गया है और संनिर्माण के दौरान इन उपबंधों का पालन किया जाएगा।

स्वामी/आवेदक के हस्ताक्षर वास्तुविद् के हस्ताक्षर तारीख, इंजीनियर/संरचना इंजीनियर तारीख, नाम एवं पते सहित      नाम एवं पते सहित      के हस्ताक्षर तारीख, नाम एवं पते सहित

## परिशिष्ट 'क' – 5

(नियम 15 देखिए )

संरचना रूपांकन कार्य के समनुदेशन संबंधी संरचना इंजीनियर द्वारा घोषणा (भूकम्प संभावित क्षेत्रों/ ऊँचे भवनों के लिए)

(भवन संनिर्माण के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाए)

द्वारा

(संरचना इंजीनियर का नाम एवं पता)

प्रति ,

स्थानीय प्राधिकारी

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

विषय: \_\_\_\_\_ (कार्य का विवरण तथा पता)

प्रिय महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित भवन के संनिर्माण हेतु संरचना इंजीनियर कंसल्टेन्सी सेवा/ रूपांकन का कार्य मुझे/ हमें \_\_\_\_\_ (भवन निर्माता का नाम तथा पता) द्वारा सौंपा गया था तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर

दिनांक \_\_\_\_\_

## परिशिष्ट 'क' - 6

(नियम 15 देखिए)

वास्तुविद् द्वारा संरचनात्मक रूपांकन कार्य समनुदेशन संबंधी घोषणा पत्र. (भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लिए)

द्वारा

(भवन वास्तुविद् का नाम एवं पता)

प्रति,

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

विषय: —————— (कार्य का विवरण तथा उसका पता)

प्रिय महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत भवन निर्माण का वास्तुकला संबंधी कार्य मुझे/हमें —————— (भवन निर्माता/स्वामी का नाम एवं पता) द्वारा सौंपा गया था।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/ हमारे द्वारा तैयार की गई भवन ड्राइंग मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तथा ये भारतीय मानक 4326-1993 के विशेष निर्माण अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

वास्तुविद् के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

तारीख ——————

## परिशिष्ट 'क' – 7

(नियम 15 देखिए)

परियोजना हेतु रेनफोसर्ड कांकीट के लिए सरंचना इंजीनियरिंग रूपांकन  
उपलब्ध कराने का फारमेट (भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लिए)

1. सरंचना इंजीनियर का नाम एवं पता :-----
2. अनुज्ञाप्ति क्रमांक :-----
3. कार्य का विवरण :-----
4. कार्य स्थल :-----
5. स्वामी/पक्षकार(क्लाइंट) का नाम एवं पता :-----
6. मानचित्रों का वास्तुविद संदर्भ :-----

ऊपर उल्लिखित कार्य के लिये संरचना रूपांकन तथा मानचित्र तैयार करने में इस प्रपत्र में दिए गए रूपांकन मानदण्डों का मेरे/हमारे द्वारा पालन किया गया है।

भारतीय मानक के प्रचलित कोड –

1. भारतीय मानक 456 –2000 इंडियन स्टेण्डर्ड फार प्लेन एण्ड रेनफोसर्ड कांकीट.
2. भारतीय मानक 875–1978 डिजाइन लोड्स (भूकम्प को छोड़कर)
3. भारतीय मानक 1893–1984 इंडियन स्टेण्डर्ड फार अर्थक्वेक रजिस्टरेंट डिजाइन आफ स्ट्रक्चर.

सरंचना इंजीनियर के हस्ताक्षर

अनुज्ञाप्ति क्रमांक

दिनांक -----

परिशिष्ट 'क' – 8

(नियम 15 देखिए)

**वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर/ इंजीनियर एवं स्वामी द्वारा पूर्णता (समापन) प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने हेतु संयुक्त घोषणा पत्र (भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लिए)**

(भवन निर्माण पूर्ण होने पर तथा अधिभोग लेने के पूर्व वास्तुविद् एवं संरचना इंजीनियर संयुक्त रूप से स्वामी के साथ भवन का निरीक्षण करेंगे एवं स्थानीय प्राधिकारी को, भवन के पूर्ण होने की एक रिपोर्ट यह कथित हुए करेंगे कि कार्य अनुमोदित योजना तथा रूपांकन के अनुसार किया गया है।)

**घोषणा पत्र :** भवन निर्माता/स्वामी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय निम्नलिखित घोषणा की जाए :—

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन मंजूर किए गए मानचित्र एवं संरचना रूपांकन के अनुसार निर्मित किया गया है। (निर्माण तथा संरचना मानचित्रों की यथा निष्पादित एक प्रति संलग्न है) जैसा कि संबंधित भारतीय कोड/मानक में यथा विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के उपबंधों में उल्लिखित करता है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संनिर्माण हमारे पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन तथा प्रस्तुत किए गए मानचित्र के अनुरूप तथा हमारे द्वारा ऊपर संधारित पर्यवेक्षण अभिलेख के अनुरूप किया गया है।
3. मानचित्रों में पश्चात्वर्ती परिवर्तन का पूर्ण दायित्व स्वामी का होगा।

स्वामी/भवन निर्माता के हस्ताक्षर तारीख, नाम तथा पता सहित

वास्तुविद् के हस्ताक्षर तारीख, इंजीनियर/संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर तारीख, नाम तथा पता सहित

## परिशिष्ट 'क' — 9

(नियम 15 देखिए)

वास्तुविद् द्वारा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र।

भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र/ तीन मंजिल से अधिक भवनों हेतु)

— नगर पालिका/नगर पालिक निगम/पंचायत पत्र क्रमांक .....  
 ..... दिनांक ..... द्वारा अनुमोदित कार्य, संनिर्माण के दौरान कार्य का  
 पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्य अनुमोदित  
 मानचित्र के अनुसार पूर्ण हो चुका है।

वास्तुविद् के हस्ताक्षर

नाम —————

पता —————

दूरभाष —————

## परिशिष्ट 'क' – 10

(नियम 15 देखिए)

भवन निर्माता द्वारा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र.

(500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र/ तीन मंजिल से अधिक भवनों हेतु)

स्वीकृतकर्ता (मंजूरी) प्राधिकारी पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....द्वारा  
अनुमोदित मानचित्र के अनुसार तथा वास्तुविद् तथा संरचना इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप दिए  
गए रूपांकन (डिजाइन) के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा निमार्ण कार्य पूर्ण कराया गया है।

(टीप— पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्रों का उपयोग किया जाए)

भवन निर्माता के हस्ताक्षर

नाम ——————

पता ——————

दूरभाष ——————

## परिशिष्ट 'क' - 11

(नियम 15 देखिए)

संरचना इंजीनियर द्वारा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र.

(500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र/तीन मंजिल से अधिक भवनों हेतु)

पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा संनिर्माण के दौरान कार्य का पर्यवेक्षण किया गया है तथा प्रमाणित किया जाता है कि उसे मेरे/हमारे द्वारा तैयार किये गये रूपांकन (डिजाइन) के अनुसार निर्माण कार्य हुआ है।

संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर

नाम ——————

पता ——————

दूरभाष ——————

**परिशिष्ट ”ख“**  
**(नियम 16(9) देखिए)**

**पर्यवेक्षण के लिए प्ररूप**

मैं, एतद्वारा करता हूँ कि भवन क्रमांक —————या भू-खण्ड क्रमांक————  
 कालोनी/मार्ग क्रमांक———— मोहल्ला/बाजार/सड़क————  
 शहर————पर स्थित———— मैं, का विकास कार्य निर्माण, पुनर्निर्माण या  
 भौतिक परिवर्तन का कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया जाएगा और मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि  
 समस्त सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) और कार्य की कारीगरी सामान्य रूप से इसके साथ प्रस्तुत  
 की गयी सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप होंगी और कार्य स्वीकृत रेखाओं के  
 अनुसार किया जाएगा।

1. वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/ इंजीनियर/ पर्यवेक्षक/ निवेशक के हस्ताक्षर————
2. वास्तुविद्/ संरचना इंजीनियर/ इंजीनियर/ पर्यवेक्षक/ नगर निवेशक का  
नाम————
3. वास्तुविद् की दशा में परिषद् से उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक————
4. संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर निवेशक की अनुज्ञाप्ति का  
क्रमांक————
5. वास्तुविद् /संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर निवेशक का  
पता————
6. परिषद् से अनुज्ञाप्ति/रजिस्ट्रीकरण की वैधता की तारीख————

तारीख————

## परिशिष्ट “ग”

(नियम 26 देखिए)

(अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी का नाम तथा पता)

संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक /नगर निवेशक के रूप में कार्य करने के लिए  
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अधीन अनुज्ञाप्ति जारी करने हेतु प्ररूप

अनुज्ञाप्ति क्रमांक \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

यह अनुज्ञाप्ति श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ (नाम तथा पता) \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ की (अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी का नाम) (संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर निवेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जैसा कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अधिकथित है, मंजूर की जाती है यह अनुज्ञाप्ति दिनांक /—/— को समाप्त होगी। अनुज्ञाप्तिधारी ने रसीद क्रमांक \_\_\_\_\_ पुस्तक क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के अनुसार \_\_\_\_\_ रूपये की फीस का भुगतान किया है।

यह अनुज्ञाप्ति नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन होगी।

रथान : \_\_\_\_\_

प्राधिकारी की मोहर

अनुज्ञाप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकृत  
अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

दिनांक \_\_\_\_\_

शर्ते

1. अनुज्ञाप्ति अहस्तांतरणीय है।
2. अनुज्ञाप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस अनुज्ञाप्ति की मूल प्रति प्रदर्शित करेगा और सभी युक्तियुक्त समयों पर —————— के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा (अधिकारिता रखने वाला अधिकारी) उसके अध्यधीन निरीक्षण किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञाप्तिधारी अनुज्ञाप्ति की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसका नवीकरण कराएगा।
4. अनुज्ञाप्तिधारी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों का पालन करेगा और इस अनुज्ञाप्ति के निबंधन के अंतर्गत कार्य करेगा।
5. अनुज्ञाप्तिधारी की सक्षमता मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
6. समूह या अभिकरण :— जब कोई अभिकरण या कोई अहता प्राप्त वास्तुविद् या इंजीनियर या नगर निवेशक का समूह कार्य कर रहा हो, तब कार्य की अहता और सक्षमता उस समूह या अभिकरण में व्यक्ति विशेष की उच्चतम सक्षमता के समतुल्य होगी।
7. अनुज्ञाप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किए गए पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी सुसंगत अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
8. अनुज्ञाप्तिधारी तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञाप्ति क्रमांक लिखेगा और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
9. यह अनुज्ञाप्ति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगी और इन शर्तों में से किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अनुज्ञाप्तिधारी के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कोई विधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञाप्ति रद्द हो जाएगी।

अनुज्ञाप्ति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी  
के हस्ताक्षर एवं पदनाम

## परिशिष्ट "घ"

(नियम 27 देखिए)

विकास अनुज्ञा/भवन की अनुज्ञा की स्वीकृति करने या  
उसकी अस्वीकृति के लिए प्ररूप

प्रति,

महोदय,

खसरा क्रमांक \_\_\_\_\_ भू-खण्ड क्रमांक \_\_\_\_\_ कालोनी/मार्ग \_\_\_\_\_  
 मोहल्ला/बाजार \_\_\_\_\_ नगर \_\_\_\_\_ में भूमि के विकास /भवन  
 निर्माण हेतु अनुज्ञा की स्वीकृति के लिए आपके आवेदन क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक  
 \_\_\_\_\_ के संदर्भ में, मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित  
 आधारों पर निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति  
 दी गई है/प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

कार्यालय की मोहर

प्राधिकारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

प्राधिकारी का नाम,

पदनाम तथा पता \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

## परिशिष्ट "ड."—1

(नियम 31(2) (घ) देखिए)

कार्य प्रारंभ करने की सूचना

प्रति,

संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

महोदय,

मैं एतद्वारा, यह सूचित करता हूँ निर्माण/पुनर्निर्माण/तत्त्विक परिवर्तन के कार्य हेतु मुझे दी गई भवन अनुज्ञाप्ति कमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के अनुसरण में (वास्तुविद्/ सरचना इंजीनियर(आदि का नाम) के पर्यवेक्षण में दिनांक \_\_\_\_\_ से कार्य प्रारम्भ करूगा।

दिनांक \_\_\_\_\_

आवेदक या स्वामी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

आवेदक या स्वामी का नाम \_\_\_\_\_

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक या स्वामी का पता \_\_\_\_\_

परिशिष्ट ड. -2

(नियम 31(2)(ड.) देखिए)

**कुर्सी स्तर पर भवन के निरीक्षण के लिए सूचना**

प्रति,

संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

महोदय,

मैं एतद्वारा, अधिसूचित करता हूँ कि भवन क्रमांक ————— भू-खण्ड क्रमांक ————— कालोनी/मार्ग ————— मोहल्ला/बाजार/सड़क ————— नगर ————— में निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन, जिसके लिए ————— को प्रारम्भ करने की सूचना दी जा चुकी है, कुर्सी स्तर तक पहुंच चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर कार्य का निरीक्षण कर लें तथा उसके बाद मैं उपयुक्त कुर्सी स्तर से ऊपर का निर्माण कार्य प्रारंभ करूँगा।

उक्त कार्य आपके द्वारा दी गई अनुज्ञा क्रमांक ————— दिनांक ————— के अंतर्गत आता है तथा अनुज्ञाप्त वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर निवेशक ————— (नाम) ————— लायसेन्स नंबर ————— अनुज्ञाप्ति क्रमांक ————— के पर्यवेक्षणाधीन स्वीकृत रेखांक क्रमांक ————— दिनांक ————— के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर —————

आवेदक अथवा स्वामी का नाम —————

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता —————

दिनांक —————

**परिशिष्ट ड. —3**  
**(नियम 31(2) (च) देखिए)**  
**कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्ररूप**

प्रति,

संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

महोदय,

मैं एतद्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि भवन क्रमांक ————— या भू—खण्ड क्रमांक—— कालोनी/मार्ग ————— मोहल्ला/बाजार/सड़क ————— नगर ————— में भूमि का विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा मंजूरी रेखांक क्रमांक ————— दिनांक ————— के अनुसार दिनांक ————— को कार्य मेरे सर्वोत्तम समाधान, कारीगरी के अनुसार पूर्ण किया गया है तथा सभी सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) का उपयोग तथा सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किया गया है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के किसी भी उपबंध, की गयी किसी भी अध्यपेक्षा का, विहित किसी भी शर्त का या जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन कार्य के दौरान नहीं किया गया है। भूमि ऐसे निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसका विकास या पुनर्विकास किया गया है या भवन उस उपयोग के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसका निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा उसमें वृद्धि की गई है। मैं सभी दृष्टियों से पूर्ण भवन के रेखांक भी संलग्न करता हूँ।

मैं निवेदन करता हूँ कि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।  
वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/  
पर्यवेक्षक/नगर निवेशक के हस्ताक्षर —————  
वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/  
पर्यवेक्षक/नगर निवेशक का नाम(स्पष्ट अक्षरों में) —————  
वास्तुविद् परिषद् का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक  
या संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर निवेशक  
की अनुज्ञाप्ति का क्रमांक —————  
आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर —————  
आवेदक अथवा स्वामी का नाम एवं पता —————  
(स्पष्ट अक्षरों में)  
दिनांक —————

परिशिष्ट ड. -4

(नियम 31(2)(छ) देखिए)

दखलकारी अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप

प्रति,

संबंधित स्थानीय प्राधिकारी

महोदय,

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/ इंजीनियर/ पर्यवेक्षक,  
रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञाप्ति क्रमांक ————— के पर्यवेक्षण के अधीन भू—खण्ड क्रमांक  
कालोनी/ मार्ग ————— मोहल्ला/ बाजार/ सड़क —————  
नगर स्थित भवन क्रमांक ————— का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के पूर्ण किए गए  
है। कृपया मुझे उक्त भवन के लिए दखलकारी अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर —————

दिनांक —————

**परिशिष्ट च**  
**(नियम 37(1) देखिए)**  
**भाग – एक**

ऐसे उद्योगों की सूची, जो परिक्षेत्र (जोन) आर-1 में अनुज्ञात है नीचे दिए गए हैं:—

1. अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि
2. कैन (छड़ी) तथा बांस के उत्पाद
3. मिट्टी के बर्तन बनाना
4. जरी का कार्य
5. होजरी गारमेन्ट (वस्त्र) (होजरी कपड़े सम्मिलित नहीं हैं)
6. उत्पादक जैसे कि
  - (क) बलैंकों केक
  - (ख) स्कूल चाक
  - (ग) सिलाई चाक
  - (घ) क्रेयान चाक
7. खाद्य उत्पादन जिसमें आईस्कीम, मीठी गोलियां, जैम, जैली, सास, कैक, पापड़ तथा बड़ी, सुगंधित सुपारी, मक्खन आदि (कीमरी) सिकई, आलू चिप्स तथा पापकॉन सम्मिलित हैं।
8. पुस्तक जिल्दसाजी
9. फोटो तथा दर्पण की मढ़ाई (फेमिंग) (फेम बनाना नहीं)
10. सिलाई तथा तैयार वस्त्र
11. धागे की रील
12. घरेलू विद्युत तथा विद्युत सामग्री को तैयार करना तथा उनकी मरम्मत करना
13. छाता तैयार करना
14. हाथी दांत की नक्काशी
15. पुट्ठे के डिब्बे
16. खिलौने तथा गुड़िया (प्लास्टिक, मेकेनिकल या रबर को छोड़कर)

17. मोमबत्ती
18. बढ़ईगिरी (सिर्फ हाथ के औजारों से)
19. रैगजीन और चमड़े से बनी चमड़े की (फुटकर) तथा फैन्सी वस्तुएं
20. खादी चरखा
21. चश्मे
22. फोटोकापी तथा साईक्लोस्टाईल करना
23. स्टोक्ह पिनें, एल्युमिनियम के बटन
24. स्वेटर बुनाई
25. कसीदाकारी
26. लेखन स्याही
27. कपूर तथा फिनाईल की गोलियाँ
28. सफाई तथा डिटर्जेंट पावडर
29. रबर की मोहरें
30. सुसज्जित कांच की वस्तुएं
31. शिकाकाई तथा रीठे का चूरा
32. फाईल कवर
33. औद्योगिक दस्ताने
34. रिफिल (बाल पाइन्ट पेन)
35. नाखून पालिश
36. मिनिएचर इलेक्ट्रिक बल्ब डैकोरेटिव सीरीज (केवल तैयार करना अनुज्ञात होगा)
37. टाईपराइटरों तथा डुप्लीकेटरों की मरम्मत
38. साइकल की मरम्मत
39. विद्युत शक्ति की सहायता के बिना बीड़ी बनाना (केवल शारीरिक श्रम से)
40. 7.5 किलोवाट तक की आटा चक्की
41. कम्प्यूटिंग डिवाइसेस, जिनमें सम्मिलित है :—
  - (क) डेस्क टॉप कम्प्यूटर
  - (ख) पर्सनल कम्प्यूटर

- (ग) सर्वर्स
- (घ) वर्क स्टेशन
- (ड.) नोड्स
- (च) टर्मिनल्स
- (छ) नेटवर्क पी.सी (परसनल कम्प्यूटर)
- (ज) होम पी.सी.
- (झ) लेप-टॉप कम्प्यूटर
- (ञ) नोटबुक कम्प्यूटर
- (ट) पाम टाप कम्प्यूटर

42. नेटवर्क कन्ट्रोलर कार्ड्स / मेमोरीज जिसमें सम्मिलित है :-

- (क) नेटवर्क इन्टरफ़ेस कार्ड (एन.आई.सी)
- (ख) एडाप्टर इथरनेट / पी.सी.आई / ई आई एस ए / कोम्बो / पी सी एम सी आई ए
- (ग) एस आई एम एम एस मेमोरी (सिम मैमोरी)
- (घ) डी आई एम एम एस मेमोरी (डिम मैमोरी)
- (ड.) सेन्ट्रेल प्रोसेसिंग यूनिट (सी.पी.यू)
- (च) कन्ट्रोलर एस सी एस / एरे
- (छ) प्रोसेसर - प्रोसेसर / प्रोसेसर पावर मॉड्यूल / अपग्रेड

43. स्टोरेज यूनिट जिनमें सम्मिलित हैं :-

- (क) हार्ड डिस्क ड्राईव्स / हार्ड ड्राइव्स
- (ख) रेड डिवाईसेस एवं उनके कन्ट्रोलर्स
- (ग) फ्लापी डिस्क ड्राईव्स
- (घ) सी.डी.रोम ड्राईव्स
- (ड.) टेप ड्राईव्स - डी.एल.टी ड्राईव्स / डाट
- (च) आप्टीकल डिस्क ड्राईव्स
- (छ) अन्य डिजीटल स्टोरेज ड्राईव्स

(ज) सी.डी.राईट / रि-राईट डिवाईसेस

44. अन्य

- (क) की-बोर्ड
- (ख) मानीटर
- (ग) माउस
- (घ) मल्टी-मीडिया किट्स

45. प्रिन्टर्स एवं आउटपुट डिवाईसेस जिनमें सम्मिलित है :-

- (क) डाट मेट्रिक्स
- (ख) लेजर जेट
- (ग) इंक जेट
- (घ) डेस्क-जेट
- (ड.) लेड प्रिन्टर्स
- (च) लाईन प्रिन्टर्स
- (छ) जिलेटर्स
- (ज) पासबुक प्रिन्टर्स

46. नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जिनमें सम्मिलित हैं :-

- (क) हब्स
- (ख) रूटर्स
- (ग) इलेक्ट्रानिक स्वीचेस
- (घ) कान्सनट्रेटर्स
- (ड.) ट्रान्स-रिसीवर्स

47. साप्टवेयर जिनमें सम्मिलित है :-

- (क) एप्लीकेशन साप्टवेयर
- (ख) आपरेटिंग सिस्टम
- (ग) मिडिलवेयर / फर्मवेयर

48. कम्प्यूटर सिस्टम को विद्युत (पावर) (उपकरण) जिसमें सम्मिलित हैं :—
- स्विच मोड पावर प्रदाय (सप्लाईज)
  - अनइन्टेरेटेड पावर प्रदाय (सप्लाईज)
49. नेटवर्किंग / केवलिंग एवं संबंधित साधित्र (एसेसरीज) (आई टी इण्डस्ट्री से संबंधित):—
- फाईबर केबल
  - सिग्नल सिंगल केबल (कॉपर)
  - केबल्स
  - कनेक्टर्स, टर्मिनल्स, ब्लाक्स
  - जैक पेनल्स पेच पेनल्स
  - माऊंटिंग कोर्ड, पेच कोर्ड
  - बैंड बोर्ड, वाईरिंग ब्लाक्स
  - सरफेस माउण्ट बाक्सेस
50. कन्ज्यूमेबल जिसमें सम्मिलित हैं :—
- सी डी रोम / काम्पेक्ट डिस्क
  - फ्लापी डिस्क
  - टेप्स डी ए / डी एल टी
  - प्रिन्टर्स रिबन्स
  - टोनर्स (प्रिन्टर्स हेतु)
  - इंकजेट कार्टर्जेस
  - आउटपुट डिवाईसेस हेतु इंक (स्थाही)
51. इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेन्ट्स – सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) में कम्प्यूटर के लिए उपयोग में आने वाले जिनमें सम्मिलित हैं :—
- प्रिन्टेर्ड सर्किट बोर्ड एसेम्बली / पापुलेटेड
  - प्रिन्टेर्ड सर्किट बोर्ड / पी एल बी
  - ट्रांजिस्टर्स
  - इटीग्रेटेड सर्किट / आई.सी.एस

- (ड.) डायोड्स / थाईरिस्टर / एल ई डी
- (च) रेसिस्टर्स
- (छ) केपेसिटर्स
- (ज) स्विचेस (आन/ऑफ , पुश बटन, रोकर आदि)
- (झ) प्लग्स/साकेट/रिलेस (कम्प्यूटर/इलेक्ट्रानिक्स सामग्री के उपयोग में आने वाले)
- (अ) कम्प्यूटर डिवाईसेस हेतु मैग्नेटिक हेड्स तथा कम्प्यूटर प्रिन्टर्स हेतु प्रिन्ट हेड्स
- (ट) कनेक्टर्स
- (ठ) कम्प्यूटर में प्रयुक्त माइक्रोफोन / स्पीकर्स
- (ड) फ्यूजेस
52. टेलीकम्यूनीकेशन इक्विपमेन्ट्स जिनमें सम्मिलित हैं :—
- (क) वीडियोफोन
- (ख) फैक्स कार्ड्स
- (ग) मल्टीप्लेवर्सर्स / मक्सेस
- (घ) मॉडम
- (ड.) एन्टीना तथा मास्ट
- (च) वायरलेस डेटाकॉम इक्विपमेन्ट सेट को सम्मिलित करते हुए
- (छ) वीडियो तथा डिजीटल सिग्नलिंग दोनों के लिए टाप बाक्स
- (ज) व्ही सेठ (बी एस ए टी एस )
- (झ) वीडियो कान्फ्रेसिंग इक्विपमेन्ट
53. आई.टी इनेबेल्ड सर्विस जैसे ट्रॉसक्रिप्शन :—
- टिप्पणी:-1. उपरोक्त मद में संव्यवहार करने वाले थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, विपणन अभिकर्ता, वितरणकर्ता, परिपण(कन्साईनमेन्ट) तथा अग्रेषण अभिकर्ता सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।
2. अनुक्रमांक 40 के पश्चात् सूचीबद्ध उद्योगों हेतु " एक समय में 5 से अधिक कामगार नियोजित न किए जाए " – संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।

## भाग—दो

ऐसे उद्योगों की सूची, जो क्षेत्र आर—2 में अनुज्ञात की जा सकेंगी :—

1. अधिकतम 7.5 किलोवाट शक्ति की आटा चक्की
  2. प्रिंटिंग प्रेस अधिकतम 5 किलोवाट शक्ति
  3. हल्के वाहनों जैसे मोपेड तथा कारों के लिए सर्विस स्टेशन केवल 5 किलोवाट (अधिकतम)
  4. ड्राई क्लीनिंग, रंगाई तथा रफूगरी 3 किलोवाट (अधिकतम)
  5. तार उत्पाद 3 किलोवाट (अधिकतम) इन उत्पादकों में केवल निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
    - (क) पेपर पिन
    - (ख) ब्लाउज के हुक
    - (ग) जैम विलप
    - (घ) ग्लूड स्टैपन
    - (ङ.) परदे के छल्ले (रिंग);
    - (च) चाबी के छल्ले (की रिंग)
- उपरोक्त 1 से 5 तक उद्योगों के मामले में दो उद्योगों के बीच अंतर  $\frac{1}{2}$  किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए तथा निकटतम आवासीय भवन से अंतर 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ।
6. रुई, भराई लकड़ी नक्काशी तथा कलात्मक बर्तन, प्लास्टिक उत्पादक, कोपैज तथा पीतल उत्पादन, ब्लाक बनाना तथा उनका एनालार्जमेन्ट करने की अनुमति केवल ऐसे क्षेत्रों में 1 किलोवाट तक मोटिर पावर की दी जा सकती है जो ऐसे उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किये जाने तक बाजार केन्द्रों में दी जा सकती है ।

## भाग – तीन

निर्मित मदों की सूची जिसे 5 किलोवाट के सीमित विद्युतभार से वाणिज्यिक क्षेत्रों में अन्‌दी जा सकेगी ।

### वाणिज्यिक / होजरी/ कागज उत्पाद

1. मुद्रणालय
2. तेल धानी
3. जूतों के फीतें
4. फाईल के टेग
5. फाईल कवर (हाई बोड के )
6. आटो पेन्टिंग
7. सांचे से बना प्लास्टिक का सामान
8. प्लास्टिक मोल्डेड गुड्स
9. प्लास्टिक कम्प्रेशन मोल्डेड गुड्स
10. टायर कातला फिर से लगाना (बायलर सहित)
11. चश्में के कांच को धिसकर आकार देना
12. कागत उत्पाद :—
  - (एक) प्लेटें
  - (दो) कप
  - (तीन) लिफाफे
  - (चार) पीने की नली (ड्रिंकिंग स्ट्र.) तथा
  - (पांच) कागज की थैलियां
13. पुट्टे के डिब्बे
14. पोलीथीन की थैलियां (हाथ से बनायी हुई)
15. प्लास्टिक बरसाती , फाईल कवर , डायरी कवर तथा इसी प्रकार की वस्तुएं
16. बाल प्वाइन्ट पेन तथा फाउन्टन पेन
17. सोफों पर कपड़ा मढ़ाई कार्य

18. बैटरी रिचार्ज करना
19. साईकिल के सीट कवर
20. निकल करना
21. लाण्ड्री
22. दंत मंजन
23. अगरबत्ती
24. फाउन्टन पेन की रखाही तथा लेखन रखाही
25. बैकेलाईट विद्युत का सामान
26. मिठाईयां
27. डबल रोटी बनाना
28. जूते तथा चप्पल (सैंडल)
29. फोम लैदर के बेल्ट, यात्रा के प्रयोजन का सामान तथा इसी प्रकार का सामान
30. औद्योगिक चमड़े के दस्ताने
31. स्टोप की बत्तियां
32. प्रसाधन सामग्री
33. प्लास्टिक की नाम पट्टिकाएं
34. औषधीय गोलियां बनाना तथा कैपसूल भरना ओर द्रव्य भरना
35. मीठी सुपारी
36. आईस कैंडी
37. जैम, जैली , आचार , चटनी आदि
38. तैयार वस्त्र
39. सर्जिकल पट्टियां (बैंडेज)
40. धागे की रील बनाना
41. साइंटिफिक ग्लास एपरेटस
42. अभ्यास पुस्तिका(कापिया)
43. आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर)
44. रबर की मोहरें

45. रबर के गुब्बारे
46. मसाले पीसना
47. पान मसाला
48. डिटर्जेंट पाउडर
49. खेल का सामान
50. चाक रयोन्स
51. आटा चक्की(फलोर मिल)
52. घड़ी के पट्टे (पी व्ही सी )
53. मक्खन तथा दुग्ध उत्पाद
54. औषधियां पुनः पैक करना तथा इसी प्रकार का कार्य
55. ट्रांजिस्टर, रेडियो कवर (चमड़े के)
56. रंगाई तथा रफूगरी
57. फोटो स्टेट कापी सेन्टर तथा साइक्लोस्टाईल करना
58. स्वेटर आदि बुनना
59. विद्युत कशीदाकारी
60. बोल्टेज विद्युतीय(स्टैबलाईजर्स)
61. इलेक्ट्रिक मोटर बाइन्डिंग
62. रेफ्रीजरेटर मरम्मत करना
63. बैटरी एलीमिलेटर्स एण्ड चार्जर्स
64. ही फी स्पीकर्स
65. होटिंग एलिमेन्ट्स
66. डेकोरेशन सर्विस आफ मिनियेचर लेम्पस
67. एचिंग ऑफ पिन्टेड सरकिट बोर्ड्स
68. रमाल ट्रांसफार्मर्स एण्ड चोक्स
69. विद्युत घंटिया तथा बजर
70. आपातकालीन प्रकाश (लाईट)
71. एक दो बैण्ड वाले ट्रांजिस्टर रेडियो

72. लाउड स्पीकर के हिस्से जोड़ना (असेम्बल)
73. आर एफ/आई एफ ट्रांसफार्मर एण्ड ट्रूनिंग काइल्स
74. वायर बाउन्ड रेजिस्टर्स
75. एरियल/एण्टीना तथा रेडियो, रिसीवर /टी व्ही रिसीवर
76. इलेक्ट्रॉनिक फेन रेग्यूलेटर
77. इलेक्ट्रॉनिक लाईट डिमर्स
78. इलेक्ट्रॉनिक गैस लाईटर्स /सिगरेट लाइटर्स
79. इलेक्ट्रोमेकेनिकल क्रम्पोनेन्ट्स कार इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइन्स
  - (क) रोड रिलेज से भिन्न रवीच
  - (ख) रोड रिलेज से भिन्न सिलेड
80. इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक घरेलू उपयोग के उपकरणों की मरम्मत
81. स्कूटर तथा कार की मरम्मत तथा सर्विसिंग
82. सिलाई मशीन के हिस्से जोड़ना तथा मरम्मत
83. लिंक विलपस
84. पेपर पिन/जेम्ट किपल
85. जूतों के सुराख
86. एल्यूमीनियम के फर्नीचर
87. घड़ी के पट्टे (धातु के )
88. हेयर पिन
89. तार से बने किचन स्टेन्ड
90. छाते के हिस्से जोड़ना (असेम्बल)
91. झिलमिली चिक
92. बक्सूए
93. फाउन्टेन पेन निब
94. चश्मे के कब्जे
95. होजकलेम्पस
96. इमोटेशन ज्वेलरी

- 97. फाइल मेकेनिजम
- 98. एम एस बाशर्स
- 99. लकड़ी के खिलौने
- 100. लकड़ी के इलेक्ट्रिक फिटिंग
- 101. सामान वाहक (लगेज कोरेज )
- 102. फोटो मढ़ना
- 103. घड़ी की मरम्मत
- 104. सायकिल के हिस्से जोड़ना तथा मरम्मत
- 105. सुनारी

परिशिष्ट 'छ'

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रूलप

प्रति,

प्राधिकारी,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद्वारा शहर/जिला ————— मोहल्ला/बाजार/तहसील ————— कालोनी/गली/ ग्राम ————— में भू-खण्ड क्रमांक ————— खसरा क्रमांक ————— की भूमि के विकास /पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपर्युक्त योजनाएं तैयार करने के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रामाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर —————

आवेदक अथवा स्वामी का नाम —————

(स्पष्ट अक्षरों में)


आवेदक अथवा स्वामी का पता —————

दिनांक —————

## परिशिष्ट 'ज' -1

(नियम 81 (4) देखिए)

परकोलेशनशिपट्स के माध्यम से वर्षा के पानी की हारवेस्टिंग  
(एकल गृह)




प्लीनथ के चारों ओर 3 मीटर गहरे एवं 30 से.मी व्यास के परकोलेशनपिट्स 3-3 मीटर की दूरी पर खोदे जाए इनपिट्स को ईट के टूटे हुए टुकड़ों से भरा जाए ताकि इनपिट्स के ऊपरी भाग पर 15 से.मी. रेत भरी जाए। रिचार्ज की सुविधा के लिए प्रवेश द्वारा 7.5 से.मी. ऊंची डवार्फ वाल बनाई जावे।

परिशिष्ट 'ज - 2'

(नियम 81 (4) देखिए)

पीबलबेड के माध्यम से वर्षा के पानी की हारवेस्टिंग


(भवन परिसर )



अहाते की दीवाल से संलग्न आतंरिक परिधि में तीन ओर 1.5 मीटर गहराई तक 1 मीटर चोड़ा गड्ढा खोदा जाए तथा इसको 5 से 7.5 सेमी. आकार के गोल पत्थर (पीबल्स) से भरा जाए। टेरेस पर गिरने वाले पानी को इस पीबल बेड में बहने दिया जाए।

**परिशिष्टि "ज-3"**  
**(नियम 81 (4) देखिए)**

**सर्विस वेल सहरिचार्ज वेल के माध्यम से वर्षा पानी की हारवेस्टिंग**



(टेरेस) छत से वर्षा के पानी को नीचे ले जाने वाले पाईपों के माध्यम से कुंए में छोड़ा जाए जिसकी गहराई 10 मीटर तथा व्यास 1.2 मीटर हो। भवन के चारों ओर खुले स्थानों में गिरने वाले वर्षा के पानी को सामने के द्वार की तरफ मोड़ा जाए जहाँ 1 मीटर गहरी एवं 0.6 मीटर चौड़ी नाली की व्यवस्था की जाएगी जो कि छिद्रयुक्त स्लेब से ढंकी हो, प्रवेश द्वारा के सामने नाली में एकत्रित वर्षा का पानी आवश्यक पाइप व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए गए 10 मीटर गहराई के साथ 1.2 मीटर व्यास के दूसरे रिचार्ज कुंए में ऐतद्वारा छोड़ा जाएगा।

## परिशिष्ट 'झ'- 1

(नियम 84(1) देखिए)

## भू-खण्ड पर वाहन खड़े करने का स्थान

झ-1 (1) झ-2 से झ-6 में दिए गए अनुसार भू-खण्ड पर कार खड़ी करने के लिए छोड़े जाने वाले स्थान नियम 82 में दिए गए प्रकाश तथा संवातन प्रयोजनों के लिए छोड़े गए खुले स्थानों के अलावा होंगे। तथापि, कार के निर्वाध रूप से निकलने के लिए अपेक्षित कम से कम 6 मीटर स्थान में कठौती किए बिना 12 मीटर के सामने खुले स्थान में एक कतार में कार खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) इसके अलावा भवनों के आसपास इन नियमों के अधीन अपेक्षित खुले स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थानों का गाड़ी खड़े करने या माल चढाने या उतारने के लिए उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु भवन के चारों ओर 4.5 मीटर के न्यूनतम स्थान को किसी भी गाड़ी को खड़े करने, माल चढाने या उतारने के रूप में उपयोग किए जाने से मुक्त रखा जाएगा।

झ-2 मोटर गाड़ियां (कार) खड़ी करने के लिए दिए गए प्रत्येक भू-खण्ड का क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा स्कूटरों और साईकिलों को पार करने के लिए दिए गए स्थान का क्षेत्रफल कमाशः 1.25 वर्गमीटर तथा 1.00 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

झ- 3 विभिन्न दखलकारी भवनों के लिए भू-खण्ड पर गाड़ियों को खड़ा करने के लिए स्थान की व्यवस्था निम्नानुसार अनुबंधित की जाएगी।

(क) मोटर गाड़ियां – मोटर गाड़ियों(कारों) को खड़ा करने के समतुल्य निम्नलिखित सारणी में विविर्दिष्ट स्थानों की व्यवस्था की जाएगी :–

## सारणी

## भू-खण्ड पर वाहन खड़े करने का स्थान

अनुक्रमांक	अधिभोग	जनसंख्या 7,50,001 से अधिक	जनसंख्या 3,00,001 से 7,50,000	जनसंख्या 50,001 से 3,00,000	जनसंख्या 50,000 से कम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आवासीय	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@175 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
2.	शैक्षणिक	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@200 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@200 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
3.	संस्थागत	@75 वर्ग मीटर	@100 वर्ग मीटर	@ 125 वर्ग मीटर	@150 वर्ग

	(चिकित्सा)	निर्मित क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	मीटर निर्मित क्षेत्र
4. (एक)	सभाभवन , सिनेमा , नाट्यशाला	प्रत्येक 15 सीट	प्रत्येक 20 सीट	प्रत्येक 30 सीट	प्रत्येक 50 सीट
(दो)	उपाहार गृह	@ 50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@ 75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
(तीन)	विवाह भवन/ सामुदायिक भवन	भू-खण्ड क्षेत्रफल का 40% सामने	भू-खण्ड क्षेत्रफल का 35% सामने	भू-खण्ड क्षेत्रफल का 30% सामने	भू-खण्ड क्षेत्रफल का 25% सामने
5(एक)	निजी कारवार के लिए व्यवसायिक कार्यालय तथा फर्म	@75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
(दो)	शासकीय/ या अद्वै-शासकीय कार्यालय	@75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
6.	वाणिज्यिक	@50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
7.	औद्योगिक	@75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र
8.	भण्डारण	@75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@125 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	@150 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र

टिप्पणी – 1. 7,50,000 से अधिक की आबादी वाले नगर के लिए भू-खण्ड पर गाड़ी खड़ी करने के स्थान की आवश्यकताएँ मोटे तौर पर कालम(3) पर आधारित होगी और उन्हें इस तरीके से अपनाया जाएगा, जिससे नगर की बढ़ी हुई यातायात/यातायात के तरीके तथा वाहनों के स्वरूप के अनुरूप हो ।

(ख) अन्य प्रकार के वाहन— गैर आवासिक भवन के लिए, उपयुक्त (क) में उपबंधित गाड़ी खड़ी करने के क्षेत्रों के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के वाहन खड़े करने कि लिए 25 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी ।

झ—4 भू—खण्ड पर गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी ताकि सड़क पर वाहन कि लिए ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान रहे तथा चालान, गलियारा एवं वाहन के समुचित युक्ति चालक करने के लिए अपेक्षित अन्य उपबंध का क्षेत्र पार्किंग स्थान मे सम्मिलित नहीं होगा इन नियमों में नियत किया गया गाड़ी खड़ी करक का ।

झ—5 यदि इन नियमों द्वारा अपेक्षित गाड़ी खड़ी करने के कुछ स्थान की व्यवस्था सम्पत्ति स्वामियों के समूह द्वारा की जाती है तो इस स्थान के ऐसे उपयोग का अर्थ यह होगा कि इन नियमों के अंतर्गत यह वह स्थान भू—खण्ड पर गाड़ी खड़ी करने के स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वशर्ते कि प्राधिकारी का अनुमोदन हो ।

झ—6 वाणिज्यिक , व्यापारिक , औद्योगिक तथा भण्डारण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए भवनों की दशा में , माल चढाने तथा उतारने के लिए 3.5 मीटर X 7.5 मीटर का अतिरिक्त पार्किंग स्थान, फर्श क्षेत्र या उसके भाग का प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के लिए ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।

झ—7 गाड़ी खड़ी करने के स्थानों को फर्श बन्दी की जायेगी और उन्हे विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा ।

झ—8 गाड़ी खड़ी करने के ऐसे स्थानों के मामले में तलघरों में पर्याप्त चौड़ाई तथा ढाल के कम से कम दो राफ्टों (ढाल मार्गों) की व्यवस्था की जाएगी जो प्राथमिकता के आधार पर परस्पर विरोधी छोरो, पर हो तो 1:10 मीटर से अधिक ढाल की जाएगी ।

झ—9 आवासीय भू—खण्ड विकास की दशा में पार्किंग आवश्यकता घरों के 101—199 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए स्थान एक कार के आधार पर की जाएगी ।

परिशिष्ट 'झ' – 2

(नियम 84 (1) देखिए)

समतुल्य कार स्पेस

1. क्षेत्र की योजना – पार्किंग की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि खुले स्थान का न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थान लेण्ड स्केपिंग (नर्म सतह के) लिए छोड़ा जा सकेगा और उसे पार्किंग की गणना में न लिया जाए।
2. पार्किंग क्षेत्र की गणना – समतुल्य कार के स्थान के रूप में उपलब्ध कुल पार्किंग क्षेत्र की संगणना निम्नलिखित को जोड़कर की जाएगी :–
  - (क) बैंसमेन्ट में 35 वर्गमीटर से विभाजित कर वर्गमीटर में
  - (ख) भूतल पर कवर्ड पार्किंग (पोडियम/स्टिल्ट) 30 वर्गमीटर से विभाजित कर वर्गमीटर में
  - (ग) खुला स्थान 25 वर्ग मीटर से विभाजित कर वर्गमीटर में से विभाजित कर वर्गमीटर में

परिशिष्ट 'अ'

(नियम 99 देखिए)

अल्प आय निर्माण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय समूह)  
के लिए विशेष योजना सन्नियम

**अ-1. सामान्य**

- (1) निम्न आय गृह निर्माण (ई.डब्ल्यू.एस तथा एल.आई.जी) की दशा में विकास योजना तथा अपेक्षानुसार सामान्य भवन को इसमें यथा उपबंधित किया जाएगा। ये मानक समस्त ऐसे गृह निर्माण परियोजनाओं को लागू होंगे जो कि शासकीय विभाग तथा सार्वजनिक/निजी अभिकरणों द्वारा हाथ में लिये गए हैं।

(2) ऐसा विकास जहां तक संभव हो, 400 आवासीय इकाइयों के समूह पर लागू होना चाहिए जिनका विचाराधीन विकास में इस प्रकार वितरण किया गया हो कि क्षेत्र के लिए बनाई गई वृहद् आयोजना (मास्टर प्लान) के सम्पूर्ण घनत्व को कायम रखा जा सके।

### अ—2. आयोजना —

#### (1) विकास का प्रकार

अल्प आय समूह के लिये विकास का प्रकार निम्न प्रकार का हो सकेगा, —

- (क) भू—खण्ड विकास ;
- (ख) फ्लेट/समूह गृह निर्माण ;

#### (2.) घनत्व

आवासीय इकाइयों/हैक्टेयर का अधिकतम घनत्व निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा :—

#### सारणी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय समूह गृह निर्माण का अधिकतम घनत्व

(खण्ड अ 2(2) देखिए)

अनुक्रमांक	घनत्व आवासीय इकाइयों/हेक्टर		अनुज्ञात मंजिलों की संख्या
	इ.डब्ल्यू.एस	एल.आई.जी	
(1)	(2)	(3)	(4)
एक	130	85	1
दो	250	170	2
तीन	300	225	3

चार	350	260	4
-----	-----	-----	---

**टिप्पणी —**

1. एकल स्वामित्व वाले भू-खण्ड में किसी मकान को ऊपर की ओर बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी।
2. इन घनत्वों में खुले स्थलों, सुविधाजनक दुकानों, नर्सरी तथा भीतरी सड़कों और रास्तों की व्यवस्था करना सम्मिलित है। किन्तु इनमें समूह के चारों ओर की परिधीय सड़कें सम्मिलित नहीं हैं।
3. न्यूनतम घनत्व उपर्युक्त का 75 प्रतिशत होगा।
4. उपरोक्तानुसार चार मंजिला भवनों की ऊँचाई 12.5 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(3) (एक) भू-खण्ड का आकार / निर्मित क्षेत्र. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अल्प आय समूह के घरों का भू-खण्ड क्षेत्र अथवा निर्मित क्षेत्र ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार विनिश्चित करें। ग्राउण्ड कवरेज अधिकतम 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

(दो) न्यूनतम फन्टेज (समुख भाग). — भू-खण्ड का न्यूनतम अग्रभाग (फन्टेज) 3.6 मीटर होगा।

(4) भवन की ऊँचाई. भवन की ऊँचाई उपरोक्त उपनियम (2) (टिप्पणी-4) में यथाउल्लिखित होगी जो 12.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। भवन की ऊँचाई 12.5 मीटर से अधिक रखने की दशा में, लिफ्ट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति हेक्टर आवासीय इकाइयों के निबंधनों में घनत्व निर्धारण किए गए अनुसार होगा।

**अ—३. भवन संबंधी सामान्य अपेक्षाये :—**

निम्नलिखित सन्नियमों का पालन भी करना होगा :—

- (1) कुर्सी — कुर्सी की न्यूनतम ऊँचाई आसपास के भूतल से 30 सेन्टीमीटर होगी।
- (2) कमरे का आकार
- (क) निवास योग्य कमरा :—

- (एक) एक कमरे वाले मकान के मामले में बहुप्रयोजन, कमरे का आकार, जिसमें रसोई के लिए स्थान भी समिलित होगा, 10 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी ।
- (दो) दो कमरे वाले मकान के मामले में, कमरे का आकार 6.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.1 मीटर होगी :

परन्तु दोनों कमरों का कुल क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। वर्तमान गृह निर्माण के मामले में जबकि भविष्य में दो कमरे वाले मकान के रूप में विस्तार किया जाना हो तो बनाये जाने वाले कमरों का कुल क्षेत्रफल आरम्भिक तथा बाद की अवस्थाओं में 16 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए ।

**(ख) फलश, संडास, स्नानगृह :**

- (एक) पृथक् संडास का आकार  $0.9 \times 1.0$  मीटर होगा ।
- (दो) पृथक् स्नानगृह का आकार  $1.0 \times 1.2$  मीटर होगा ।
- (तीन) मिले –जुले स्नानगृह तथा फलश संडास का आकार  $1.0 \times 1.8$  मीटर होगा तथा इसकी एक कमरे वाले मकान के लिए अनुमति दी जा सकेगी ।

**(ग) रसोई घर :**

रसोई के स्थान रूप में प्रयुक्त होने वाले रसोई, आले का आकार 2.4 वर्ग मीटर और चौड़ाई भी 1.2 मीटर से कम नहीं होगी । दो कमरे वाले मकान में अलग से बनाये गये रसोई घर का आकार 3.3 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा उसकी चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होगी ।

**(घ) छज्जा :**

जहां पृथक रूप से छज्जे की व्यवस्था की गई हो वहां उसकी चौड़ाई 0.9 मीटर होगी ।

**(3) (क) न्यूनतम ऊंचाई**

कमरों /स्थानों की न्यूनतम ऊंचाई निम्नानुसार होगी :

(एक) आवासीय कमरा –	2.6 मीटर
(दो) रसोई घर—	2.4 मीटर
(तीन) फलश , संडास—	2.2 मीटर
(चार) गलियारा—	2.1 मीटर

**(ख) ढंलवा छतों के मामले में आवासिक कमरों के छत की औसत ऊंचाई 2.6 मीटर तथा छज्जे की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 2.0 मीटर होगी ।**

**(4) प्रकाश तथा संवातन.** प्रकाश तथा संवातन के लिए खिड़कियों, हवादानों (वेन्टीलेटर) तथा अन्य खुले भागों की व्यवस्था नियम 82 के उपनियम (3) में दिये गए अनुसार की जायेगी ।

**टिप्पणी:-** खिड़की तथा अनखुले भाग तथा अभिन्यासों में दिए गए अनुसार या तो भू-खण्ड के भीतर खुले छोड़े गये स्थानों के जरिये या सामने, बगल में तथा पीछे दिये गये स्थानों से जुड़े होंगे, जिन्हे प्रकाश तथा संवातन के लिये पर्याप्त व्यवस्था के रूप में माना जायेगा ।

5. जीना – निम्नलिखित मापदण्ड आंतरिक पृथक जीनों के लिए अपनाया जायेगा :–

(क) न्यूनतम चौड़ाई :–

(एक) 2 मंजिली – सीधी	—	0.60 मीटर
(दो) 2 मंजिली – घुमावदार	—	0.75 मीटर
(तीन) 3 या अधिक मंजिली – सीधी	—	0.75 मीटर
(चार) 3 या अधिक मंजिली – घुमावदार	—	0.90 मीटर

(ख) उद्धर्षी (राईजर) – 20 सेन्टीमीटर से अधिक

(ग) ड्रेड

(एक) 2 मंजिली	—	22.5 सेन्टीमीटर
(दो) 3 या अधिक मंजिली	—	25 सेन्टीमीटर न्यूनतम

टिप्पणी :– इसे 20 सेन्टीमीटर तक कम किया जा सकता है जो कि खड़े जोड़ों के बीच एक अच्छी पावड़ी होगी जिसमें खुले खड़े पट्टे (ओपन राईजर) और साथ ही सीमानाग्र (नोजिंग) तथा आनत खड़े पट्टे (इनरान्डाईजर) की सुविधा हो, ताकि 22.5 सेन्टीमीटर चौड़ाई की व्यवस्था हो सके।

(घ) निर्बाध ऊंचाई :–

न्यूनतम निर्बाध ऊंचाई 2.1 मीटर होगी।

6. परिसंकरण क्षेत्र :– जीना सहित किसी भी तल का परिसंकरण क्षेत्र :– जहां 4 आवासीय इकाईयों जीने के आसपास समूहबद्ध हो 2.0 वर्गमीटर / प्रति इकाई से अधिक नहीं हो। जहां 2 आवासीय इकाईयों समूहबद्ध हो 4.0 वर्गमीटर / प्रति इकाई से अधिक नहीं होगा।

अ-4. सड़कें तथा रास्ते :–

(1) ऐसी गृह निर्माण परियोजनाओं में सड़कों तथा रास्तों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सामान्यतः परियोजना के कुल भूमि क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आवासीय इकाईयों तक आना जाना विशेषकर उन स्थानों में जहां सामान्यतः मोटर गाड़ियों के आन जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, आने-जाने के लिये कम से कम 6 मीटर तक मार्ग के अधिकार हेतु पक्के फुटपाथ तथा

न्यूनतम 2 मीटर की पगडण्डी के जरिये होगी। मकान तथा पहुंचने का मार्ग इतना पर्याप्त होगा कि उसमें आपात गाड़ियों के निकलने तथा सड़क की ओर नालियों तथा पैड़ पौधों को लगाने की व्यवस्था हो। जहां मोटर गाड़ियों के आने-जाने के लिये व्यवस्था न हो तथा पैदल चलने वाले लोगों के लिये रास्तों की व्यवस्था हो, वहां ऐसे पैदल रास्तों की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर होगी जो अधिकतम 100 मीटर होगी।

- (2) सामुदायिक खुला क्षेत्र प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.2 हेक्टर से कम नहीं होगा, 1500 से की जनसंख्या पर 0.1 हेक्टर का एक नर्सरी स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रति हजार जनसंख्या पर 4 दुकानों का शापिंग सेन्टर (विक्रय केन्द्र) उपलब्ध कराया जाएगा।

#### **अ—5. अन्य आवश्यकताएः :-**

- (1) जहां पीने के पानी का प्रदाय पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, वहां एक नल प्रति आवासीय इकाई की व्यवस्था की जा सकेगी। यदि प्रदाय अपर्याप्त हो तो वहां सार्वजनिक नल (वाटर हाईट्रन्ट) की व्यवस्था की जायेगी। नलों द्वारा पानी की व्यवस्था न होने की स्थिति में हेण्डपम्प द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था की जा सकती है।
- (2) व्यक्तिगत स्वामियों को भू-खण्ड सौंपे जाने के पूर्व मूल आधारिक सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी।

#### **अ—6. स्थल तथा सेवाएः (सर्विस योजनाएः) :-**

- (1) संबंधित अभिकरण द्वारा इन नियमों के उपबंधों अनुसार सेवाओं(सर्विसेज) की व्यवस्था की जानी होगी।
- (2) अभिकरण स्थल तथा सेवाओं स्कीमों में भवनों के स्थान पर मकान उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी स्कीमें निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी :—
  - (क) स्थाई गृह निर्माण के लिये आधारित अवसंरचना इसमें ऊपर दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी;
  - (ख) भू-खण्ड में एक सेवा स्वच्छता कोर ; और
  - (ग) किसी विकसित कुर्सी (प्लिंथ) पर अस्थाई निर्माण।

परिशिष्ट "ट"

## प्ररूप—ड

(नियम 14(3) देखिए)

धारा 29(3) के अधीन, स्वीकृत अनुज्ञा में संशोधन के लिए आवेदन का प्ररूप

प्रति,

संचालक ,  
 नगर तथा ग्राम निवेश,  
 मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं/हम आपके द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई निम्नलिखित अनुज्ञा में संशोधन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं :—

(क) भूमि/भू-खण्ड का विवरण ————— (सड़क के नाम सहित स्थित जिस पर संपत्ति है /जिसके बाहर सीमा चिन्हों से जुड़ी है।

(ख) पूर्व अनुमोदन का आदेश क्रमांक तथा दिनांक —————

(2) आवेदित संशोधन के विस्तृत विवरण नीचे वर्णित किए गए हैं :—

मैं/हम इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूँ /करते हैं, अर्थात् :—

(क) पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की एक प्रति

(ख) पूर्व अनुज्ञा —— (आवासीय /वाणिज्यिक/ औद्योगिक/ सार्वजनिक प्रयोजन/अन्य) प्रयोजन हेतु थी ;

(ग) पूर्व में कार्यान्वित किए गए कार्य का (संक्षिप्त में) विवरण। पीले में निष्पादित पूर्व अभिन्यास की प्रति भी संलग्न की जाएः

(घ) पूर्व स्वीकृत अभिन्यास जिस पर प्रस्तावित संशोधन लाल रंग से दर्शाते हुए अभिन्यास की एक प्रति (उसी स्केल में जैसे कि पूर्व में अनुमोदित किया गया था)

(ङ.) प्रश्नगत भूमि का खसरा न0 ————— दर्शाते हुए खसरा प्लान के साथ भूमि तथा भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर आने वाले सटे हुए खसरा नंबर भी हो, का विवरण। भूमि लाल स्थायी से दर्शायी जानी चाहिए।

- (च) नवीन अभिन्यास की चार प्रतियां (जो कि अंतिम अभिन्यास होगा, यदि संशोधन उसी स्केल में अनुज्ञात किया गया है जैसा की पूर्व में अनुमोदन किया गया था।)
- (छ) एक सामान्य रिपोर्ट दर्शाते हुए कि प्रस्तावित विकास में संशोधन क्यों किये जा रहे हैं ?
- (ज) उन व्यक्तियों की एक सूची जिनके प्रस्तावित उपांतरणों से प्रभावित होने की संभावना है। (व्यक्तियों के नाम एवं विस्तृत पते सहित सूची संलग्न की जाए जिन्हें भूमि/भवन या इनका भाग या भू-खण्ड विक्रय किये गये हों या उनके पक्ष में बुक (निर्धारित) कर दिया गया हो या किसी भी तरीके से प्रभावित हो सकते हों।);
- (झ) व्यक्तियों या संस्थाओं की सूची जिसने आवेदक/विकासकर्ता को कोई ऋण उपलब्ध कराया है और ऐसे ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभूतियों का स्पष्ट विवरण ;
- (ञ) यदि कोई भूमि या भवन या उसका कोई भाग या कोई भू-खण्ड किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को बंधक (मॉर्डेज) रखा गया हो या कोई परियोजना के किसी भाग पर कोई ऋणभार (इन्कम्ब्रेन्स) उत्पन्न हुआ हो तो उसका विस्तृत विवरण ; और
- (ट) अन्य ब्यौरे (यदि कोई हों)
- (3) अभिन्यास ————— (रजिस्ट्रीकृतयोजनाकार/वास्तुविद/इंजिनियर/सर्वेक्षक का नाम) जिसका पंजीयन क्रमांक ————— तथा पता ————— द्वारा तैयार किया गया है।
4. मैंने नियमानुसार आवेदन शुल्क रु ————— जमा कर दिया है।
5. मैं अनुरोध करता हूँ की प्रस्तावित उपांतरण अनुमोदित किये जाएं तथा मुझे कार्य निष्पादन की अनुज्ञा दी जाए।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर —————

आवेदक का नाम —————

पता —————

ई—मेल पता

संपर्क(दूरभाष/मोबाइल न. —————

दिनांक —————

## परिशिष्ट ट

## प्रस्तुप-ढ

(नियम 14(3)(तीन) देखिए)

**धारा 29(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा मे उपांतरण की दशा में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु  
सार्वजनिक सूचना**

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि  
श्री/श्रीमती/मेसर्स— (आवेदक का नाम) द्वारा नीचे दिए गए अभिन्यास में  
उपांतरण हेतु आवेदन दिया है :—

- (क) परियोजना का नाम :—————
- (ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक) :—————
- (ग) विकास का प्रयोजन :—————
- (घ) स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक :—————

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है तो उसे परियोजना से जुड़े  
व्यक्तियों के हित प्रभावित होने की संभावना है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना  
के प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकेगा।  
प्रस्तावित उपांतरण का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय  
के दौरान किया जा सकता है।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

मध्यप्रदेश

परिशिष्ट ट  
प्ररूप—ए  
(नियम 22(क)(6) देखिए)

**धारा 30—क के अधीन भू—खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना**

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स ————— जो नगर/ग्राम ————— के खसरा कमांक ————— हेतु आदेश कमांक ————— दिनांक ————— द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित———— प्रयोजन के भू—खण्ड कमांक ————— के स्वामी हैं, और

श्री/श्रीमती/मेसर्स ————— जो नगर ————— ग्राम ————— के खसरा कमांक ————— में स्थित भूमि के हेतु आदेश कमांक ————— दिनांक ————— द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित ————— प्रयोजन के भू—खण्ड अथवा नगर / ग्राम ————— खसरा कमांक ————— रक्बा ————— भूमि जिसका भूमि उपयोग ————— है, के स्वामी हैं द्वारा उपरोक्त भू—खण्ड/भू—खण्ड एवं भूमियों के वर्गीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त मर्जर के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि /भू—खण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है।

संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
मध्यप्रदेश,

**परिशिष्ट ट**  
**प्ररूप—त**  
**(नियम 22(ख)(4) देखिए)**

**धारा 30—क के अधीन भू—खण्ड के विभाजन हेतु सार्वजनिक सूचना**

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स ————— ने, जो नगर तथा ग्राम ————— के भू—खण्ड क्रमांक ————— हेतु आदेश क्रमांक ————— दिनांक ————— द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित———— प्रयोजन के भू—खण्ड क्रमांक ————— के स्वामी हैं, द्वारा उक्त भू—खण्ड के विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विभाजन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व अनुज्ञा के ब्यौरे तथा विभाजित किये जाने वाले भू—खण्ड का निरीक्षण, हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है।

संचालक,  
 नगर तथा ग्राम निवेश,  
 मध्यप्रदेश,

परिशिष्ट ट

## प्रस्तुप—थ

(नियम 22(क)(1) देखिए)

## भू—खण्डों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुप

प्रति,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

महोदय,

मैं/हम निम्नलिखित मर्जर हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं :—

(एक) ————— परिसर का उपयोग भू—खण्ड क्रमांक ————— जो कि ————— स्थित है, आदेश क्रमांक ————— दिनांक ————— द्वारा स्वीकृत अभिन्यास का भाग है एवं जिसका स्वामी ————— है;

या

(दो) अवरिथत भू—खण्ड के खसरा क्रमांक ————— (ग्राम) ————— (क्षेत्र) ————— शहर —————/जिसका भूमि उपयोग ————— वर्गीकरण है। (जो लागू न हो उसे काट दें )

मैं एतद्द्वारा स्वयं के द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ तथा ————— (स्पष्ट अक्षरों में नाम) वास्तुवदि/संरचना इंजिनियर/इंजिनियर/सुपरवाईजर/नगर निवेशक, जिसका अनुज्ञाप्ति क्रमांक ————— है।

1. स्वीकृत अभिन्यास की एक प्रति
2. साईट प्लान .
3. विकास योजना मे दर्शाये अनुसार भूमि उपयोग .
4. भूमि का प्रमाणित खसरा अक्स (आसपास की भूमि एवं उनकी सीमायें दर्शाते हुए)
5. मर्जर भू—खण्ड (संयुक्तकृत भू—खण्ड) दर्शाते हुये प्रस्तावित अभिन्यास प्लान (अथवा भूमि के साथ विलीन भू—खण्ड) .

6. समरत भू-खण्ड / अंतर्वर्वलित भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
7. संबंधित अभिकरण जैसे गृहनिर्माण मण्डल, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि उसके द्वारा योजना (प्लान) विकसित किये गये थे ।
8. शपथ पत्र (आशय, कब्जे की स्थिति तथा भू-खण्ड / भूमि का न्यायालय में विवाद का विषय नहीं है स्पष्ट कथन करते हुए) .
9. शुल्क का भुगतान की रसीद की प्रति .
10. संलग्न भू-खण्ड के स्वामियों की सूची ।

मैं/हम अनुरोध करता हूँ /करते हैं कि मर्जर (विलीन) को अनुमोदित किया जाए ।

भू-स्वामियों के हस्ताक्षर ——————

भू-स्वामियों का नाम तथा पता ——————

संपर्क(दूरभाष / मोबाइल) क्रमांक—————

ई-मेल आई.डी—————

दिनांक—————

## परिशिष्ट ट

## प्ररूप—द

(नियम 22(ख)(1) देखिए)

## भू—खण्डों के विभाजन हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

महोदय,

मैं/हम, शहर /कालोनी/ग्राम———— की खसरा क्रमांक ————— पर  
 ————— भूमि के विकास आदेश क्रमांक ————— दिनांक ————— द्वारा पूर्व में  
 स्वीकृत प्लान में स्थित परिसर के उपयोग हेतु भू—खण्ड ————— के स्वामी हूँ/हैं।  
 मैं स्वयं के सम्यक् हस्ताक्षर द्वारा तथा————(स्पष्ट अक्षरों में नाम) वास्तुविद्/संरचना  
 इंजिनियर/इंजिनियर/सुपरवाईजर/नगर निवेशक जिनकी अनुज्ञाप्ति क्रमांक ————— है  
 निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ /करते हैं

1. स्वीकृत प्लान की एक प्रति .
2. साईट प्लान .
3. भू—खण्डों के विभाजन के पश्चात् प्रस्तावित अभिन्यास प्लान.
4. भूमि स्वामित्व/हक संबंधी दस्तावेज.
5. गृहनिर्माण मण्डल , विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , नगर विकास प्राधिकरण  
 का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि अपेक्षित हो).
6. भुगतान की रसीद की प्रति .

7. आशय, कब्जे की स्थिति तथा भूमि किसी भी न्यायालय में विवादित नहीं है, का स्पष्ट कथन करते हुए शपथ पत्र
8. संलग्न भू-खण्ड के स्वामियों की सूची।

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि ————— भू-खण्ड का विभाजन अनुमोदित किया जाए।

भू-स्वामी के हस्ताक्षर —————

भू-स्वामी का नाम तथा पता —————

संपर्क(दूरभाष/मोबाइल) क्रमांक —————

ई-मेल आई.डी —————

दिनांक —————

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ. 3-131-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-131-2012-बत्तीस, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 30th May 2012

F-3-131-2012-32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24. The State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 13 April 2012 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

## RULE

### PART-I

#### GENERAL

1. Short title.—(1) These rules, may be called the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012.